

# अष्टावक्र-गीता

भाषा-टीका-सहित

—०—

टीकाकार

रायवहादुर बाबू जालिमसिंह

S426

AST/JA2

66758



प्रकाशक

(राजा) रामकुमार-बुकडिपो, लखनऊ.

उत्तराधिकारी—नवलकिशोर-बुकडिपो, लखनऊ.

मुद्रक

श्री त्रिभुवननाथ धीर

(राजा) रामकुमार-प्रेस, लखनऊ

सन् १९२६ ई०

चतुर्थ बार ]

[ मूल्य ४ ]

## निवेदन

जब मैं पाठशाला में विद्याध्ययन करता था, तभी से हरिकीर्तन करने की, शुभ मार्ग पर चलने की, असत् मार्ग के त्याग और सन्मार्ग के ग्रहण की मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुआ करती थी ।

जब मैं इन्स्पेक्टर डाकरानेजात गोंडा और बहरायच का हुआ, तब गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी-कृत रामायण पढ़ने की और श्रीसत्यदेवजी स्वामी की कथा सुनने की अति रुचि उत्पन्न हुई । तदनुसार जो समय सरकारी काम करने से बचना था, उसमें भगवत्प्रागधन करने लगा ।

दैन्य की इच्छा से कभी-कभी महात्मा पुरुषों का सत्संग हो जाता, और उनसे वेदान्त-शास्त्र की सूर्यवत् वाणी को सुनकर अन्तःकरण के अन्धकार को नाश करने लगा ।

जब मैं लखनऊ में असिस्टेंट सप्लायमेंट होकर आया, तब ईश्वर की कृपा से मेरे पूर्व-जन्म के कर्म उदय हो गए, और परिणत श्री १०८ श्रीयमुनाशङ्करजी वेदान्तों का दर्शन हुआ । उनके सरल एवं प्रीतियुक्त उपदेश से मेरे यावत् तमोमय अन्धकार थे, सब नष्ट हो गये और मैं अपने शान्त, अद्वैत और निमल आत्मा में स्थित हो गया ।

जब परिणतजी का देहान्त हो गया, तब अन्य अनेक वेदान्ती षट्

परिदृष्टों और संन्यासियों का संग रहा। उनमें श्री १०८ स्वामी परमानन्दजी का भी संग होता रहा और उनकी सदा पूर्ण कृपा बनी रही।

जब मैं नैनीताल में पोस्टमास्टर था, तब यह इच्छा हुई थी कि वेदान्त के प्रसिद्ध ग्रन्थों को पदच्छेद, अन्वय और शब्दार्थ के साथ सरल मध्यदेशीय भाषा में अनुवाद करूँ। मेरे इस सत्सङ्कल्प को परमात्मा ने पूरा किया, तदर्थ उस परब्रह्म परमात्मा को कोटिशः धन्यवाद !!!

हरिः ॐ तत्सत्, हरिः ॐ तत्सत्, हरिः ॐ तत्सत्

निवेदक—

लाला शिवदयालुसिंहात्मज—

जालिमसिंह

पोस्टमास्टर-लखनऊ.

ग्राम—अकबरपुर.

जिला—फैजाबाद.



ॐ नमः परमात्मने

## उपोद्घात

एक समय राजा जनकजी धूमने जाते थे। राह में अष्टावक्रजी को आते हुए देखा और उन्होंने घोड़े से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। परन्तु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में घृणा यह उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ने इनका कैसा कुरूप शरीर रचा है। क्योंकि ऋषि के शरीर में आठ कुब्ज थे। इसी से उनका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था और जब वे चलते थे, तब आठ अंगों से वक्र याने टेढ़ा हो जाता था। इसी कारण उनके पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रक्खा था। परन्तु वे आत्मज्ञान में बड़े निपुण थे और योग-विद्या में भी बड़े चतुर थे। एव उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की घृणा को जान लिया और उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा—

अष्टावक्र उवाच—अष्टावक्रजी ने कहा कि हे राजन् ! जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है, और मंदिर के गोल किंवा लंबा होने से आकाश गोल किंवा लंबा नहीं होता है, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु आकाश निरवयव है और मंदिर सावयव है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के

साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर के बक्र आदिक धर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते हैं। अतएव हे राजन् ! ज्ञानवान् की आत्म-दृष्टि रहती है और अज्ञानी की चर्म-दृष्टि रहती है। इस कारण तू चर्म-दृष्टि को त्याग करके और आत्म-दृष्टि को ग्रहण करके जय देरेगा, तब तेरे चित्त से घृणा दूर हो जावेगी। हे राजन् ! चर्म-दृष्टि से अज्ञानी मूर्ख देखते हैं ज्ञानवान् नहीं देखते हैं।

ऋषि के अमृत-रूपी वचनों को सुन करके राजा के मन में आत्म-ज्ञान के प्राप्त होने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई, अतएव राजा ने ऋषि से प्रार्थना की कि हे भगवन् ! आप मेरे घर को पवित्र कीजिए और कुछ दिन वहाँ पर निवास करके मेरे चित्त के सदेहों को दूर करके मुझमें भी आत्म-दृष्टि को उत्पन्न कीजिए। तदनुसार ऋषिजी ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और राजा के साथ आये। उसके बाद राजा ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्चित करके एक सिंहासन लगाकर बड़े सत्कार से इसके ऊपर ऋषिजी को बैठाया और राजा अपने चित्त के सदेहों को पूछने लगा—

श्रीपरमात्मने नमः ।

# अष्टावक्र-गीता

भाषा-टीका-सहित

पहला प्रकरण ।

१ मूलम् ।

जनक उवाच ।

कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति ।  
वैराग्यं च कथं प्राप्तमेतद्ब्रूहि मम प्रभो ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

कथम्, ज्ञानम्, अत्राप्नोति, कथम्, मुक्तिः, भविष्यति, वैराग्यम्,  
च, कथम्, प्राप्तम्, एतद्, ब्रूहि, मम, प्रभो ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
प्रभो=हे स्वामिन् !		च=और	
कथम्=कैसे		वैराग्यम्=वैराग्य	
+ पुरुषः=पुरुष		कथम्=कैसे	
ज्ञानम्=ज्ञान को		प्राप्तम्=प्राप्त	
अवाप्नोति=प्राप्त होता है		भविष्यति=होवेगा	
+ च=और		एतत्=इसको	
मुक्तिः=मुक्ति		मम=मेरे प्रति	
कथम्=कैसे		ग्रही=ग्रहीण ॥	
भविष्यति=होवेगी			

## भावार्थ ।

राजा जनकजी अष्टावक्रजी से प्रथम तीन प्रश्नों को पूछते हैं—

- ( १ ) हे प्रभो ! पुरुष आत्म-ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है ?
- ( २ ) संसार-बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है अर्थात् जन्म-मरण-रूपी संसार से कैसे छूट जाता है ?
- ( ३ ) एवं वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है ?

राजा का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को, और उसके फल को; ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण को, और उसके फल को; मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को, और उसके भेद को मेरे प्रति विस्तार-सहित कहें ॥ १ ॥

राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्रजी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में चार प्रकार के पुरुष हैं । एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी, चौथा मूढ़ । चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्यय से रहित होता है और आत्मानन्द

करके आनंदित होता है, वही ज्ञानी होता है । परंतु राजा ऐसा नहीं है, किन्तु यह संशय करके युक्त है ।

एवं अज्ञानी भी नहीं है क्योंकि जो विपर्यय ज्ञान और असंभावनादिकों करके युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है, परंतु राजा ऐसा भी नहीं है । तथा जिसके चित्त में स्वर्गादिक फलों की कामनाएँ भरी हों, उसका नाम अज्ञानी है, परंतु राजा ऐसा भी नहीं है ।

यदि ऐसा होता, तो यज्ञादिक कर्मों के विषय में विचार करता, सो तो इसने नहीं किया है । एवं मूढ़बुद्धिवाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़बुद्धिवाला होता है, वह कभी भी महात्मा को दण्डवत्-प्रणाम नहीं करता है, किन्तु वह अपनी जाति और धनादिकों के अभिमान में ही मरा जाता है, सो ऐसा भी राजा नहीं है, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर, अपने भवन में लाकर, संसार-बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह राजा ने प्रश्नो को किया है । इसीसे सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात् मुमुक्षु है और आत्म-विद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के विना आत्म-विद्या की प्राप्ति नहीं होती, इस वास्ते अष्टावक्रजी प्रथम राजा के प्रति साधनों को कहते हैं ॥

मूलम् ।

अष्टावक्र उवाच ।

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषवत्त्यज ।  
क्षमार्ज्वदयातोषसत्यं पीयूषवद्भज ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

मुक्तिम्, इच्छसि, चेत्, तात, विषयान्, विषवत्, त्यज, क्षमार्ज्व, दयातोषसत्यम्, पीयूषवत्, भज ॥



अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
तात=हे प्रिय !		+ च=और	
चेत्=यदि		क्षमाज्जय-	} क्षमा, आज्ञा, =दया, सतोष और सत्य को
मुक्तिम्=मुक्ति को		दयातोष-	
इच्छसि=तू चाहता है, तो		सत्यम्	
विषयान्=विषयों को		पीयूषवत्=अमृत के सदृश	
विषवत्=विष के समान		भज-सेवन कर ॥	
त्यज=छोड़ दे			

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी जनकजी के प्रति कहते हैं कि हे तात ! यदि तुम ससार से मुक्त होने की इच्छा करते हो, तो चक्षु, रसना आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों के जो शब्द, स्पर्श आदि पाँच विषय हैं, उनको तू विष की तरह त्याग दे, क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार-चक्र-रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है, और इन विषयों के अत्यन्त भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है । एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता है । इसलिये ज्ञान के अधिकारी को अर्थात् मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है ।

प्रश्न—हे भगवन् ! विषय-भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता है, और जितने बड़े-बड़े ऋषि, राजर्षि हुए हैं, उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं । फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो ।

उत्तर—अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे राजन् ! आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैं, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात् पाँचों विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना, और सदैव उसीमें मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है । एवं जो प्रारब्ध-भोग से प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य-भाषण आदि का न करना किंतु प्राप्ति-काल में, उनमें दांप-दृष्टि और ग्लानि होनी, और उसके त्याग की इच्छा होनी, और उनकी प्राप्ति के लिये किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है । यह जनकजी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ ।

प्रश्न—हे भगवन् ! संसार में नंगे रहने को और भिक्षा माँगकर खानेवाले को लोग वैराग्यवान् कहते हैं और उसमें जड़भरत आदिकों के दृष्टांत को देते हैं । आपके कथन से लोगों का कथन विरुद्ध पड़ता है ।

उत्तर—संसार में जो मूढबुद्धिवाले हैं वे ही नंगे रहनेवालों और माँगकर खानेवालों को वैराग्यवान् जानते हैं और नंगों से कान फुकवाकर उनके पशु बनते हैं । परन्तु युक्ति और प्रमाण से यह वार्ता विरुद्ध है ।

यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान् होता हो, तो सब पशु और पागल आदिकों को भी वैराग्यवान् कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं । और यदि माँगकर खाने से ही वैराग्यवान् हो जावे, तो सब दीन-दरिद्रियों को भी वैराग्यवान् कहना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं कहते हैं । इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि नंगा रहने और माँगकर खानेवाले का नाम वैराग्यवान् नहीं है ।

यदि कहो कि विचार-पूर्वक नंगे रहनेवाले का नाम वैराग्यवान् है, यह भी वार्ता शास्त्र-विरुद्ध है, क्योंकि विचार के साथ इस वार्ता

का विरोध आता है। जहाँ पर प्रकाश रहता है, वहाँ पर तम नहीं रहता। ये दोनों, जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे सत्त्वगुण का कार्य—सत्य, और मिथ्या का विवेचन-रूपी विचार है और तमोगुण का कार्य नंगा रहना है। देखिए—वर्ष के बारहों महीनों में नंगे रहनेवालों के शरीर को कष्ट होता है। सरदी के मौसम में सरदी के मारे उनके होश विगड़ते हैं और उनके हृदय में विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता है। एवं गरमी और बरसात में मच्छर काट-काट खाते हैं, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुःखाकार बनी रहती है, विचार का गंधमात्र भी नहीं रहता है। तथा 'श्रुति' से भी विरोध आता है—

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥ १ ॥

यदि विद्वान् ने आत्मा को जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म में ही है, तब किसकी इच्छा करता हुआ और किस कामना के लिये शरीर को तपावेगा, किंतु कदापि नहीं तपावेगा। और 'गीता' में भी भगवान् ने इसको तामसी तप लिखा है। इसी से साबित होता है कि नंगे रहनेवाले का नाम वैराग्यवान् नहीं है, और नंगे रहने का नाम वैराग्य नहीं है, किंतु केवल मूर्खों को पशु बनाने के वास्ते नंगा रहना है। एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता है, निष्कामी नहीं करता है। तथा जड़भरतादिकों को अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त याद था।

एक मृगी के बच्चे के साथ स्नेह करने से, उनको मृग के तीन जन्म लेने पड़े थे, इसी वास्ते वह संगदोष से डरते हुए असंग होकर रहते थे।

पंचदशी में लिखा है—

नद्याहारादि संत्यज्य भरतादिः स्थितः क्वचित् ।

काष्ठपापाणवत् किन्तु संगभीत्या उदास्यते ॥ २ ॥

जड़भरतादिक खान-पहरान आदिकों को त्याग करके कहीं भी नहीं रहे हैं, किन्तु पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ हांकर संग से डरते हुए उदासीन हो करके रहे हैं । जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य-अध्यास बना है, तब तक तो नंगा रहना दुःख का और मूर्खता का ही कारण है । जब अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नंग रहने से दुःख भी नहीं होगा । आत्मा के साक्षात्कार होने से जब मन उस महान् ब्रह्मानन्द में डूब जाता है, तब शरीरादिकों के साथ अध्यास नहीं रहता है, और न विशेष करके संसार के पदार्थों का उस पुरुष को ज्ञान रहता है । मदिरा करके उन्मत्त को जैसे शरीर की और वस्त्रादिकों की खबर नहीं रहती है, वैसे ही जीवन्मुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है । उसको भी शरीरादिकों की खबर नहीं रहती है, ऐसी अवस्था जीवन्मुक्त की लिखी हुई है । मुमुक्षु वैराग्यवान् की नहीं लिखी, क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है । संसार के पदार्थों में दोष-दृष्टि और ग्लानि का नाम ही वैराग्य है, और छोटे पुरुषों के संग से डरकर महात्माओं का संग करनेवाला क्षमा, कोमलता, दया और सत्यभाषणादिक गुणों को अमृतवत् पान करने अर्थात् धारण करनेवाले का नाम वैराग्यवान् है और वही ज्ञान का अधिकारी है ॥ २ ॥

अष्टावक्रजी जनकजी के प्रति वैराग्य के स्वरूप को कहकर राजा के द्वितीय प्रश्न के उत्तर को कहते हैं—

मूलम् ।

न पृथिवी न जलं नाग्निर्न वायुर्द्यौर्न वा भवान् ।  
एषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

न, पृथिवी, न, जलम्, न, अग्नि, न, वायुः, द्यौः, न, वा,  
भवान्, एषाम्, साक्षिणम्, आत्मानम्, चिद्रूपम्, विद्धि, मुक्तये ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

भवान्=तू

न पृथिवी=न पृथिवी है

न जलम्=न जल है

न अग्निः=न अग्नि है

न वायुः=न वायु है

न द्यौः=न आकाश है

वा=पर

मुक्तये=मुक्ति के लिये

एषाम्=इन सबका

साक्षिणम्=साक्षी

चिद्रूपम्=चैतन्यरूप

आत्मानम्=अपने को

विद्धि=ज्ञान ॥

भावार्थः ।

दूसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्म-ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है अर्थात् ज्ञान का स्वरूप क्या है ?

इसके उत्तर में ऋषिजी कहते हैं कि अनादि काल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य-अध्यास हो रहा है, उस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है, और इसी से जन्म-मरण-रूपी संसार-चक्र में पुन-पुन, भ्रमण करता रहता है । उस अध्यास का कारण अज्ञान है । उस अज्ञान की निवृत्ति आत्म-ज्ञान करके होती

है, और अज्ञान की निवृत्ति से अभ्यास की भी निवृत्ति हांती है । इसी वास्ते ऋषिजी प्रथम कार्य के सहित कारण की निवृत्ति का हेतु जो आत्म-ज्ञान है, उसी को कहते हैं—

हे राजन् ! तुम पृथिवी नहीं हो, और न तुम जल-रूप हो, न अग्नि-रूप हो, न वायु-रूप हो और न आकाश-रूप हो । अर्थात् इन पाँचों तत्त्वों में से कोई भी तत्त्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है । और, पाँचों तत्त्वों का समुदाय-रूप इन्द्रियों का विषय जो यह स्थूल शरीर है, वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि शरीर क्षण-क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है । जो बाल-अवस्था का शरीर होता है, वह कुमार अवस्था में नहीं रहता है । कुमार अवस्थावाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता । युवा अवस्थावाला शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता । और आत्मा, सब अवस्थाओं में एक ही, ज्यों का त्यों रहता है, इसी वास्ते युवा और वृद्धावस्था में प्रत्यभिज्ञाज्ञान भी होता है । अर्थात् पुरुष कहता है कि मैंने बाल्यावस्था में माता और पिता का अनुभव किया । कुमारवस्था में खेलता रहा । युवा अवस्था में स्त्री के साथ शयन किया । अब देखिए—अवस्थाएँ सब बदलती जाती हैं, पर अवस्था का अनुभव करनेवाला आत्मा नहीं बदलता है, किंतु एकरस ज्यों का त्यों ही रहता है ।

यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदलता जाता, तब प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान कदापि न होता क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का कर्ता होता है, वहीं स्मृति और प्रत्यभिज्ञा का भी कर्ता होता है । दूसरे के देखे हुए पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता है । इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा देहादिकों से भिन्न है, और देहादिकों का साक्षी भी है । जो देहादिकों से भिन्न है, और देहादिकों का साक्षी

भी है, हे राजन् ! उसी चिद्रूप को तुम अपना आत्मा जानो ।

जैसे घरवाला पुरुष कहता है—मेरा घर है, मेरा पलंग है और मेरा बिछौना है । और वह पुरुष घर और पलंग आदि से जैसे जुदा है, वैसे पुरुष कहता है—यह मेरा शरीर है, ये मेरे इन्द्रियादिक हैं । जो शरीर और इन्द्रियों का अनुभव करनेवाला आत्मा है, वह शरीर इन्द्रियादिकों से भिन्न है और उनका साक्षी है ।

श्रुति कहती है—

अयमात्मा ब्रह्म ।

जो यह प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! पृथिवी आदिक पाँच भूत और उनका कार्य स्थूल शरीर, तथा इन्द्रिय और उनके विषय शब्दादिक, इन सबसे तू न्यारा है, और सबका तू साक्षी है, ऐसे निश्चय का नाम ही आत्म-ज्ञान है ॥ ३ ॥

आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्रजी जनकजी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं !

मूलम् ।

यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि ।  
अधुनैव सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि ॥४॥

पदच्छेदः ।

यदि, देहम्, पृथक्कृत्य, चित्ति, विश्राम्य, तिष्ठसि, अधुना, एव, सुखी, शान्तः, बन्धमुक्तः, भविष्यसि ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
यदि=अगर		तिष्ठसि=स्थित है, तो	
+ त्वम्=तू		अधुना एव=अभी	
देहम्=देह को		+ त्वम्=तू	
पृथक्कृत्य=अलग करके		सुखी=सुखी	
+ च=और		+ च=और	
चित्ति=चैतन्य आत्मा में		शान्त.=शान्त होता हुआ	
विश्राम्य=	{ विधाम करके अर्थात्	बन्धमुक्त.=बन्ध से मुक्त	
	{ चित्त को एकाम्र करके	भविष्यसि=हो जावेगा ॥	

भावार्थ ।

हे राजन् ! जब तू देह से आत्मा को पृथक् विचार करके अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थित हो जायगा, तब सुख और शान्ति को प्राप्त होवेगा । जब तक चिदजडग्रन्थि का नाश नहीं होता है अर्थात् परस्पर के अभ्यास का नाश नहीं होता तब तक ही जीव बंधन में है । जिस काल में अभ्यास का नाश जाता है उसी काल में जीव मुक्त हो जाता है । शिवगीता में इसी वार्ता को कहा है—

मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव वा ।

अज्ञानहृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १ ॥

मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है, और न किसी गृह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चिदजडग्रन्थि का नाश ही मोक्ष है । अर्थात् जड़चेतन का जो परस्पर अभ्यास है, उस अभ्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक धर्म हैं, वे



आत्मा में प्रतीत होत हैं एव आत्मा के जो चेतनता आदिक धर्म हैं, वे भी अग्नि में तपाए हुए लोहपिंड की तरह अतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। याने जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं—देखो, यह अग्नि कसा गोलाकार है, लोहा कसा जलता है। परतु जलाना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने में अग्नि का जलाना-रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। जैसे ही अतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य-अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदिक धर्म अतःकरण में आ जाते हैं और अतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक धर्म आत्मा में चले जाते हैं तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसीसे जन्म मरण-रूपी बधन को प्राप्त होता है। जब आत्म ज्ञान करके अपने को प्रकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है और कर्तृत्वादिक अतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अतःकरण का भी प्रकाशक होता है, और तब ही अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है ॥ ४ ॥

जनकजी कहते हैं कि हे भगवन् ! नैयायिक एव और भी आत्मा को कर्ता, भोक्ता और सुख दुःखादिक धर्मोंवाला मानते हैं। एव पुरुष भी कहता है—मैं कर्ता हूँ अर्थात् यज्ञादिक कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? इसके उत्तर को अष्टावक्रजी कहते हैं—

मूलम् ।

न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः ।  
असङ्गोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव ॥५॥

पदच्छेदः ।

न, त्वम्, विप्रादिक, वर्णः, न, आश्रमी, न, अक्षगोचरः, असंगः,  
असि, निराकारः, विश्वसाक्षी, सुखी, भव ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

त्वम्=तू  
विप्रादिक=ब्राह्मण आदि  
वर्णः=जाति  
न=नहीं है  
+ च=और  
न=न ( तू ) -

आश्रमी= { चारों आश्रमवाला  
          है  
+ च=और  
न=न ( तू )

अक्षगोचरः= { शरीर आदि इन्द्रियों  
                  का विषय है ।

+ परन्तु=परंतु

+ त्वम्=तू

असंग =असंग ( एवं, )

निराकारः=निराकार

विश्वसाक्षी=विश्व का साक्षी

असि=है

+ इति मत्वा=ऐसा जान करके

सुखी=मुखी

भव=हो ॥

भावार्थः ।

निराकार सच्चिदानन्द-रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है ।  
जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है । परंतु घट मठ आदि उपाधियों  
के भेद करके घटाकाश, मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है और उपा-  
धियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है, वास्तव में

आकाश का भेद नहीं है। वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण-रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्रतीत होता है, वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है। जैसे अनेक घटों में आकाश एक भी है, परंतु किसी घट में धूलि भरी है और किसी में धूम भरा है, और किसी में नील पीतादिक वर्णोंवाले पदार्थ भरे हैं, उन धूलि आदिकों के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, तथापि धूलि आदिकों वाला प्रतीत होता है, वैसे आत्मा का भी अन्तःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, तथापि परस्पर के अध्यास से वह सुख दुःखादिक धर्मोंवाला प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुःखादिक तीनों काल में भी नहीं हैं।

इसी वार्ता को अष्टावक्रजी जनकजी के प्रति कहते हैं कि हे जनक ! तू ब्राह्मण आदि जातियोंवाला नहीं है, और न तू वर्णाश्रम आदिक धर्मोंवाला है, और न तू किसी चक्षुरादि इन्द्रिय का विषय है, किन्तु तू इन सबका साक्षी और असंग है एवं तू आकार से रहित है और तू संपूर्ण विरव का साक्षी है—ऐसा तू अपने को जान करके सुखी हो अर्थात् संसाररूपी ताप से रहित हो ॥ ५ ॥

जनकजी कहते हैं कि हे भगवन् ! वेद ने जो वर्णाश्रमों के धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से भी पुरुष पातकी होता है, और बिना अपने को कर्ता माने वे धर्म हो नहीं सकते हैं, अतएव यह “उभयतः पाशा रज्जु” —न्याय का प्रसंग कैसे दूर हो ?

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे राजन् ! वेद ने जितने वर्णाश्रमादिकों के धर्म कहे हैं, वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिये कहे हैं, वे ज्ञानी के और मुमुक्षु के लिये नहीं हैं—क्योंकि कहा गया है—

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ।

नैवास्ति किञ्चित्कर्त्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥ १ ॥

जो आत्म-ज्ञान-रूपी अमृत करके तृप्त है और जो आत्म-ज्ञान करके कृतकृत्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने-योग्य कर्म बाकी नहीं है । यदि वह अपने को कर्म करने-योग्य माने, तो वह आत्मवित् नहीं है । ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिये कर्त्तव्यता का अभाव कथन करते हैं । गीता में जिज्ञासु के प्रतिकर्मों का निषेध कहा है—

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्त्तते ।

भगवान् कहते हैं कि आत्म-ज्ञान का जिज्ञासु भी शब्दब्रह्म वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके वर्त्तता है । अर्थात् जिज्ञासु के ऊपर भी कर्म-काण्ड वेद-भाग की आज्ञा नहीं रहती है । तात्पर्य यह है कि कर्मकाण्ड-भाग वेद की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है । अतएव हे जनक ! यदि तू जिज्ञासु है, तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है । यदि तू लोकाचार के लिये करना चाहता है, तब उनको आत्मा से पृथक्, अन्तःकरण का धर्म मान करके तू कर ।

मूलम् ।

धर्माऽऽधर्मौ सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो ।

न कर्त्ताऽऽसि न भोक्ताऽऽसि मुक्त एवासि सर्वदा ॥६॥

पदच्छेदः ।

धर्माऽऽधर्मौ, सुखम्, दुःखम्, मानसानि, न, ते, विभो, न, कर्त्ता, असि, न, भोक्ता, असि, मुक्तः, एव, असि, सर्वदा ॥

पदच्छेदः ।

एकः, द्रष्टा, असि, सर्वस्य, मुक्तप्रायः, असि, सर्वदा, अयम्, एव,  
हि, ते, बन्धः. द्रष्टारम्, पश्यसि, इतरम् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
सर्वस्य=सबका		एव=ही	
एकः=एक		ते=तेरा	
द्रष्टा=देखनेवाला		बन्ध.=बन्धन है	
असि=तू है		हि=जो	
+ च=और		+ त्वम्=तू	
सर्वदा=निरंतर		इतरम्=दूमेरे को	
मुक्तप्रायः=अत्यन्त मुक्त		द्रष्टारम्=द्रष्टा	
असि=तू है		पश्यसि=देखता है ॥	
अयम्=यह			

भावार्थः ।

हे राजन् ! तू ही एक सच्चिदानन्द और परिपूर्णरूप से सबका द्रष्टा है और सर्वदा मुक्त-स्वरूप है । तेरे में तीनों काल में बंध नहीं है । जैसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं है, वैसे तू ही स्वयंप्रकाश और समस्त जगत् का द्रष्टा है । और जो तू अपने को द्रष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी को द्रष्टा मानता है, यही तेरे में बन्ध है ॥ ७ ॥

जनकजी कहते हैं कि हे भगवन् ! सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और द्रष्टा मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं, तब फिर वे सब ऐसा क्यों मानते हैं ? और अपने से भिन्न द्रष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों मानते हैं ?

उत्तर—अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो ससार में अज्ञानी मूर्ख हैं वे अपने से भिन्न द्रष्टा को और कर्मों के फल-प्रदाता को मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं, ज्ञानवान् ऐसा नहीं मानते हैं ।

मूलम् ।

अहं कर्त्तेत्यहं मानमहाकृष्णाहिदंशितः ।

नाहं कर्त्तेति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव ॥८॥

पद-छेद ।

अहम्, कर्त्ता, इति, अहमानमहाकृष्णाहिदंशित, न, अहम्, कर्त्ता, इति, विश्वासामृतम्, पीत्वा, सुखी, भव ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
अहम्=मैं		न कर्त्ता=नहीं कर्त्ता हूँ	
कर्त्ता=करता हूँ		इति=ऐसे	
इति=ऐसे		विश्वा- } = विश्वासरूपी अमृत	
अहमान- } अहकाररूपी अत्यंत		सामृतम् } = को	
महाकृष्णा } = कृष्ण वर्णवाले सर्प से		पीत्वा=पी करके	
हिदंशित } दंशित हुआ तू		सुखी=सुखी	
अहम्=मैं		भव=हो ॥	

भावार्थ ।

ह जनक ! “अहं कर्त्ता” मैं इस कर्म का कर्त्ता हूँ, एव मैं इसके फल को भोगूँगा, यह जो अहकाररूपी काला सर्प है, इसी करके डसा हुआ, सारा ससार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता

रहता है और तू भी इस अहंकार-रूपी सर्प करके डसा हुआ, अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है । उस अहंकार-रूपी सर्प के विष के उतारने के लिये “नाहं कर्ता” मैं कर्ता नहीं हूँ, जब ऐसे निश्चय-रूपी अमृत को तू पान करेगा, तब तू सुखी होगेगा । अन्यथा किसी प्रकार से भी तू सुखी नहीं हो सकता है ॥ ८ ॥

जनकजी कहते हैं कि पूर्वोक्त अमृत को मैं कैसे पान करूँ ? इसके उत्तर को कहते हैं—

मूलम् ।

एको विशुद्धबुद्धोऽहमिति निश्चयवह्निना ।  
प्रज्वाल्याज्ञानगहनं वीतशोकः सुखी भव ॥ ९ ॥

पदच्छेद ।

एक, विशुद्धबोधः, अहम्, इति, निश्चयवह्निना, प्रज्वाल्य, अज्ञानगहनम्, वीतशोकः, सुखी, भव ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
अहम्=मैं		अज्ञान- गहनम् } = अज्ञान-रूपी वन को	प्रज्वाल्य=जला करके
एकः=एक			
विशुद्धबोधः=प्रति शुद्ध बोध-रूप हूँ		वीतशोकः=शोक-रहित हुआ	
इति=ऐसे		+ त्वम्=तू	
निश्चय- वह्निना }	=निश्चय-रूपी अग्नि से	सुखी=सुखी	
		भव=हो ॥	

### भाषार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! तू इस प्रकार के निश्चय-रूपी अमृत को पी करके, मैं एक हूँ अर्थात् सजातीय-विजातीय स्व-गत-भेद से रहित हूँ । क्योंकि एक वृक्ष का जो वृक्षांतर से भेद है, वह सजातीय-भेद कहा जाता है, और वृक्ष का जो घटादिकों से भेद है, उसका नाम विजातीय-भेद है और वृक्ष का जो अपने शाखादिकों से भेद है, वह स्व-गत-भेद कहा जाता है ।

यह आत्मा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा सारे जगत् में व्यापक है । वह पारमार्थिक सत्तावाला है और नित्य है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है, इस वास्ते आत्मा में सजातीय-भेद नहीं है । और परिच्छिन्न व्यावहारिक सत्तावालों में सजातीय-भेद रहता है, और आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ पारमार्थिक सत्तावाला नहीं है, अतएव आत्मा से भिन्न सब मिथ्या है, क्योंकि कहा गया है—

**ब्रह्मभिन्नम्, सर्वं मिथ्या, ब्रह्मभिन्नत्वात् ।**

ब्रह्म से भिन्न सारा जगत् ब्रह्म से पृथक् होने के कारण शुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है, इस अनुमान-प्रमाण से जगत् का मिथ्यात्व सिद्ध होता है । और इसी से आत्मा में विजातीय-भेद भी नहीं है । आत्मा निरवयव है, इस वास्ते उसमें स्व-गत-भेद भी नहीं है क्योंकि स्व-गत-भेद सावयव पदार्थों में होता है । आत्मा देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है, क्योंकि देश, काल और वस्तु का परिच्छेद परिच्छिन्न पदार्थ में ही रहता है, व्यापक में नहीं रहता है ।



जो वस्तु किसी काल में हो और किसी काल में न हो, वह वस्तु काल-परिच्छेदवाली कहलाती है, ऐसे घटपटादिक पदार्थ ही हैं, आत्मा तो तीनों कालों में एकसा ही ज्यों का त्यों बना रहता है, इस वास्ते काल-परिच्छेद से आत्मा रहित है ।

जो वस्तु एक देश में हो और दूसरे देश में न हो, वह देश-परिच्छेदवाली कहलाती है, ऐसे घटपटादिक पदार्थ ही हैं, आत्मा तो सब देश में है, इस वास्ते वह देश-परिच्छेद से भी रहित है ।

जो एक वस्तु दूसरी वस्तु में न रहे, वह वस्तु-परिच्छेद कहलाता है, जैसे घट, पट में नहीं रहता है और पट, घट में नहीं रहता है, परन्तु आत्मा सब वस्तुओं में ज्यों का त्यों एक-रस रहता है, इस वास्ते वह वस्तु-परिच्छेद से भी रहित है ।

हे जनक ! जो देश, काल और वस्तु-परिच्छेद से रहित, नित्य और व्यापक है, वह एक ही सिद्ध होता है, और वही तेरा आत्मा है । अतएव हे राजन् ! तू ऐसा निश्चय कर ले कि मैं ही सर्वत्र व्यापक हूँ, और सजातीय-विजातीय स्व-गत-भेद से रहित हूँ, और विशेष करके शुद्ध हूँ अर्थात् अविद्या आदिक मल मेरे में नहीं हैं । जब तू ऐसे निश्चय-रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके अज्ञान-रूपी धन को भस्म कर देगा, तो फिर जन्म-मरण-रूपी शोक से रहित होकर परमानन्द को प्राप्त होवेगा ॥ ६ ॥

जनकजी कहते हैं कि हे महाराज ! पूर्वोक्त निश्चय करने से भी तो जगत् सत्य ही दिखाई पड़ता है, इसकी निवृत्ति अर्थात् अभाव स्वरूप से कदापि नहीं होती है, और जब तक इसका अभाव न हो, तब तक शोक से रहित होना कठिन है ।

मूलम् ।

यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत् ।

आनन्दपरमानन्दः स बोधस्त्वं सुखं चर ॥ १० ॥

पदच्छेदः ।

यत्र, विश्वम्, इदम्, भाति, कल्पितम्, रज्जुसर्पवत्, आनन्द-  
परमानन्दः, सः, बोधः, त्वम्, सुखम्, चर ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
यत्र=जिसमें		आनन्द-	} =आनन्दपरमानन्द
इदम्=यह		परमानन्दः	
कल्पितम्=कल्पित		बोधः=बोधरूप	
विश्वम्=संसार		त्वम्=तू हैं (अतएव तू)	
रज्जुसर्पवत्=रज्जु में सर्प के सदृश		सुखम्=सुखपूर्वक	
भाति=भासता रहता है		चर=विचर ॥	
सः=वही			

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे राजन् ! जिस ब्रह्म-आत्मा में यह जगत् रज्जु में सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, वह आत्मा आनन्द-स्वरूप है । जैसे रज्जु के अज्ञान करके, मंद अंधकार में रज्जु ही सर्प रूप प्रतीत होती है, या रज्जु में सर्प प्रतीत होता है । वास्तव में न तो रज्जु सर्प-रूप है और न रज्जु में सर्प है । और न रज्जु में सर्प पूर्व या और न आगे होवेगा और न वर्तमान काल में है, किन्तु रज्जु के अज्ञान करके और मंद अन्धकार आदि सहकारी कारणों द्वारा पुरुष को भ्रान्ति से रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, और

उसी मिथ्या-सर्प को देख करके पुरुष भागता, गिर पड़ता और डरता है। जब कोई रज्जु का ज्ञाता उससे कहता है कि यह सर्प नहीं है, किन्तु रज्जु है, इसको तू क्यों डरता है, तब उसके भ्रम और भय आदि सब दूर हो जाते हैं। वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके पुरुष को जगत् भासता है, एवं जन्म-मरण के भय आदिक भी भासते हैं। जब ब्रह्मवित् गुरु उपदेश करता है कि तू ही ब्रह्म है, तेरे को अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण यह जगत् प्रतीत हो रहा है और वास्तव में यह जगत् मिथ्या है एवं तीनों कालों में तेरे लिए नहीं है। जैसे निद्रा-रूपी दोष करके पुरुष स्वप्न में अनेक प्रकार के सिंह व्याघ्रादिकों को रचना है, और आप ही उनसे भय को प्राप्त होता है। जब निद्रा दूर हो जाती है, तब उन कल्पित सिंहादिकों का भी नाश हो जाता है, वैसे ही हे जनक ! तेरे ही अज्ञान करके यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है, और जब तू अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेवेगा, तब जगत् का भी अभाव हो जायेगा।

प्रश्न—हे भगवन् ! यदि आत्म-ज्ञान करके अज्ञान और अज्ञान के कार्य-रूप जगत् का नाश हो जाता, तब तो अब तक जगत् न बना रहता, क्योंकि बहुत ज्ञानवान् हो चुके हैं, उनमें से एक के ज्ञान करके कारण के सहित कार्यरूपी जगत् का यदि नाश हो जाता, तब तो फिर अस्मदादिक सब जीव और वृक्षादिक सृष्टि भी न होनी। परन्तु ऐसा तो नहीं देखते हैं, किन्तु जगत् ज्यों का त्यों ही बना है, तब फिर आप कैसे कहते हैं कि अज्ञान के नाश में जगत् का नाश हो जाता है ?

उत्तर—अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे राजन् ! जैसे जल की इच्छा

करके पुरुष मह-मरीचिका के जल को देखकर उसके पास जाने का उद्योग करता है, परन्तु जब आगे उसको जल नहीं मिलता है, तब किसी के बताने से जान लेता है कि यह भ्रम करके जो जल मुझे दिखाई देता था, वह जल नहीं है। तब आकर वृद्ध के नीचे बैठ जाता है और फिर जत्र उधर को देखता है, तब फिर जल पहले की तरह दिखाई पड़ता है, परन्तु जल की दृष्ट्या करके फिर उस तरफ नहीं दौड़ता है, और न दुःखी होता है, वैसे ही जिसको आत्म-ज्ञान हुआ है, और जिसने जान लिया है कि जगत् मिथ्या है और भ्रम करके प्रतीत होता है, वह फिर दुःखी नहीं होता है और न उसमें उसकी आसक्ति होती है, किन्तु यावत् जगत् है, उस सबको मिथ्या जानता है। उस मिथ्यात्व के निरचय का नाम ही जगत् का नाश है। यद्यपि स्वरूप से इसका कदापि नाश नहीं होता है, किन्तु यह प्रवाह-रूप से सदा बना ही रहता है। हे जनक! जिसने अपने आत्मा को सत्, चित् और आनन्द-रूप करके जान लिया है, वह फिर जन्म-मरण-रूपी बन्ध को नहीं प्राप्त होता है। हे जनक! तू अपने को ही आनन्द-रूप और परमानन्द-बोधस्वरूप अर्थात् ज्ञान-स्वरूप जान, और सुख से विचर।

प्रश्न—हे भगवन् ! अज्ञान एक है या अनेक हैं ?

उत्तर—अज्ञान एक है।

प्रश्न—जब अज्ञान एक है, तब उस एक अज्ञान के नाश होने से उसके कार्य जगत् का भी स्वरूप से ही नाश हो जाना चाहिए ?

उत्तर—यद्यपि अज्ञान एक ही है, तथापि उसके कार्य तन्मात्रा और तन्मात्रा का कार्य अन्तःकरण-रूपी भाग अनन्त हैं। जैसे

आकाश एक है, पर अनेक घट-रूपी उपाधियों के साथ वह अनेक भेद को प्राप्त हो रहा है। और जब घट-रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है, तब वही घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही जिस अन्तःकरण में ज्ञान-रूपी प्रकाश उदय होता है, वही अन्तःकरण नाश को प्राप्त हो जाता है, और वही जीव, जो अब तक बन्धन में था, मुक्त हो जाता है, बाकी सब बन्ध में पड़े रहते हैं ।

जैसे सोये हुए दस पुरुष अपने-अपने स्वप्नों को देखते हैं, और जिसकी निद्रा दूर हो जाती है, उसी का स्वप्न नष्ट हो जाता है, और लोग अपने-अपने स्वप्नों को देखते ही रहते हैं। अतएव हे राजन् ! अब तू अज्ञान-रूपी निद्रा से जाग, और अपने ज्ञान-स्वरूप को प्राप्त होकर सुख-पूर्वक संसार में विचर ॥ १० ॥

प्रश्न—जब सारा जगत् रज्जु में सर्प की तरह कल्पित है, और मिथ्या है, तब फिर बन्ध और मोक्ष पुरुष को कैसे हो सकते हैं ?

मूलम् ।

मुक्ताभिमानो मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि ।  
किंवदन्तीह सत्येयं या मतिः सा गतिर्भवेत् ॥११॥

पदच्छेदः ।

मुक्ताभिमानो, मुक्तः, हि, बद्धः, बद्धाभिमानो, अपि, किंवदन्ती, इह, सत्या, इयम्, या, मतिः, सा, गतिः, भवेत् ॥

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 मुक्ताभिमानी=मुक्ति का अभिमानी  
 मुक्तः=मुक्त है  
 बद्धाभिमानी=बद्ध का अभिमानी  
 बद्धः=बद्ध है  
 हि=क्योंकि  
 इह=इस संसार में  
 इयम्=यह

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 किंवदन्ती=लोकवाद  
 सत्या=सत्य है कि  
 या=जैसी  
 मतिः=मति है  
 सा=वैसी ही  
 गतिः=गति  
 भवेत्=होती है ॥

भावार्थ ।

हे जनक ! बन्ध का कारण अभिमान है—

ब्राह्मणोऽहम्, क्षत्रियोऽहम्, वैश्योऽहम्, शूद्रोऽहम् ।

अर्थात् मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, जैसा-जैसा जिसको अभिमान होता है, वैसे-वैसे वह कर्मों को करके, उनके फलों का भोग करना है और एक जन्म में दूसरे जन्म को प्राप्त होता है, और वही बन्धायमान कहा जाता है । और जिसको ऐसा अनुभव है—

नाहं ब्राह्मणः, न क्षत्रियः ।

अर्थात् न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, किन्तु—

शुद्धोऽहम्, निरञ्जनोऽहम्, निरोकारोऽहम्, निर्विकल्पोऽहम् ।

अर्थात् मैं शुद्ध हूँ, माया-मल से रहित हूँ, आकार से भी रहित हूँ, विकल्प में भी रहित हूँ और नित्य-मुक्त हूँ ।

बंध और मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं। मुझमें ये सब तीनों काल में नहीं हैं, किन्तु मैं सबका साक्षी हूँ, ऐसे अभिमानवाला पुरुष नित्यमुक्त है। इसी वार्ता को अन्यत्र भी कहा है—

देहाभिमानाद्यत्पापं नतद्गोवधकोटिभिः ।

प्रायश्चित्ताद्भवेच्छुद्धिर्नृणां गोवधकारिणाम् ॥ १ ॥

अर्थात् जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता है, वह पाप करोड़ों गौश्रों के वध करने से भी नहीं होता है, क्योंकि करोड़ों गौश्रों के वध करनेवाले की शुद्धि के लिए शास्त्र में प्रायश्चित्त लिखा है, अर्थात् प्रायश्चित्त करके करोड़ों गौश्रों का वध करनेवाला भी शुद्ध हो सकता है, परंतु देहाभिमान की शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित्त नहीं लिखा है, इसी वास्ते जाति, वर्ण आदि जो देह के धर्म हैं, उन धर्मों को जो आत्मा में मानते हैं, वे ही देहाभिमानी कहे जाते हैं, और वे ही सदा बन्धायमान रहते हैं। और जो जाति और वर्णों के धर्मों को आत्मा में नहीं मानते हैं, किन्तु अपने आत्मा को असंग, नित्य-मुक्त और शुद्ध मानते हैं, वे नित्य ही मुक्त हैं, क्योंकि हे राजन् ! शास्त्रों में दो दृष्टि कही गई हैं—एक तो शास्त्र-दृष्टि, दूसरी लौकिक दृष्टि। शास्त्र-दृष्टि से तो देहादि के चर्म के अभिमान की नाम ही चमार है, क्योंकि अपने को 'चर्म' का अभिमान मानता है—

“देहाऽहम्”

और जो चर्म के अभिमान से रहित है, वही अपने को देहादिकों से भिन्न, नित्य शुद्ध और बुद्ध मानता है, वही मुक्त है।

एवं लोग भी कहते हैं कि जैसी जिसकी मति अर्थात् बुद्धि अन्त-काल में होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। अर्थात्, जैसा जिसका

निश्चय होता है, वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है अतएव हे राजन् !  
तू भी अपने को शुद्ध, बुद्ध और मुक्त-रूप निश्चय कर ॥ ११ ॥

जनकजी कहते हैं कि हे भगवन् ! जीवात्मा को जो बन्ध और मोक्ष हैं, वे दोनों वास्तव में हैं ? या अवास्तविक हैं ? यदि बन्ध वास्तव में हो, तब तो उसकी निवृत्ति कदापि न होनी चाहिए ? यदि मोक्ष ही वास्तविक हो, तो जीव को बन्ध कदापि न होना चाहिए ?

इस शंका के उत्तर को आगेवाले वाक्य करके अष्टावक्रजी कहते हैं—

√पूलम् ।

आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तश्चिदक्रियः ।  
असङ्गो निःस्पृहः शान्तो भ्रमात्संसारवानिव ॥ १२ ॥

पदच्छेद ।

आत्मा, साक्षी, विभुः, पूर्णः, एकः, मुक्तः, चित्, अक्रियः,  
असंगः, निःस्पृहः, शान्तः, भ्रमात्, संसारवान्, इव ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

आत्मा=आत्मा

साक्षी=साक्षी है

विभुः=व्यापक है

पूर्णाः=पूर्ण है

एकः=एक है

मुक्तः=मुक्त है

चित्=चेतन्य-रूप है

अक्रियः=क्रिया-रहित है

असंगः=संग-रहित है

निःस्पृहः=इच्छा-रहित है

शान्तः=शान्त है

भ्रमात्=भ्रम के कारण

संसारवान्=संसारवाला

इव=भासता है ॥



भावार्थ ।

हे जनक ! बन्ध और मोक्ष दोनों अनास्तमिक हैं और केवल अपने स्वरूप की अज्ञानता से देहादिकों में अभिमान करके, जीव अपने को बन्धायमान करके, मुक्त होने की इच्छा करता है । वास्तव में न उसमें बन्ध है और न मोक्ष है । जीव-आत्मा नित्य है, एक है, पूर्ण है, मुक्त है, असंग है, निःस्पृह है और शान्त है । भ्रम करके ससारवाला भान होता है । वास्तव में, उसमें ससार तीनों कालों में नहीं है, इसमें एक दृष्टांत कहते हैं—

एक पुरुष का नाम वेकूफ या और उसकी स्त्री का नाम फजीती था । एक दिन उसकी स्त्री उसके साथ लडाई-झगडा करके कहीं चली गई । तदनंतर वह स्त्री को खोजने के लिए जंगल में गया । वहाँ पर एक तपस्वी उसको मिला और उससे पूछा कि तू जंगल में क्यों घूमता है ? उसने कहा कि मैं अपनी स्त्री को खोजता हूँ । तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री का क्या नाम है ? और तुम्हारा क्या नाम है ? तब उसने कहा कि मेरा नाम वेकूफ है, और मेरी स्त्री का नाम फजीती है । तब उसने कहा “वेकूफ” को फजीतियों की क्या कमती है ? जहाँ पर वह जायेगा, वहाँ पर उस वेकूफ को फजीती मिल जायेगी ।

दार्ष्टान्त में जब तक जीव अज्ञानी मूर्ख बना है, तब तक इसको जन्म मरण-रूपी फजीतियों की क्या कमती है । जब ज्ञानवान् होगा तब बंध से रहित हो जायेगा ।

जनकजी कहते हैं कि हे भगवन् ! नैयायिक लोग आत्मा का वास्तविक बंध-मोक्ष मानते हैं, उनका मानना ठीक है या नहीं ?

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे राजन् ! नैयायिक आदिकों का कथन सर्व-युक्ति और वेद से विरुद्ध है। यदि आत्मा को वास्तविक बंध होता, तब उसकी निवृत्ति कदापि न होनी, और साधन भी सब व्यर्थ हो जाते, पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वेद उसकी निवृत्ति को लिखता है और आत्मा वास्तव में ससारी नहीं है। इसी में दस हेतुओं को दिखाते हैं—

( १ ) अहंकार आदिकों का भी आत्मा साक्षी है, पर कर्ता नहीं है।

( २ ) आत्मा विमु अर्थात् सर्व का अधिष्ठान है।

( ३ ) आत्मा एक है अर्थात् सजातीय और विजातीय स्वगत-भेद से रहित है।

( ४ ) आत्मा मुक्त है अर्थात् माया और माया के कार्य देहादिकों से भी रहित है।

( ५ ) आत्मा चित् है अर्थात् चैतन्य-स्वरूप है।

( ६ ) आत्मा अक्रिय है अर्थात् चेष्टा से रहित है, क्योंकि परिच्छिन्न में चेष्टा अर्थात् क्रिया होती है, व्यापक में नहीं होती है।

( ७ ) आत्मा असंग है अर्थात् सम्पूर्ण सम्बन्धों से रहित है।

( ८ ) आत्मा निःस्पृह है अर्थात् विषयों की अभिलाषा से भी रहित है।

( ९ ) आत्मा शान्त है अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्ति देहादि अन्तःकरण के धर्मों से रहित है।

( १० ) आत्मा केवल भ्रम के कारण संसारवाला भाग्नि होता है। इन दस हेतुओं करके आत्मा वास्तव में संसारी नहीं हो सकता है।

“अमङ्गो ह्ययं पुरुषः”।

यह आत्मा असंग है ।

“न जायते म्रियते वा कदाचित् ।”

अर्थात् आत्मा वास्तव में न जन्म लेता है, न मरता है—यह गीता-वाक्य और अनेक श्रुति-वाक्य भी आत्मा की असंगता में प्रमाण हैं । इसी से नैयायिक आदि मिथ्यावादी सिद्ध होते हैं ॥ १२ ॥

मैं परिच्छिन्न हूँ, मेरे ये देहादिक हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, इस तरह के जो अन्तःकरण के धर्मों को अव्यास करके आत्मा में जीवों ने मान रक्खा है, उस अव्यास-रूपी भ्रम की निवृत्ति तो एक बार असंग आत्मा के उपदेश करने से नहीं होती है । इसी पर व्यास भगवान् ने सूत्र कहा है—

“आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ।”

ज्ञान की स्थिति के लिये श्रवण-मनन आदिकों की आवृत्ति पुनः-पुनः करे, क्योंकि उद्दालक ने अपने पुत्र के प्रति, नव बार ‘तत्त्वमसि’ महावाक्य का उपदेश किया है, बारंबार श्रवणादिकों के करने से चित्त की वृत्ति त्रिजातीय भावना का त्याग करके सजातीय भावनावाली होकर आत्माकार हो जाती है, इसी वास्ते जनकजी को पुनः-पुनः आत्म-ज्ञान का उपदेश अष्टावक्रजी करते हैं—

मूलम् ।

कूटस्थं बोधमद्वैतमात्मानं परिभावय ।

आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं ब्राह्ममथान्तरम् ॥ १३ ॥

## पदच्छेदः ।

कूटस्थम्, बोधम्, अद्वैतम्, आत्मानम्, परिभावय, आभासः,  
अहम्, भ्रमम्, मुक्त्वा, भावम्, बाह्यम्, अथ, अन्तरम् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
अहम्=मैं		भावम्=भाव को	
आभासः= { आभास-रूप अहंकारी		मुक्त्वा=छोड़ करके	
जीव हूँ		त्वम्=तू	
इति=ऐसे		कूटस्थम्=कूटस्थ	
भ्रमम्=भ्रम को		बोधम्=बोध-रूप	
अथ=और		अद्वैतम्=अद्वैत	
बाह्यम्=बाहर		आत्मानम्=आत्मा को	
अन्तरम्=भीतर		परिभावय=विचार कर ॥	
	भाषार्थः ।		

हे जनक ! 'मैं आभास हूँ' 'मे अहंकार हूँ' इस भ्रम का त्याग करके और जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि 'यह मेरा शरीर है' 'मेरे ये कान-नाक आदिक हैं' इन सबमें—'अहं' और 'मम' भावना का त्याग करके और अन्तर अन्तःकरण के धर्म जो सुख-दुःखादिक हैं, उनमें जो तुम्हको अहंभावना हो रही है, उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता, कूटस्थ, असंग, ज्ञान-स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय कर ॥ १३ ॥

जनकजी प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज ! अनादि काल का जो देहादिकों में अभिमान हो रहा है, वह एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता है, अतएव आप पुनः-पुनः मेरे को उपदेश करिये ताकि श्रवण करके मेरा देहादि अभिमान दूर हो जावे ।

इस प्रश्न को सुनकर अष्टावक्रजी फिर आत्म-विद्या के उपदेश को करते हैं—

मूलम् ।

देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक ।

बोधोऽहं ज्ञानखड्गेन तन्निष्कृत्य सुखीभव ॥१४॥

पदच्छेदः ।

देहाभिमानपाशेन, चिरम्, बद्धः, असि, पुत्रक, बोधः, अहम्, ज्ञानखड्गेन, तत्, निष्कृत्य, सुखीभव ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
पुत्रक=हे पुत्र !		बोध =बोध-रूप हूँ	
देहाभिमान- } =देह के अभिमान-		इति=ऐसे	
पाशेन } रूपी पाश से		ज्ञानखड्गेन=ज्ञान-रूपी तलवार से	
चिरम्=बहुत काल का		तत्=उसकोयानीउसरस्सीको	
बद्धः=बँधा हुआ		निष्कृत्य=काट करके	
असि=तू है		त्वम्=तू	
अहम्=मैं		सुखीभव=सुखी हो ॥	

भावार्थ ।

हे जनक ! “देहोऽहम्” मैं देह हूँ—इस प्रकार के अभिमान करके तू चिरकाल से बन्धायमान हो रहा है अर्थात् अपने को संसार-बंध में डाल रहा है, अब तू आत्म-ज्ञान-रूपी खड्ग से उसका छेदन करके, ‘मैं ज्ञान-स्वरूप हूँ,’ ‘नित्य-मुक्त हूँ’—ऐसा निश्चय करके सुखी हो, क्योंकि तेरे में बन्धन तीनों काल में नहीं है ॥ १४ ॥

जनकजी फिर पूछते हैं कि हे भगवन् 'पतजलिजी के मतानु-  
यायी चित्त-वृत्ति के निराध-रूप योग को ही बंध की निवृत्ति का  
हेतु मानते हैं, सो उनका मानना ठीक है या नहीं ?

मूलम् ।

निःसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः ।  
अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि ॥ १५ ॥

पदच्छेद ।

नि संग, निष्क्रिय, असि, त्वम्, स्वप्रकाश, निरञ्जन,  
अयम्, एव, हि, ते, बन्ध, समाधिम्, अनुतिष्ठसि ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

त्वम्=तू

ते=तेरा

नि संग =संग-रहित है

बन्ध =बधन है

निष्क्रिय =क्रिया रहित है

हि=जो

स्वप्रकाश =स्वय प्रकाश-रूप है

समाधिम्=समाधि को

निरञ्जन =निर्दोष है

अनुतिष्ठसि=अनुष्ठान करता है ॥

अयम् एव=वही

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! तू नि संग है अर्थात्  
सबके सम्बन्ध से तू रहित है और क्रिया से भी तू रहित है । सम्बन्ध  
से रहित और क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिये जो समाधि  
का अनुष्ठान करना है, उसी का नाम बन्ध है । जो स्वप्रकाश आत्मा  
का ध्यान, जड़-वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर और  
कोई बध नहीं है, और न कोई अज्ञान है । आत्मा के स्वरूप के

ज्ञान से भिन्न, जितने मुक्ति के उपाय कहे गये हैं, वे सब बंध के ही कारण हैं, किन्तु सब बन्ध-रूप ही हैं ॥ १५ ॥

अब अष्टावक्रजी जनक की विपरीत बुद्धि के दूर करने के निमित्त उपदेश करते हैं—

मूलम् ।

त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः ।

शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम् ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ।

त्वया, व्याप्तम्, इदम्, विश्वम्, त्वयि, प्रोतम्, यथार्थतः,  
शुद्धबुद्धस्वरूपः, त्वम्, मागमः, क्षुद्रचित्तताम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

इदम्=यह

विश्वम्=संसार

त्वया=तुम्ह करके

व्याप्तम्=व्याप्त है

त्वयि=तुम्हीं में

प्रोतम्=पिरोया है

त्वम्=तू

यथार्थतः=परमाथं से

शुद्धबुद्ध-  
स्वरूपः } =शुद्ध चैतन्य-स्वरूप है

क्षुद्रचित्त-  
त्ताम् } =विपरीत चित्त-वृत्ति को

मागमः=मत प्राप्त हो ॥

भावार्थः ।

हे जनक ! जैसे स्वर्ण करके कंकणादिक व्याप्त है, और मृत्तिका करके जैसे घटादिक व्याप्त है, वैसे यह सारा जगत् तुम्ह चेतन करके व्याप्त है । और जैसे माला के सूत में दाने सब पिरोये हुए रहते हैं, वैसे यह सारा जगत् तेरे चेतन-रूप तामे करके पिरोया हुआ है ।

जैसे मिथ्या रजत शुक्ति की सत्ता करके सत्यवत् प्रतीत होती है—वास्तव में वह सत्य नहीं है, वैसे चेतन की सत्ता करके जगत् सत्य की तरह प्रतीत होता है—वास्तव में जगत् सत्य नहीं है। जगत् की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, किन्तु तेरे संकल्प से यह जगत् उत्पन्न हुआ है, और तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह जगत् भी निवृत्त हो जावेगा। तू अपने शुद्ध-स्वरूप में स्थित हो, और क्षुद्रता को मत प्राप्त हो।

मन्दालसा ने भी अपने पुत्रों को यही उपदेश करके संसार-बंधन से छुड़ा दिया था—

शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमायापरिवर्जितोऽसि ।  
संसारस्वप्नस्त्यज मोहनिद्रां मन्दालसा वाक्यमुवाच पुत्रम् ॥ १ ॥

अर्थात् हे तात ! तू शुद्ध है, ज्ञान-स्वरूप है, माया-मल से तू रहित है, तू संसाररूपी असत् माया नहीं है, संसार-रूपी स्वप्न मोह-रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको तू त्याग दे। इस प्रकार माता के उपदेश से वे जीवन्मुक्त हो गये।

हे जनक ! तू भी ऐसा विचार करके संसार में जीवन्मुक्त होकर विचर ॥ १६ ॥

मूलम् ।

निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः ।  
अगाधबुद्धिरक्षुब्धो भव चिन्मात्रवासनः ॥१७॥

पदच्छेदः ।

निरपेक्षः, निर्विकारः, निर्भरः, शीतलाशयः, अगाधबुद्धिः, अक्षुब्धः, भव, चिन्मात्रवासनः ॥



अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
त्वम्=तू		अगाध- बुद्धि	= अगाध चैतन्य बुद्धिरूप है
निरपेक्ष = अपेक्षा-रहित है		अक्षुब्ध =	{ अविद्या के क्षोभ से रहित है
निर्विकार = विकार-रहित है		चिन्मात्र- वासन	= चैतन्य मात्र में
निर्भर = चिद्वचन-रूप है		भव=निष्ठावाला हो ॥	
शीतलाशय = { शान्ति और मुक्ति का स्थान है			
	भानार्थ ।		

अष्टात्मकजी कहते हैं कि हे जनक ! तू निरपेक्ष हो अर्थात् पट्टर्मियों से रहित हो ।

१-भुख, २-प्यास, ३-शोक, ४-मोह, ५-जन्म, ६-मरण, इन छहों का नाम पट्टर्मि है । इनमें से भुख और प्यास ये दो प्राण के धर्म हैं । शोक और मोह ये दो मन के धर्म हैं । जन्म और मरण ये दो सूक्ष्म देह के धर्म हैं । तुम प्रात्मा के धर्म ये कोई नहीं हैं—

जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति ।

अर्थात् जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण-क्षण में क्षीण होता है और नाश हो जाता है, ये पट्टभाव-विकार स्थूल-देह के धर्म हैं, तुम आत्मा के धर्म नहीं हैं, क्योंकि तू सूक्ष्म-देह और स्थूल-देह से परे है, और इन दोनों का द्रष्टा है, इसी से तू निर्विकार है, सच्चिदानन्द-रूप है, शीतल है अर्थात् सुख-रूप है, अगाध बुद्धिवाला है, अक्षुब्ध है अर्थात् अविद्या-वृत्त क्षोभ से रहित है, अतएव तू क्रिया से रहित होकर चैतन्य-स्वरूप में निष्ठावाला हो ॥ १७ ॥

अष्टावक्रजी ने उत्थान का दूसरे श्लोक में जनकजी को मोक्ष का उपाय इस प्रकार उपदेश किया कि विषयो को तू विष के तुल्य त्याग कर, और सत्य को तू अमृत के तुल्य पान कर, परन्तु विषयों की और विष की तुल्यता में और सत्य-रूप आत्मा की और अमृत की तुल्यता में कोई भी हेतु नहीं कहा, प्रत प्रागे उसको कहते हैं—

मूलम् ।

साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् ।  
एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवसम्भवः ॥१८॥

पदच्छेद ।

साकारम्, अनृतम्, विद्धि, निराकारम्, तु, निश्चलम्,  
एतत्तत्त्वोपदेशेन, न, पुन, भवसम्भव ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
साकारम्=शरीरादिकों को		एतत्तत्त्वो- पदेशेन } =इस यथार्थ उपदेश से	
अनृतम्=मिथ्या		पुन =फिर	
विद्धि=जान		भवसम्भव =स सार में उत्पत्ति	
निराकारम्=निराकार आत्म-तत्त्व को		न=नहीं	
निश्चलम्=निश्चल निग्य		भवति=होती है ॥	
विद्धि=जान			

भावार्थ ।

हे जनक ! साकार जो शरीरादिक हैं, इनको तू मिथ्या जान । जो मिथ्या होकर बन्ध का हेतु होता है, वही विष के तुल्य त्यागने योग्य भी होता है । इसी में एक दृष्टान्त कहते हैं—

एक बनिये के घर में लड़का नहीं होता था । एक दिन रात्रि के समय वह पलंग पर अपनी स्त्री के साथ सो रहा था । उसकी स्त्री ने उस बनिये से कहा कि यदि परमेश्वर हमको एक लड़का दे देवे, तब उसको कहाँ पर सुलावेंगे । बनिया थोड़ा सा पीछे हटा और कहा कि उस लड़के को यहाँ बीच में सुलावेंगे । फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जावे, तब उसको कहाँ पर सुलावेंगे । वह थोड़ा सा और पीछे हटकर कहने लगा कि उसको भी बीच में सुलावेंगे । फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक और हो जावे, तब उसको कहाँ सुलावेंगे । फिर पीछे हटकर यह कहता ही था कि इतने में नीचे गिर पड़ा और उसकी टाँग टूट गई और हाय, हाय करके रोने लगा । तब इधर-उधर ने पड़ोस के लोग आकर पूछने लगे कि क्या हुआ, कैसे टाँग तेरी टूट गई । तब बनिये ने कहा कि विना हुए, मिथ्या लड़के ने मेरी टाँग तोड़ दी । यदि सच्चा होता, तब न जाने क्या अनर्थ करता, वैसे ही साकार जितने स्त्री पुत्रादिक विषय है, वे सब दुःख के हेतु हैं । ये विष के तुल्य त्यागने योग्य हैं ।

हे जनक ! जो निराकार आत्मतत्त्व है, वह निश्चल है और नित्य है । श्रुति भी ऐसा ही कहती है—

“नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”

अर्थात् आत्मा नित्य, विज्ञान और आनन्दस्वरूप है, उसी आत्म-तत्त्व में स्थिरता को पाकर, हे जनक ! फिर तू जन्म-मरण-रूपी संसार को नहीं प्राप्त होवेगा ॥ १८ ॥

अब अष्टावक्रजी वर्णाश्रमी धर्मवाले स्थूल शरीर में और धर्मा-ऽऽधर्म-रूपी संस्कारवाले लिंग-शरीर से विलक्षण, परिपूर्ण चैतन्य-स्वरूप आत्मा को दृष्टान्त के सहित कहते हैं ।

मूलम् ।

यथैवादर्शमध्यस्थे रूपेऽन्तः परितस्तु सः ।

तथैवास्मिञ्छरीरेऽन्तः परितः परमेश्वरः ॥ १६ ॥

पदच्छेद ।

यथा, एव, आदर्शमध्यस्थे, रूपे, अन्तः, परितः, तु, सः, तथा,  
एव, अस्मिन्, शरीरे, अन्तः, परितः, परमेश्वरः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
यथा=जैसे		भासते=भासता है	
एव=निश्चय करके		तथा एव=वैसे ही	
आदर्श- मध्यस्थे } = दर्पण के मध्य में स्थित = हुण		अस्मिन् शरीरे } = इस शरीर में	
रूपे=प्रतिबिम्ब में		अन्तःपरित = भीतर और बाहर से	
सः=वह शरीर		परमेश्वर.=परमेश्वर भासता है ॥	

भावार्थ ।

हे जनक ! जैसे दर्पण में प्रतिबिम्बित जो शरीरादिक हैं, उनके अन्तर, मध्य और बाहर, चारों तरफ दर्पण व्याप्त हो करके वर्तता है अर्थात् वह प्रतिबिम्ब अर्ध्यस्त है, अर्थात् दर्पण में देखने-मात्र का है, स्वरूप से सत्य नहीं है, वैसे ही आपने आत्मा में अर्ध्यस्त जो शरीर है, उसके भीतर, बाहर, मध्य और सर्व ओर चेतन आत्मा ही व्याप्य करके स्थित है । हे राजन् ! कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछ भी नहीं होती है, किन्तु अधिष्ठान की सत्ता करके वह सत्यत्व प्रतीत होता है—जैसे शुक्ति में रजत, और

दर्पण में प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है, वैसे शरीरादिक भी आत्मा में उसी की सत्ता करके सत्य के सदृश प्रतीत होते हैं, वास्तव में ये भी सत्य नहीं हैं, किन्तु मिथ्या हैं ॥ १६ ॥

दर्पण के दृष्टांत से कदाचित् जनक को ऐसा भ्रम हो जावे कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है, वैसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न होगा, इस भ्रम के दूर करने के लिए ऋषिजी दूसरा दृष्टांत देते हैं ।

मूलम् ।

एकं सर्वगतं व्योम वहिरन्तर्यथा घटे ।

नित्यं निरन्तरं ब्रह्म सर्वभूतगणो तथा ॥२०॥

पदच्छेदः ।

एकम्, सर्वगतम्, व्योम, बहिः, अन्तः, यथा, घटे, नित्यम्, निरन्तरम्, ब्रह्म, सर्वभूतगणो, तथा ॥

अन्वयः ।

यथा=जैसे  
सर्वगतम्=सर्वगत  
एकम्=एक  
व्योम=आकाश  
बहिः=बाहर  
अन्तः=भीतर  
घटे=घट में

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

अस्ति=स्थित है  
तथा=वैसे ही  
नित्यम्=नित्य  
निरन्तरम्=निरंतर  
ब्रह्म=ब्रह्म  
सर्वभूतगणो=सब भूतों के शरीर में  
अस्ति=स्थित है ॥

शब्दार्थः ।

भावार्थ ।

जैसे सर्वगत एक ही आकाश घटपटादिकों में बाहर, भीतर और मध्य में व्यापक है, वैसे ही नित्य, अविनाशी आत्मा भी सपूर्ण भूतों के गणों में बाहर, भीतर और मध्य में व्यापक है ।

“एष ते आत्मा सर्वस्यान्तर इति श्रुतेः”

यह तेरा ही आत्मा सबके अन्तर व्यापक है, ऐसा जानकर हे जनक ! तू सुखपूर्वक विचर ॥ २० ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां प्रथमं प्रकरणं समाप्तम् ।

---

## दूसरा प्रकरण ।

—०—

मूलम् ।

अहो निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं प्रकृतेः परः ।  
एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडंबितः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

अहो, निरञ्जनः, शान्तः, बोधः, अहम्, प्रकृतेः, परः, एतावन्तम्,  
अहम्, कालम्, मोहेन, एव, विडंबितः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
अहम्=मैं		अहो=आश्चर्य है कि	
निरञ्जनः=निर्दोष हूँ		अहम्=मैं	
शान्तः=शान्त हूँ		एतावन्तम्=इतने	
बोधः=बोध-रूप हूँ		कालम्=काल पर्यन्त	
प्रकृतेः=प्रकृति से		मोहेन=अज्ञान करके	
परः=परे हूँ		एव=निःसन्देह	
		विडंबितः=ठगा गया हूँ ॥	

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी के उपदेश से जनकजी को आत्मा का साक्षात्कार  
जब उदय हुआ, तब जनकजी अपने चेतनस्वरूप आत्मा का

साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए बाधितानुवृत्ति से पूर्व प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं।

मैं निरजन अर्थात् सपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शान्त स्वरूप होकर अर्थात् सपूर्ण विकारों से रहित होकर, तथा प्रवृत्ति अर्थात् माया-रूपी अधकार से भी परे होकर, और बोध-स्वरूप अर्थात् ज्ञान स्वरूप होकर, इतने काल तक देह और प्रात्मा के अतिक्रमण करके दुःखी होता रहा। आज हे गुरु! आपकी कृपा करके मैं आत्मानन्द अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ ॥ १ ॥

मूलम् ।

यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् ।

अतो मम जगत्सर्वमथवा न च किञ्चन ॥ २ ॥

पद-च्छेद ।

यथा, प्रकाशयामि, एक, देहम्, एनम्, तथा, जगत्, अत, मम, जगत्, सर्वम्, अथवा, न, च, किञ्चन ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
यथा=जैसे		अत =इसलिये	
एनम्=इस		मम=मेरा	
देहम्=देह को		सर्वम्=सम्पूर्ण	
एक =एकेला ही		जगत्=ससार है	
प्रकाशयामि=मैं प्रकाश करता हूँ		अथवा=या	
तथा=वैसे ही		+ मम=मेरा	
जगत्=ससार को भी		किञ्चन=कुछ भी	
प्रकाशयामि=प्रकाश करता हूँ		न=नहीं है ॥	



भावार्थ ।

पूर्व वाक्य करके जनकजी ने मोड़ की महिमा को कहा—अब इस वाक्य करके गुरु की कृपा से जो उनको देह और आत्मा का प्रियेक ज्ञान हुआ है, उसको सहित युक्ति के कथन करते हैं—

मैं एक ही सारे जगत् को प्रकाश करता हूँ और इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूँ ।

यह देह अनात्मा है यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत् की तरह है ।

जड़ देह और चेतन आत्मा का आध्यात्मिक सम्बन्ध है, अर्थात् कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है । सत्य और मिथ्या का वास्तविक सम्बन्ध न होने से इन दोनों का पारमार्थिक सम्बन्ध नहीं है । जैसे शुक्ति और रजत का कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है, वैसे देह और आत्मा का भी कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है । जैसे शुक्ति की सत्ता करके रजत भी सत्यवत् भान होती है, वैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यवत् भान होता है । वास्तव में देह मिथ्या है । इसी तरह आत्मा की सत्ता करके ही सारा जगत् सत्यवत् प्रतीत होता है । आत्मा से पृथक् जगत् मिथ्या है, यानी कभी हुआ नहीं है । इसी वार्ता को पञ्चदशीकार ने भी कहा है—

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् ।

आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥ १ ॥

अर्थात् “अस्ति” है “भाति” भान होता है “प्रियम्” प्यारा है, रूप और नाम ये पाँच अश सारे जगत् में व्याप्य करके रहते हैं और इन पाँचों में से अस्ति, भाति, प्रिय ये तीनों अश ब्रह्म

के हैं, सो तीनों अंश सारे जगत् मे प्रवेश होकर स्थित हैं । नाम और रूप व दो अंश जड़जगत् के हैं । यदि नाम और रूप को निकाल दिया जाये, तब जगत् की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती है । नाम और रूप दोनों विनाशी हैं, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं, इसी से सारा जगत् मिथ्या सिद्ध होता है । यह जगत् परब्रह्म के अस्ति, भाति और प्रिय इन तीनों अंशों करके ही सत्यवत् प्रतीत होता है । यदि इन तीनों अंशों को हरएक पदार्थ से पृथक् कर दिया जाय, तब जगत् का कोई भी पदार्थ सत्यवत् भान नहीं हो सकता है । इसी से सिद्ध होता है कि जगत् तीनों कालों में मिथ्या है और ब्रह्म ही तीनों कालों में सत्य है । इस युक्ति-सहित अनुभव करके जनकजी कहते हैं कि जितना दृश्य जगत् है, वह मेरे में ही अध्वस्त अर्थात् कल्पित है, क्योंकि परमार्थदृष्टि से कोई भी देहादिक मेरे में नहीं हैं । जैसे आकाश में नीलता; मरुस्थल में जल; बन्ध्या का पुत्र; शश के शृङ्ग; ये सब तीनों कालों में नहीं हैं, वैसे ही जगत् भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, और न कोई मेरे देहादिक हैं । मैं माया और उसके कार्य से परे एवं ज्ञान-स्वरूप हूँ ॥ २ ॥

मूलम् ।

सशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाऽऽधुना ।

कुतश्चित्कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

सशरीरम्, अहो, विश्वम्, परित्यज्य, मया, अधुना, कुतश्चित्, कौशलात्, एव, परमात्मा, विलोक्यते ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
अहो=आश्चर्य है कि		कौशलात्=	{ कुशलता से अ- र्थात् उपदेश से
सशरीरम्=शरीर-सहित		एव=ही	
विश्वम्=विश्व को		मया=मुझ करके	
परित्यज्य=	{ त्याग करके अ- र्थात् अपने से पृथक् समझकर	अधुना=अब	
कुनश्चित्=कहीं		परमात्मा=ईश्वर	
		विलोकयते=देखा जाता है	

भावार्थ ।

जनकजी फिर भी कहते हैं कि जो लिङ्ग-शरीर और कारण-शरीर के सहित, संपूर्ण विश्व-विचार करके, शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके और चातुर्य करके आत्मा से पृथक्, अपनी सत्ता से शून्य, आत्मा की सत्ता करके सत्यवत् भान होता था, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान-स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूँ । क्योंकि आत्म-ज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

यथा न तोयतो भिन्नास्तरङ्गाः फेनबुद्बुदाः ।  
आत्मनो न तथा भिन्नं विश्वमात्मविनिर्गतम् ४

पदच्छेदः ।

यथा, न, तोयतः, भिन्नाः, तरङ्गाः, फेनबुद्बुदाः. आत्मनः, न,  
तथा, भिन्नम्, विश्वम्, आत्मविनिर्गतम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यथा=जैसे

तोयतः=जल से

तरङ्गाः=तरङ्ग

फेनबुद्बुदाः=फेन और बुल्ला

भिन्नाः=भिन्न

न=नहीं

तथा=वैसा ही

आत्मवि-  
निर्गतम् } =आत्म-विशिष्ट

विश्वम्=विश्व

आत्मनः=आत्मा से

भिन्नम् न=भिन्न नहीं है ॥

भावार्थः ।

दृष्टान्त—जैसे तरंग और फेन जल से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि जल ही उन सबका उपादान कारण है, वैसे ही यह विश्व आत्मा से उत्पन्न है अर्थात् इसका उपादान कारण आत्मा ही है । इस कारण ऐसा जो जगत् है, वह भी आत्मा से भिन्न नहीं है । जैसे तरंग बुद्बुदादि में जल अनुगत है—वैसे स्वच्छ चैतन्य भी सम्पूर्ण विश्व में अनुगत है । जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठानभूत रज्जु से भिन्न नहीं है, किन्तु रज्जु-रूप ही है—वैसे कल्पित जगत् भी अधिष्ठान-भूत चेतन से भिन्न नहीं है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्वद्विचारतः ।

आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद्विश्वं विचारितम् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

तन्तुमात्रः, भवेत्, एव, पटः, यद्वत्, विचारतः, आत्मतन्मात्रम्,  
एव, इदम्, तद्वत्, विश्वम्, विचारितम् ॥

अन्वयः ।

यद्वत्=जैसे

पटः=कपड़ा

तन्तुमात्रः=तंतुमात्र

एव=ही

भवेत्=होता है

तद्वत्=वैसे ही

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

विचारतः=विचार से

इदम्=यह

विश्वम्=संसार

आत्मतन्मात्रम्=आत्मसत्तामात्र

एव=ही

विचारितम्=प्रतीत होता है ॥

भावार्थ ।

जैसे स्थूल दृष्टि करके तन्तुओं से विलक्षण पट प्रतीत होता है, परन्तु विचार-पूर्वक देखने से तन्तु-रूप ही पट है, तन्तुओं से भिन्न पट कोई वस्तु नहीं है वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्म से विलक्षण जगत् प्रतीत होता है, परन्तु युक्ति और विचार से आत्म-रूप ही जगत् है । जैसे तन्तु अपनी सत्ता करके पट में अनुगत है, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता करके अधिष्ठान भूतरूप होकर सारे जगत् में अनुगत है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

यथेवेक्षुरसे क्लृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा ।

तथा विश्वं मयि क्लृप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम् ६

पदच्छेदः ।

यथा, एव, इक्षुरसे, क्लृप्ता, तेन, व्याप्ता, एव, शर्करा, तथा, विश्वम्, मयि, क्लृप्तं, मया, व्याप्तम्, निरन्तरम् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
यथा=जैसे		तथा एव=यैसे ही	
एव=निरक्षय करके		मयि=मुझमें	
इन्द्ररसे=इन्द्र के रस में		कलुप्तम्=अप्यस्त हुआ	
कलुप्ता=अप्यस्त हुई		विश्वम्=संसार	
शर्करा=शकर		मया=मुझ करके	
तेन=उसी करके		निगन्तरम्=सदा	
व्याप्ता एव=व्याप्त है		व्याप्तम्=व्याप्त है ॥	

भावार्थः ।

आत्मा करके सारा जगत् व्याप्त है, इसी में जनकजी दृष्टान्त कहते हैं—


जैसे इन्द्र जो गन्ना है, सो रस में अप्यस्त है और उसी मधुर रस करके गन्ना भी व्याप्त है, वैसे ही मेरे नित्य आनन्द-स्वरूप में यह सारा जगत् अप्यस्त है, और मेरे नित्य आनन्द-रूप करके बाहर और भीतर से व्याप्त भी है, इस वास्ते यह विश्व भी आत्म-स्वरूप ही है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

आत्माऽऽज्ञानाज्जगद्भाति आत्मज्ञानान्नभासते ।  
रज्ज्वज्ञानाद्दहिर्भाति तज्ज्ञानान्नासते न हि ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

आत्माऽऽज्ञानात्, जगत्, भाति, आत्मज्ञानात्, न, भासते,  
ज्ज्वज्ञानात्, अहिः, भाति, तज्ज्ञानात्, भासते, न, हि ॥



अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 आत्माऽऽज्ञानात्=आत्माके अज्ञानसे  
 जगत्=संसार  
 भाति=भासता है  
 आत्मज्ञानात्=आत्मा के ज्ञान से  
 न भासते=नहीं भासता है  
 यथा=जैसे  
 रज्ज्वज्ञानात्=रज्जु के अज्ञान से

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 अहिः=सर्प  
 भाति=भासता है  
 च=और  
 तज्ज्ञानात्=उसके ज्ञान से  
 न हि=नहीं  
 भासते=भासता है ॥

भावार्थ ।

आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत् सत्य प्रतीत होता है और अधिष्ठान-स्वरूप आत्मा के ज्ञान करके असत् प्रतीत होता है । इसमें लोक-प्रसिद्ध दृष्टान्त कहते हैं—

रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है, और रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता है, वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत् प्रतीत होता है, और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत् प्रतीत नहीं होता है ॥ ७ ॥

मूलम् ।

प्रकाशो मे निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः ।

यदा प्रकाशते विश्वं तदाऽऽहंभास एव हि ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

प्रकाशः, मे, निजम्, रूपम्, न, अतिरिक्तः, अस्मि, अहम्, ततः, यदा, प्रकाशते, विश्वम्, तदा, अहम्भासः, एव, हि ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

प्रकाश = प्रकाश

मे = मेरा

निजम् = निज

रूपम् = रूप है

अहम् = मैं

तत = तिससे

अतिरिक्त = धलग

न अस्मि = नहीं हूँ

यदा = जब

विश्वम् = संसार

प्रकाशते = प्रकाशता है

तदा = तब

तत् = वह

अहभास = मेरे प्रकाश से

एव हि = ही

+ प्रकाशते = प्रकाशता है ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है, तब तक आत्मा के प्रकाश का भी अभाव ही रहता है, तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत् का भान कैसे हो सकता है ?

उत्तर—जनकजी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात् नित्य-ज्ञान है, वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है। मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूँ, इसी वास्ते जिस काल मे मुझको विश्व प्रतीत होता है, तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है।

प्रश्न—यदि स्वरूप भूतचेतन ही प्रकाशक है, तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है ? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी हैं।

उत्तर—दो प्रकार का चेतन है। एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात् बाधक है। सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है, किन्तु साधक है



अर्थात् अज्ञान को सिद्ध करता है । जैसे अग्नि दो प्रकार की है । एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष अग्नि है । सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है, परन्तु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है, किन्तु बनाती है, क्योंकि जितने जगत् के पदार्थ हैं, वे सब भूतों के पञ्चीकरण से बने हैं । जैसे जो लकड़ी पंचतत्त्वों से बनी है, उसको सामान्य तेज अर्थात् अग्नि जो उसके भीतर है, जलाती नहीं है, पर जब दो लकड़ियों के परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि-रूप तेज उसमें से उत्पन्न होता है, वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योंकि वह उसका विरोधी है—जैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है, वह उस अज्ञान का विरोधी अर्थात् बाधक नहीं है, किन्तु अपनी सत्ता करके उसका साधक है, और आत्माकारवृत्त्यवच्छिन्न विशेष चेतन है, वही उस अज्ञान का बाधक अर्थात् नाशक है । यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होवे, तब जड़ की सिद्धि भी न होवेगी । यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जावे, तब जगदान्वय प्रसंग हो जावेगा । इस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके ही जगत् भी प्रकाशमान हो रहा है, स्वतः जगत् मिथ्या है ॥ ८ ॥

मूलम् ।

अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मयि भासते ।  
रूप्यं शुक्रौ फणी रज्जौ वारि सूर्यकरे यथा ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

अहो, विकल्पितम्, विश्वम्, अज्ञानात्, मयि, भासते, रूप्यम्, शुक्रौ, फणी, रज्जौ, वारि, सूर्यकरे, यथा ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
अहो=आश्चर्य है कि		शुक्तौ=शुक्ति में	
विकल्पितम्=कल्पित		रूप्यम्=चांदी	
विश्वम्=ससार		रत्नौ=रत्नी में	
अज्ञानात्=अज्ञान से		फणी=सर्प	
मयि=मेरे में		सूर्यवरे=सूर्य की किरणों में	
+ ईदृशम्=ऐसा		वारि=जल	
भासते=भासता है		भासते=भासता है ॥	
यथा=जैसे			

भारार्थ ।

जनकजी कहते हैं कि जैसे शुक्ति के अज्ञान से शुक्ति में रजत असत् प्रतीत होता है—जैसे ही अज्ञान करके मेरे साक्षात् आत्मा में असत् जगत् प्रतीत हो रहा है, यही बड़ा भारी आश्चर्य है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमेप्यति ।  
मृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटकं यथा ॥६०॥

पदभेद ।

मत्त , विनिर्गतम् , मय्यम् , मयि , एव , लयम् , एप्यति , मृदि , कुम्भ , जले , वीचि , कनके , कटकम् , यथा ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
मत्त = मुक्तसे		मृदि = मिट्टी में	
विनिर्गतम् = उत्पन्न हुआ		कुम्भ = घड़ा	
इद्रम् = यह		जले = जल में	
विश्वम् = ससार		वीचि = लहर	
मयि = मुझमें		वनके = स्वर्ण में	
लयम् = लय को		कटकम् = भूषण	
गप्यति = प्राप्त होगा			
यथा = जैसे		लय } = लय होते हैं ॥	
		यान्ति }	

भाषार्थ ।

जैसे घट मृत्तिका का कार्य है अर्थात् मृत्तिका से ही उत्पन्न होता है, और फिर फूटकर मृत्तिका में ही लय हो जाता है—वैसे ही जगत् भी प्रकृति का कार्य है अर्थात् प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है । चेतन आत्मा से न जगत् उत्पन्न होता है, और न उसमें लय होता है, क्योंकि जगत् जड़ और आत्मा चेतन है । चेतन से जड़ की उत्पत्ति बनती नहीं है—ऐसी साह्य शास्त्राले की शङ्का है—उसके उत्तर को कहते हैं—

साह्य शास्त्राले परिणामवादी हैं और पूर्वजाली अवस्था से प्रवस्थान्तरता को प्राप्त होने का नाम ही परिणाम है । जैसे दूध का परिणाम दधि, मृत्तिका का घट और स्वर्ण का कुण्डल है—वैसे प्रकृति का परिणाम जगत् है—ऐसे साह्य शास्त्राले मानते हैं ।

नेयायिक आरम्भवादी है । अ-न्य वस्तु से अ-न्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरम्भवाद है । जैसे अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती

है—वैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत् की भी उत्पत्ति होती है ।

वेदान्ती का तो विवर्तवाद् है । जो एक ही वस्तु अपनी पूर्ववाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत होवे, उसी का नाम विवर्त है । जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, वह रज्जु ही सर्प-रूप करके प्रतीत होती है । यदि जगत् ब्रह्म का परिणाम माना जावे, तब तो दोष आवे कि चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है ? और कैसे जगत् चेतन में लय हो जाता है ? ये सब दोष वेदान्ती के मत में नहीं आते हैं । क्योंकि जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प-रूप प्रतीत होती है, और रज्जु के ज्ञान करके उस सर्प की निवृत्ति हो जाती है—वैसे ब्रह्म, आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से जगत् की प्रतीति होती है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत् की निवृत्ति हो जाती है ।

सांख्यवाले और नैयायिक के मत में अनेक दोष पड़ते हैं । एक तो वेद में परिणामवाद और आरम्भवाद कहीं भी नहीं लिखा है, अतएव उनका मत वेद-विरुद्ध है । दूसरे युक्तियों से भी परिणामवाद और आरम्भवाद सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि घट मृत्तिका का परिणाम नहीं है और न स्वर्ण का परिणाम कुण्डल हो सकते हैं । उत्पत्ति-काल में भी घट मृत्तिका-रूप ही है, गोलाकार उसका रूप और घट ये दोनों नाम कल्पित हैं । यदि घट से मृत्तिका निकाल दी जाये, तब घट का कहीं पता नहीं लग सकता है, अतएव घट मिथ्या है । इसी तरह स्वर्ण के कुण्डल भी मिथ्या हैं । घट और कुण्डल भी मृत्तिका का विवर्त ही है, क्योंकि मृत्तिका और स्वर्ण ही अन्य रूप से घट और कुण्डल प्रतीत हो रहे हैं ।

अतएव व्यवर्तवाद् ही ठीक है । इसी तात्पर्य को लेकर जनकजी कहते हैं कि यह सारा जगत् मुझसे ही उत्पन्न होता है और फिर

मुझमें ही लय हो जाता है । जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है और फिर मृत्तिका में ही लय हो जाता है ।

प्रश्न—इसमें कोई वेदवाक्य भी प्रमाण है ?

उत्तर—यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, इति श्रुतेः ।

अर्थ—जिस आत्मब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर करके जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो । यह वेद-वाक्य भी प्रमाण है ॥ १० ॥

मूलम् ।

अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे ।  
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगन्नाशेऽपि तिष्ठतः ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ।

अहो, अहम्, नमः, मह्यम्, विनाशः, यस्य, न, अस्ति, मे, ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तम्, जगन्नाशे, अपि, तिष्ठतः ॥

अन्वयः	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
ब्रह्मादिस्तम्ब- पर्यन्तम् } = ब्रह्मा से लेकर } = नृण पर्यन्त		जगन्नाशे = { जगत् के नाश } होने पर	
अपि=भी		+ अतः एव=इसलिये	
यस्य मे=जिस मेरे		अहम्=मैं	
तिष्ठतः=होते हुए का		अहो=आश्चर्यरूप हूँ	
विनाशः=नाश		मह्यम्=मेरे लिये	
न अस्ति=नहीं है		नमः=नमस्कार है ॥	

भावार्थ ।

प्रश्न—यदि ब्रह्म को जगत् का उपादान कारण मानोगे, तब वह विकारी हो जावेगा और विकारी होने से नाशी भी हो जावेगा ?

उत्तर—ब्रह्म विकारी और नाशी तब होवे, जब हम जगत् को ब्रह्म का परिणाम उपादान कारण मानें, सो तो नहीं है, किन्तु जगत् को हम ब्रह्म का विवर्त्त मानते हैं, इस वास्ते विकारी और नाशी ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता है ।

जनकजी कहते हैं कि मैं आश्चर्य-रूप हूँ, क्योंकि सारे जगत् का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं होता है एवं स्वर्णादिकों के सदृश विकारता भी मेरे में नहीं है । अतएव मैं अविकारी हूँ और जगत् मेरा विवर्त्त है, इसी कारण वह विवर्त्त का अधिष्ठान-रूप है । उपादान की सत्ता से कार्य की सत्ता के विपम होने का नाम विवर्त्त है । ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और जगत् की प्रातिभासिक सत्ता है । ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत् तीनों कालों में अनित्य है, किन्तु केवल प्रतीति-मात्र ही है, इस वास्ते जगत् ब्रह्म का विवर्त्त है । जगत् की उत्पत्ति आदिकों के होने से ब्रह्म का एक रोत्राँ भी नहीं बिगड़ता है अर्थात् ब्रह्म की किञ्चिन्मात्र भी हानि नहीं होती है । ब्रह्मा से लेकर चीटीपर्यन्त जगत् के नाश होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों एकरस रहता है, वही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है ॥ ११ ॥

मूलम् ।

अहो अहं नमो मह्यमेकोऽहं देहवानपि ।

कचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थितः ॥ १२ ॥

पदच्छेद ।

अहो, अहम्, नम, मह्यम्, एक, अहम्, देहगन्, अपि,  
कचित्, न, गन्ता, न, आगन्ता, व्याप्य, विश्वम्, अवस्थित ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
अहम्=मैं		न कचित्=न कहीं	
अहो=आश्चर्य रूप हूँ		गन्ता=जानेवाला हूँ	
मह्यम्=मेरे लिये		न कचिन्=न कहीं	
नम =नमस्कार है		आगन्ता=आनवाला हूँ	
अहम्=मैं		विश्वम्=समस्त को	
देहवान्=देहधारी होता हुआ		व्याप्य=आच्छादित करके	
अपि=भी		अवस्थित=स्थित हूँ ॥	
एक =अद्वैत हूँ			

भारार्थ ।

प्रश्न—आत्मा अनेक प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुःखादिवाला पृथक् ही प्रतीत होता है । यदि आत्मा एक होये, तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए तथा एक के दुःखी होने से सबको दुःखी होना चाहिए । एक के चलने से सबका चलना और एक के बैठने से सबका बैठना जाना चाहिए ?

उत्तर—जनकजी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरा आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देहगामी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हैं । जैसे एक ही जल नाना घटगामी उपाधियों में नाना रूपवाला प्रतीत होता है । जैसे एक ही सूर्यका प्रतिबिम्ब नाना जलोपाधियों में हिलता चलता प्रतीत होता है । और जैसे

एक ही आकाश नाना घटमठादिक उपाधियों में क्रिया आदिकाला प्रतीत हाता है, पर तु वास्तव में ये क्रिया प्रादि सब उपाधियों के धर्म हैं, आकाश के नहीं हैं। ऐसे सुख दुख गमनागमनादिक भी सब देहादि उपाधियों के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं, इसी से एक ही प्रात्मा गमनादिकों से रहित व्यापक होकर स्थित है ॥ १२ ॥

मूलम् ।

अहो अहं नमो मह्यं दक्षो नास्तीह मत्समः ।  
असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम् ॥१३॥

पदच्छेद ।

अहो, अहम्, नम, मह्यम्, दक्ष, न, अस्ति, इह, मत्सम, असंस्पृश्य, शरीरेण, येन, विश्वम्, चिरम्, धृतम् ॥

अन्वय । शब्दार्थ । अन्वय । शब्दार्थ ।

अहम्=मैं

अहो=आश्चर्य रूप हूँ

नम =नमस्कार है

मह्यम्=मुझको

इह=इस ससार में

मत्सम =मेरे तुल्य

दक्ष =चतुर

न अस्ति=कोई नहीं है

येन=क्योंकि

शरीरेण=शरीर से

असंस्पृश्य=पृथक्

मया=मुझ करके

+ इदम्=यह

चिरम्=चिरकाल पर्यन्त

विश्वम्=विश्व

धृतम्=धारण किया गया है ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—असंग आत्मा का शरीरादिकों के साथ ससर्ग कैसे हो सकता है ? और जगत् को कैसे धारण कर सकता है ?



उत्तर—जनकजी कहते हैं कि यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असग हो करके भी शरीरादिकों को चेष्टा कराता हूँ। जैसे चुम्बक पत्थर आप क्रिया से रहित भी है तथापि लोहे को चेष्टा कराता है। जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है, वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीरादिकों के अन्तर असग स्थित है, पर क्रिया रहित है, परन्तु शरीर इन्द्रियादिक सब प्रपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि घृत के पिण्ड से प्रलग रह करके भी उसको पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सबसे असग रह करके भी और क्रिया से रहित हो करके भी सारे जगत् को क्रियानान् कर देता है। इसी से जनकजी कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं है, इसी कारण मैं अपने आपको ही नमस्कार करता हूँ। एव मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उसको नमस्कार करूँ ॥ १३ ॥

मूलम् ।

अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किञ्चन ।  
अथवा यस्य मे सर्वं यद्वाङ्मनसगोचरम् ॥१४॥

पदच्छेद ।

अहो, अहम्, नम, मह्यम्, यस्य, मे, न, अस्ति, किञ्चन,  
अथवा, यस्य, मे, सर्वम्, यत्, वाङ्मनसगोचरम् ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
अहम्=मैं		नम =नमस्कार है	
अहो=आश्चर्य रूप है		यस्य=जिस	
मह्यम्=मुझको		मे=मेरे का	

किञ्चन=कुछ  
न=नहीं  
अस्ति=है  
अथवा=या  
यस्य=जिस

मे=मेरे का  
+तत्=वह  
सर्वम्=सब है  
यत्=जो कुछ  
वाङ् मनस- }  
गोचरम् } = वाणी और मन  
का विषय है ॥

भावार्थ ।

जनकजी कहते हैं कि मेरे सम्बन्धवाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं है, केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है ।

नेह नाना नास्ति किञ्चन ।

इस चेतन आत्मा में नानारूप करके जो जगत् प्रतीत होता है, सो वास्तव में नहीं है—ऐसे श्रुति कहती है ।

मृत्योर्वै मृत्युमामोति य इह नानैव पश्यति ।

वह मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है, जो ब्रह्म में नानात्व को देखता है अर्थात् नाना आत्मा को देखता है इत्यादि अनेक श्रुतिवाक्य हैं जो द्वैत का निषेध करते हैं । फिर जनकजी कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है, वह सब मिथ्या है, उसका मुझ चैतन्य-स्वरूप आत्मा के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है । इसी वास्ते मैं अपने ही आश्चर्य-रूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ ॥१४॥

मूलम् ।

ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रितयं नास्ति वास्तवम् ।  
अज्ञानान्नाति यत्रदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

ज्ञानम्, ज्ञेयम्, तथा, ज्ञाता, त्रितयम्, न, अस्ति, वास्तवम्,  
अज्ञानात्, भाति, यत्र, इदम्, सः, अहम्, अस्मि, निरञ्जनः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

ज्ञानम्=ज्ञान  
ज्ञेयम्=ज्ञेय  
तथा=और  
ज्ञाता=ज्ञाता  
त्रितयम्=तीनों  
यत्र=जिस विषे  
वास्तवम्=व्यथार्थ से  
न अस्ति=नहीं है  
+ च=और

अज्ञानात्=अज्ञान से  
+ यत्र=जिस विषे  
इदम्=यह तीनों  
भाति=भासता है  
सः=सोई  
अहम्=मैं  
निरञ्जनः=निरञ्जन-रूप  
अस्मि=हूँ ॥

भावार्थः ।

जनकजी कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय; यह जो त्रिपुटी-रूप है, सो भी वास्तव में नहीं है, किन्तु अज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं । वास्तव में चेतन का इनके साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है । जो माया और माया के कार्य से रहित चेतन आत्मा है, सो मैं ही हूँ ॥ १५ ॥

मूलम् ।

द्वैतमूलमहो दुःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजम् ।

दृश्यमेतन्मृषा सर्वमेकोऽहं चिद्रसोऽमलः ॥१६॥

## पदच्छेद ।

द्वैतमूलम्, अहो, दुःखम्, न, अन्यत्, तस्य, अस्ति, भेषजम्,  
दृश्यम्, एतत्, मृपा, सर्वम्, एक, अहम्, चिद्रस, अमल ॥

अन्वयः । शब्दार्थः । अन्वयः । शब्दार्थः ।

अहो=आश्चर्य है कि  
द्वैतमूलम्= } द्वैत है मूलकारण  
                          } जिसका, ऐसा

यत्=जो

दुःखम्=दुःख है

तस्य=उसकी

भेषजम्=ओपधि

अन्यत्=कोई

अस्ति=नहीं है

एतत्=यह

सर्वम्=सब

दृश्यम्=दृश्य

मृपा=फूट है

अहम्=मैं

एक=एक अद्वैत

अमल=शुद्ध

चिद्रस=चैतन्य-रस हैं ॥

## भावार्थः ।

प्रश्न—जब आत्मा निरञ्जन है तब उसका दुःख के साथ सम्बन्ध कैसे हो सकता है, पर देखने में आता है और लोक भी कहते हैं कि हम बड़े दुःखी हैं ?

उत्तर—निरञ्जन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुःख प्रतीत होता है, वास्तव में वह दुःखी नहीं है ।

प्रश्न—इस भ्रम-रूपी महान् व्याधि की ओपधि क्या है ?

उत्तर—जो द्वैत प्रतीत हो रहा है, यह सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है । वास्तव में सत्यबोध-रूप आत्मा ही है, ऐसा जो ज्ञान है, वही त्रिविध दुःख की निवृत्ति की ओपधि है, और कोई उसकी ओपधि नहीं है ॥ १६ ॥

मूलम् ।

बोधमात्रोऽहमज्ञानादुपाधिः कल्पितो मया ।  
एवं विमृश्यतो नित्य निर्विकल्पे स्थितिर्मम ॥१७॥

पदच्छेदः ।

बोधमात्रः, अहम्, अज्ञानात्, उपाधिः, कल्पितः, मया, एवम्,  
विमृश्यतो, नित्यम्, निर्विकल्पे, स्थितिः, मम ॥

अन्वयः । शब्दार्थः । अन्वयः । शब्दार्थः ।

अहम्=मैं  
बोधमात्र.=बोध-रूप हूँ  
मया=मुझ करके  
अज्ञानात्=अज्ञान से  
उपाधि =उपाधि  
कल्पितः= { कल्पना किया  
                  गया है

एवम्=इस प्रकार  
नित्यम्=निरत्य  
विमृश्यतो:=विचार करते हुए  
मम=मेरा  
स्थितिः:=स्थिति  
निर्विकल्पे=निर्विकल्प में है

भावार्थः ।

प्रश्न—यह जो द्वैत-प्रपंच का अध्यास है, इसका उपादान  
कारण कौन है ?

उत्तर—जनकजी कहते हैं कि नित्य ज्ञान-स्वरूप जो मैं हूँ, सो  
मैं ही अज्ञान द्वारा मारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ अथवा अज्ञान  
के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है, उसका अधिष्ठान-रूप होने से  
मैं ही उपादान कारण हूँ । विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच  
सत्य की तरह प्रतीत होता था, सो नित्य विचार करने से असत्य  
'भान' होने लगा । अब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन्मुक्ति  
को प्राप्त हुआ हूँ ॥ १७ ॥

मूलम् ।

अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम् ।  
न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिः शान्तानिराश्रया  
पदच्छेदः ।

अहो, मयि, स्थितम्, विश्वम्, वस्तुतः, न, मयि, स्थितम्, न,  
मे, बन्धः, अस्ति, मोक्षः, वा, भ्रान्तिः, शान्ता, निराश्रया ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

मे=मेरा

वस्तुतः=वास्तव में

बन्धः=बन्ध

मयि=मेरे विषे

वा=या

न=नहीं

मोक्षः=मोक्ष

स्थितम्=स्थित है

न=नहीं

+इतिविचारतः=ऐसे विचार से

अस्ति=है

निराश्रया=आश्रयरहित

अहो=आश्चर्य है कि

भ्रान्तिः=भ्रान्ति

मयि=मेरे में स्थित हुआ

शान्ता=शान्त हुई है ॥

विश्वम्=जगत्

भावार्थः ।

प्रश्न—मुक्ति क्या पदार्थ है ?

उत्तर—आनन्दात्मकब्रह्मावाप्तिश्च मोक्षः ।

आनन्द-स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है ।

प्रश्न—यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्म मानोगे, तब मुक्ति भी अनित्य हो जायेगी, क्योंकि जो-जो उत्पत्तिवाला पदार्थ होता

है, सो-सो अनित्य होता है—ऐसा नियम है । यदि मुक्ति को विचारं से अजन्य मानोगे, तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए ?

उत्तर—जनकजी कहते हैं कि वास्तव में तो मेरे में न बंध है, न मोक्ष है, क्योंकि मैं नित्य चैतन्य-स्वरूप हूँ ।

प्रश्न—जब कि वास्तविक तुम्हारे में बन्ध और मोक्ष कोई नहीं है, तब फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ ?

उत्तर—जो देहादिकों में चिरकाल की आत्म-भ्रान्ति हो रही है—‘मैं-देह हूँ’ ‘मैं इन्द्रिय हूँ’ ‘मैं ब्राह्मण हूँ’ ‘मैं कर्ता और भोक्ता हूँ’—इस भ्रान्ति की जो निवृत्ति है—‘न मैं देह हूँ’; और ‘न मैं इन्द्रिय हूँ’; ‘न मैं ब्राह्मणत्वादि जातिवाला हूँ’; ‘न मैं कर्ता और भोक्ता हूँ’ किंतु देहादिकों से परे इन सबका मैं साक्षी, शुद्ध ज्ञान-स्वरूप हूँ—ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बंध है, यही शास्त्र-विचार का और गुरु के उपदेश का फल है ।

जनकजी कहते हैं कि श्रहो ! बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तव में, तीनों कालों में मेरे में नहीं है—ऐसा विचार करने से मेरी भ्रान्ति दूर हो गई है ॥ १८ ॥

मूलम् ।

सशरीरमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चितम् ।

शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन्कल्पनाऽऽधुना १९ ॥

पदच्छेदः ।

मशरीरम्, इदम्, विश्वम्, न, किञ्चित्, इति, निश्चितम्, शुद्ध-चिन्मात्रः, आत्मा, च, तत्, कस्मिन्, कल्पना, अधुना ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

सशरीरम्=शरीरसहित

इदम्=यह

विश्वम्=जगत्

किञ्चित् न= { कुछ नहीं है अ-  
र्थात् न सत्य है  
और न असत्य है

च=और

शुद्धचिन्मात्रः=शुद्ध चैतन्य-मात्र

इति=ऐसा

यदा=जब

निश्चितम्=निश्चय हुआ

तदा=तब

कस्मिन्=किस विषे

अधुना=अब

॥ कल्पना= { विश्व की कल्पना  
होवे ॥

भावार्थः ।

प्रश्न—रज्जु-रूपी अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए, कभी से कभी मन्द अन्धकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो सकता है, वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच भी हो जावेगा ।

उत्तर—शरीर के सहित यह विश्व किञ्चित् भी सत्य नहीं है, और न असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय अज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय है । उस अनिर्वचनीय अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है । अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था, उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता है । जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रान्ति भी नहीं होती है, वैसे प्रकाश-स्वरूप आत्मा के ज्ञान में फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती है, ॥ १६ ॥

मूलम् ।

शरीरं स्वर्गनरकौ बन्धमोक्षौ भयं तथा ।

कल्पनामात्रमेवैतत्किमे कार्यं चिदात्मनः ॥ २० ॥



पदच्छेदः ।

शरीरम्, स्वर्गनरकौ, बन्धमोक्षौ, भयम्, तथा, कल्पनामात्रम्, एव, एतत् . किम्, मे, कार्यम्, चिदात्मनः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
एतत्=यह		एव=निःसंदेह	
शरीरम्=शरीर		कल्पनामात्रम्=कल्पना-मात्र है	
स्वर्गनरकौ=स्वर्ग और नरक		मे चिदात्मनः= { मुझ चैतन्य	
बन्धमोक्षौ=बन्ध और मोक्ष		आत्मा को	
तथा=और		किम्=क्या	
भयम्=भय		कार्यम्=कर्तव्य है ॥	

भावार्थः ।

प्रश्न—यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जावे, तब वर्ण और जाति आदिकों का आश्रय जो स्थूलशरीर है, वह भी अवास्तविक ही होगा ? और शरीर को आश्रयण करके प्रवृत्त जो विधि-निषेध शास्त्र है, वह भी अवास्तविक ही होगा ? फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किये हुए जो स्वर्ग-नरक हैं, वे भी सब अवास्तविक अर्थात् मिथ्या ही होंगे ? फिर स्वर्गादिकों में राग, और नरकादिकों से भय भी मिथ्या होंगे ? और शास्त्र ने जो बन्ध-मोक्ष कहे हैं, वे भी सब मिथ्या ही होंगे ?

उत्तर—जनकजी कहते हैं कि शरीरादिक सब कल्पना-मात्र ही हैं । सच्चिदानन्द-स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीरादिकों के साथ कौन सम्बन्ध है, किन्तु कोई भी सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक सम्बन्ध नहीं बन सकता है और मेरा शरीर-दिकों के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है । और जितने विधि-निषेध

वाक्य हैं, वे सब अज्ञानी के लिये हैं, ज्ञानवान् का उनमें अधिकार नहीं है, इस वास्ते ज्ञानवान् की दृष्टि में शरीरादिक और विधि निषेध सब अवास्तविक ही हैं ॥ २० ॥

मूलम् ।

अहो जनसमूहेऽपि न द्वैतं पश्यतो मम ।

अरण्यमिव संवृत्तं क रतिं करवाण्यहम् ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ।

अहो, जनसमूहे, अपि, न, द्वैतम्, पश्यतः, मम, अरण्यम्, इव, संवृत्तम्, क, रतिम्, करवाणि, अहम् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
अहो=आश्चर्यं । कि		न संवृत्तम्=नहीं वर्तता है	
जनसमूहे=जीवों के बीच में		तस्मात्=तब	
अपि=भी		क=कैसे	
मम=मुझ		अहम्=मैं	
पश्यत =देखते हुए का		रतिम्=मोह को	
अरण्यम् इव=अरण्यवत्		करवाणि=करूँ ॥	
द्वैतम्=द्वैत			

भावार्थः ।

पूर्वाले वाक्य द्वारा जनकजी ने कहा कि स्वर्गादिकों के साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है । अब इस वाक्य कारके कहते हैं कि इस लोक के साथ भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है ।

जनकजी कहते हैं कि हे प्रभो ! बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को देखता भी हूँ, तब भी जनों का जो समूह-रूपी द्वैत वन की तरह,

उत्पन्न हुआ है, उसके बीच में होता हुआ भी उसके साथ मुझको कोई प्रीति नहीं है, क्योंकि मैंने उसको मिथ्या जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान्-प्रीति को नहीं करते हैं। अज्ञानी मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है ॥ २१ ॥

✓ मूलम् ।

नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित् ।  
अयमेव हि मे बन्ध आसीत् जीविते स्पृहा ॥२२॥

पदच्छेदः ।

न, अहम्, देहः, न, मे, देहः, जीव, न, अहम्, अहम्, हि, चित्, अयम् एव, हि, मे, बन्ध, आसीत्, या, जीविते, स्पृहा ॥

अन्वयः । शब्दार्थः ।

अहम्=मैं  
देह=शरीर  
न=नहीं हूँ  
मे=मेरा  
देह=शरीर  
न=नहीं है  
अहम्=मैं  
जीवः=जीव  
न=नहीं है  
अहम्=मैं

अन्वयः । शब्दार्थः ।

हि=निश्चय करके  
चित्=वैतन्य-रूप हूँ  
मे=मेरा  
अयम् एव=यही  
बन्ध=बँधा था  
या=जो  
जीविते=जीने में  
स्पृहा=इच्छा  
आसीत्=था ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—शरीर मे अहंता और ममता अवश्य करनी होगी ?  
क्योंकि विना अहंता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है ?

उत्तर—जनकजी कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है, मैं चेतन हूँ; और मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ, मैं जीव अहकारी भी नहीं हूँ, क्योंकि अहंकार का कर्तृत्व धर्म है और मेरा अकर्तृत्व धर्म है ।

प्रश्न—फिर तुम कौन हो ?

उत्तर—मैं चैतन्य-स्वरूप अहंकार का भी सान्नी अकर्ता, अभोक्ता हूँ ।

प्रश्न—जब तुम खानपान आदिक सब व्यवहारों को करते हो, तो तुम अकर्ता कैसे हो सकते हो ?

उत्तर—अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहारों का कर्ता प्रतीत होता हूँ, परन्तु वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ । क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्वपना अहंकारादिकों का धर्म है, मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं हैं । और, ऐसा भी कहा है—

निद्राभिन्ने स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च ।

द्रष्टारश्चेत्कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात् ॥ १ ॥

अर्थात् सोना-जागना, भिक्षा माँगना, स्नान करना, पवित्र रहना, इन सबकी-मैं इच्छा नहीं करता हूँ, और न मैं, इनको करता हूँ । यदि कोई देवनेवाला मेरे में ऐसी कल्पना करता है कि मैं इनको करता हूँ, तो दूसरे की कल्पना करने ने मेरी क्या हानि हो सकती है ॥ १ ॥

अब इस विषे दृष्टांत कहते हैं—

गुञ्जापुञ्जादि दहते नान्यारोपितवह्निना ।

नान्यारोपितसंसारधमनिवमहं भजे ॥ २ ॥

अर्थात् जाड़े के दिनों में वन विषे जब कि बंदरों को सरदी लगती है, तब वे घुँघची का ढेर लगाकर उसके पास मिल करके बैठ जाते हैं और उन घुँघचियों के, याने गुंजा के, ढेर में अग्नि की मिथ्या कल्पना करते हैं । कारण यह है कि मिलकर बैठने से उनमें गरमी उत्पन्न होती है, पर वे यह जानते हैं कि इस गुंजे के पुंज से हम सबको गरमी आ रही है । जैसे गुंजा में बंदरों करके कल्पना की हुई अग्नि दाह का कारण नहीं हो सकती है, वैसे ही मूर्ख अज्ञानियों करके कल्पना किये हुए खान पानादि व्यवहार भी विद्वान् की हानि नहीं कर सकते हैं । क्योंकि विद्वान् वास्तव में अकर्ता और अभोक्ता है । उसकी दृष्टि में न तो देहादिक हैं, और न उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व धर्म हैं, किन्तु वे असंग एवं चैतन्यस्वरूप हैं ।

मरन—अविवेकी विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है ?

उत्तर—जो उनके जीने की इच्छा है यही उनका बंध है, जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं करते हैं । इस शास्ते जनकजी कहते हैं कि मेरे को जीने और मरने की इच्छा भी नहीं है । क्योंकि जीने-मरने की इच्छा, ये सब अंतःकरण के धर्म हैं, मुझ असंग चैतन्य-स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं हैं ॥ २२ ॥

मूलम् ।

अहो भुवनकल्लोलैर्विचित्रैर्द्राक् समुत्थितम् ।

। मय्यनन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते समुद्यते ॥ २३ ॥

पदच्छेद ।

मयि, अनन्त, महाम्भोधौ, चित्तवाते, प्रशाम्यति, अभाग्यात्,  
जीवराण्यज, जगत्पोत., विनश्वरः ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
अनन्तमहाम्भोधौ=अपार समुद्र-रूप		अभाग्यात्=अभाग्य से	
मयि=मुझ विषे		जगत्पोत.= { जगत् रूपी	
चित्त - पी		नौका अर्थात्	
वाते= { पवन के शान्त		शरीर	
होने पर		विनश्वर =नाश हुआ है ॥	
{ जीव रूपी			

वार्थ ।

“ नत महान् समुद्र में जब संकल्प-  
र हो जाता है, अर्थात् जब मन  
रूपी व्यापारी की शरीर-रूपी  
ने पर नाश हो जाती है ॥२४॥

जीववीचयः ।

शान्ति स्वभावतः॥२५॥

जीववीचय, उद्यन्ति, घ्नन्ति,

पदच्छेदः ।

अहो, भुवनकलोलैः, विचित्रैः, द्राक्, ममुत्थितम्, मयि, अनन्त-  
महाम्भोधौ, चित्तवाते, समुद्यते ॥

अन्वयः । शब्दार्थः ।

अहो=आश्चर्य है कि

अनन्तमहा-  
म्भोधौ = { अपार समुद्र-  
रूप

मयि=मुझ धिये

चित्तवाते { चित्तरूपी पवन  
समुद्यते { के उठने पर भी

अन्वयः । शब्दार्थः ।

विचित्रैः=अनेक प्रकार के

भुवनकलोलैः={ जगत्रूपो तरंगों  
के साथ

मम=मेरी

द्राक्=अत्यन्त

समुत्थितम्=अभिन्नता है ॥

भावार्थः ।

जनकजी कहते हैं कि जैसे वायु के चलने में समुद्र में बड़े-छोटे  
अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, और वायु के स्थिर होने से  
वे तरंग लय हो जाते हैं, तैसे आत्मा-रूपी महान् समुद्र में चित्त-रूपी  
वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड-रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं, और चित्त  
के शान्त होने से वे लय हो जाते हैं और जैसे समुद्र के तरंग समुद्र  
से ही उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही लय हो जाते हैं, और समुद्र  
के तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं हैं, वैसे ब्रह्मांड-रूपी अनेक तरंग भी  
मेरे से भिन्न नहीं हैं। मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में ही लय  
होते हैं, क्योंकि सब मेरे में ही कल्पित हैं। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान  
से भिन्न नहीं होता है ॥ २३ ॥

मूलम् ।

मय्यनन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति ।

अभाग्याजीववणिजो जगत्पोतो विनश्वरः॥२४॥

पदच्छेदः ।

मयि, अनन्त, महाम्भोधौ, चित्तवाते, प्रशाम्यति, अभाम्यात्,  
जीववीणजः, जगत्पोतः, विनश्वरः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
अनन्तमहाम्भोधौ=अपार	समुद्र-रूप	अभाम्यात्=अभाग्य से	
मयि=मुझ	विषे	जगत्पोतः=	{ जगत् रूपी नौका अर्थात् शरीर
चित्तवाते=	{ चित्त - धी	विनश्वरः=नाश हुआ है ॥	
प्रशाम्यति=	{ पवन के शान्त होने पर		
जीववीणजः=	{ जीव-रूपी वीणक के		

भाष्यार्थः ।

जनकजी कहते हैं कि मुझ अनंत महान् समुद्र में जब संकल्प-  
त्रिकल्पात्मक मन-रूपी वायु शान्त हो जाता है, अर्थात् जब मन  
संकल्पादिकों से रहित होता है, तब जीव-रूपी व्यापारी की शरीर-रूपी  
नौका प्रारब्धकर्म-रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाती है ॥२४॥

मूलम् ।

मय्यनन्तमहाम्भोधावाश्चर्यं जीववीचयः ।

उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ॥२५॥

पदच्छेदः ।

मयि, अनन्तमहाम्भोधौ, आश्चर्यम्, जीववीचय, उद्यन्ति, घ्नन्ति,  
खेलन्ति, प्रविशन्ति, स्वभावतः ॥



अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
आश्चर्यम्=आश्चर्य है कि मयि=मुझ		घ्नन्ति=परस्पर लड़ती हैं च=और	
अनन्तम- हाम्भोधौ=	{ अपार समुद्र विषे	खेलन्ति=खेलती हैं + च=और	
जीववीचयः=जीव-रूपी तरंगों उद्यन्ति=उठती हैं		स्वभावतः=स्वभाव से प्रविशन्ति=चय होती हैं ॥	

भावार्थः ।

अबाधितानुवृत्ति करके अपने में संपूर्ण व्यवहार को देखते हुए जनकजी कहते हैं—

प्रश्न—बाधिना अनुवृत्ति का क्या अर्थ है ?

उत्तर—बाधित हुए पदार्थ की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात् प्रतीति है, उसका नाम बाधितानुवृत्ति है ।

दृष्टांतः ।

जैसे एक पुरुष किसी वृद्ध के नीचे, गर्मी के दिनों में, दोपहर के समय बैठा था । उसको प्यास लगी । वह पानी की खोज करने लगा । तब उसको दूर से जल दिखाई दिया । वह उस जल के पीने के वास्ते जब गया, तब उसको जल न मिला । क्योंकि रेत में जो सूर्य की किरणें पड़ती थीं, वे ही दूर से जल-रूप हांकर दिखाई पड़ती थीं । उसने जान लिया कि यह रेत ही मुझको भ्रम करके जल दिखाई देता था, वह तो जल है नहीं, तब वह लौट करके उसी वृद्ध

के नीचे आकर बैठ गया । और फिर उसको वही रेत किरण के सम्बन्ध में चमकता हुआ जल-रूप से दिखाई देने लगा, परन्तु वह पुरुष जल की इच्छा करके वहाँ न गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि यह जल नहीं है, दूरत्व दोष से और किरण के सम्बन्ध से मुझको जल दिखाई देता है । पुरुष के यथार्थ ज्ञान करके बाधित हुए पर भी जल-ज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात् प्रतीति है, उसी का नाम बाधिता अनुवृत्ति है ।

### दाष्टीति ।

आत्मा के अज्ञान करके जो जगत् सत्य की तरह प्रतीत होता था, उसके सत्यवत् ज्ञान का बोध आत्मा के ज्ञान से भी हो गया, तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात् पुनः जो उसकी प्रतीति विद्वान् को हांती है, वही बाधिता अनुवृत्ति कही जाती है । यह प्रतीति विद्वान् की कुछ हानि नहीं कर सकती है, क्योंकि विद्वान् उसको असत्य जानकर उसमें फिर आसक्ति नहीं करता है, किन्तु मिथ्या जानकर अपने आत्मानन्द में ही मग्न रहता है ।

जनकजी कहते हैं कि क्रिया से रहित, निर्विकार, आत्मा-रूपी महान् समुद्र में जीव-रूपी वीचियाँ अर्थात् अनेक तरङ्ग उत्पन्न होती हैं और परस्पर अध्यास से वे जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं । जैसे स्वप्न के मरे जीव स्वप्न में परस्पर विरोधादिकों को करते हैं और जब उनके अविद्यादि का नाश हो जाता है, तब फिर मेरे असली स्वरूप में ही लय हो जाते हैं । फिर अविद्यादिकों करके उन्मत्त होते हैं, फिर लय हांते हैं और जैसे घट-रूप उपाधि की

उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति का व्यवहार होता है और घट-रूपी उपाधि के नाश होने से घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है, वास्तव में आकाश की न तो उत्पत्ति होती है और न नाश होता है, वैसे ही शरीरस्थ आत्मा की भी न उत्पत्ति होती है, और न नाश होता है । ज्ञानवान् को बाधितानुवृत्ति करके जगत् की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं है ॥ २५ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम् ।

## तीसरा प्रकरण ।

मूलम् ।

अविनाशिनमात्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः ।  
तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

अविनाशिनम्, आत्मानम्, एकम्, विज्ञाय, तत्त्वतः, तव, आत्म-  
ज्ञस्य, धीरस्य, कथम्, अर्थार्जने, रतिः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

एकम्=अद्वैत

अविनाशिनम्=अविनाशी

आत्मानम्=आत्मा को

तत्त्वतः=यथाथ

विज्ञाय=जान करके

तव=तुम्ह

आत्मज्ञस्य=आत्मज्ञानी

धीरस्य=धीर को

कथम्=क्यों

अर्थार्जने= { धन के संपादन  
करने में

रतिः=प्रीति है ॥

माधार्थ्यः ।

जनकजी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्रजी फिर उसकी परीक्षा करते हैं—

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! नाश से रहित, निर्विकल्प, फल-परिच्छेद से रहित, देश-परिच्छेद से रहित, वस्तु-परिच्छेद से रहित,

द्वैतभाव से रहित, चैतन्य-स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुझ धीर की व्यावहारिक धन के संग्रह करने में कैसे प्रीति होती है ? अर्थात् आत्मज्ञानी होकर फिर भी तू धनादिकों में प्रीतिवाला दिखाई पड़ता है, इसमें क्या कारण है ? ॥ १ ॥

मुनि के प्रश्न के उत्तर को, मुनि ने सुनने की इच्छा करके, उनसे आप ही प्रश्न पूछते हैं—

मूलम् ।

आत्माऽऽज्ञानाद् अहो प्रीतिर्विषयभ्रमगोचरे ।

शुक्लेऽज्ञानतो लोभो यथा रजतविभ्रमे ॥ २ ॥

पदच्छेद ।

आत्माऽऽज्ञानात्, अहो, प्रीतिः, विषयभ्रमगोचरे, शुक्ले, अज्ञानतः, लोभः, यथा, रजतविभ्रमे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अहो=आश्चर्य है कि

आत्माऽऽज्ञानात्= { आत्मा के  
अज्ञान से  
विषयभ्रम  
गोचरे = { विषय के भ्रम  
के होने पर  
प्रीतिः=प्रीति होती है

यथा=जैसे

शुक्लेः=सीपी के

अज्ञानतः=अज्ञान से

रजतविभ्रमे=रजत की भ्रांति में

लोभः=लोभ होता है ॥

भावार्थः ।

प्रश्न—हे भगवन् ! आत्मज्ञान के प्रसंग में धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है ?

धनादिकों के

उत्तर—हे शिष्य ! विषयों में प्रीति जो प्रीति होती है, वह आत्मा के स्वरूप

यथा

है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती है । क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है, तब विषयों का बोध हो जाता है । इसमें लोक-प्रसिद्ध दृष्टान्त को कहते हैं—जैसे शुक्ति के अज्ञान से, और उसमें रजत-भ्रम के होने से, उस रजत में लोभ हो जाता है ॥ २ ॥

मूलम् ।

विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे ।  
सोऽहमस्मीति विज्ञाय किं दीन इव धावसि ॥३॥

पदच्छेदः ।

विश्वम्, स्फुरति, यत्र, इदम्, तरंगाः, इव, सागरे, सः, अहम्, अस्मि, इति, विज्ञाय, किम्, दीनः, इव, धावसि ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यत्र = { जिस आत्मा-रूपी  
समुद्र में

इदम् = यह

विश्वम् = संसार

तरंगाः = तरंगों के

इव = समान

स्फुरति = स्फुरण होता है

सः = वही

अहम् = मैं

अस्मि = हूँ

इति = इस प्रकार

विज्ञाय = जान करके

किम् = क्यों

दीनः इव = दीन की तरह

धावसि = तू दौड़ता है ॥

भावार्थः ।

जैसे समुद्र में तरंगादिक अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होते हैं वैसे ही यह जगत् भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरण होता है, एवं सबका अधिष्ठान आत्मा ज्यों का त्यों मैं हूँ । इस प्रकार जिसने

आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह दीन की तृष्णा करके व्याकुल हुए की तरह विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

श्रुत्वाऽऽपि शुद्धचैतन्यमात्मानमतिसुन्दरम् ।  
उपस्थेऽत्यन्तसंसक्तो मालिन्यमधिगच्छति ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

श्रुत्वा, अपि, शुद्धचैतन्यम्, आत्मानम्, अतिसुन्दरम्, उपस्थे, अत्यन्तसंसक्तः, मालिन्यम्, अधिगच्छति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अतिसुन्दरम्=अत्यन्त सुन्दर

शुद्धचैतन्यम्=शुद्ध चैतन्य

आत्मानम्=आत्मा को

श्रुत्वा अपि=जान करके भी

उपस्थे= { समीपवर्ती  
विषय में

अत्यन्तसंसक्तः= { अत्यन्त आसक्त  
हुआ पुरुष

मालिन्यम्=मूढ़ता को

अधिगच्छति=प्राप्त होता है ॥

भावार्थः ।

आचार्य ने ऊपरवाले तीनों श्लोकों करके ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय-व्यवहार की निन्दा की ।

अब सब ज्ञानियों के प्रति विषय-विषयक व्यवहार की निन्दा शिष्य की परीक्षा के लिये करते हैं—

आत्मवित् गुरु के मुख से और वेदात-वाक्य से आत्मा का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो पुरुष समीपवर्ती

विषयों में अत्यन्त संसक्त होता है, वह कैसे भूढ़ता को प्राप्त होता है, यह बड़े आश्चर्य की वार्ता है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।  
मुनेर्जानत आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

सर्वभूतेषु, च, आत्मानम्, सर्वभूतानि, च, आत्मनि, मुनेः, जानतः, आश्चर्यम्, ममत्वम्, अनुवर्तते ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
आत्मानम्=आत्मा को		जानतः=जानते हुए	
सर्वभूतेषु=सब भूतों में		मुनेः=मुनि को	
च=और		ममत्वम्=ममता	
आत्मनि=आत्मा में		अनुवर्तते=होती है	
सर्वभूतानि=सब भूतों को		आश्चर्यम्=यही आश्चर्य है ॥	

भावार्थः ।

ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान-भूत आत्मा को जान लिया है, और फिर सम्पूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात् सम्पूर्ण भूत रज्जु-सर्प की तरह आत्मा में कल्पित हैं, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में ममत्व होवे, तो आश्चर्य की वार्ता है । क्योंकि जिसने शुक्ति में अव्यक्त रजत को जान लिया है, उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिये नहीं होती है ॥ ५ ॥



मूलम् ।

आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः ।

आश्चर्यं कामवशगो विकलः केलिशिक्षया ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

आस्थितः, परमाद्वैतम्, मोक्षार्थे, अपि, व्यवस्थितः, आश्चर्यम्,  
कामवशगः, विकलः, केलिशिक्षया ॥

अन्वयः । शब्दार्थः ।  
परमाद्वैतम्=परम अद्वैत को  
आस्थितः=आश्रय किया हुआ  
+ च=और  
मोक्षार्थे अपि=मोक्ष के लिये भी  
व्यवस्थितः=उद्यत हुआ पुरुष

अन्वयः । शब्दार्थः ।  
कामवशगः=काम के वश होकर  
केलिशिक्षया= { क्रीड़ा के  
अभ्यास से  
विकलः=व्याकुल होता है  
आश्चर्यम्=यही आश्चर्य है ॥

भावार्थः ।

जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत-भेद से शून्य अद्वैत  
आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, और सच्चिदानन्द आत्मा में  
जिसकी निष्ठा हो चुकी है। यदि फिर वह पुरुष काम के वश  
होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े, तो महान्  
आश्चर्य है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

उद्भूतं ज्ञानदुर्मित्रमवधार्यातिदुर्वलः ।

आश्चर्यकाममाकाङ्क्षेत्कालमन्तमनुश्रितः ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

उद्भूतम्, ज्ञानदुर्मित्रम्, अवधार्य, अतिदुर्बलः, आश्चर्यम्,  
कामम्, आकाङ्क्षते, कालम्, अन्तम्, अनुश्रितः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
उद्भूतम्=उत्पन्न हुए		अन्तं कालम्=अन्त काल को	
ज्ञानदुर्मित्रम्= { ज्ञान के शत्रु काम को		अनुश्रितः= { आश्रय करता हुआ पुरुष	
अवधार्य=धारण करके		कामम्=कामना को	
अतिदुर्बलः=दुर्बल होता हुआ		आकाङ्क्षते=इच्छा करता है	
च=और		आश्चर्यम्=यही आश्चर्य है ॥	

भावार्थः ।

जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यन्त वैरी जानता हुआ फिर भी काम की इच्छा करे, तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है । जैसे मृत्यु करके प्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय-भोग की इच्छा नहीं होती है—वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय-भोग की इच्छा न होनी चाहिए ॥ ७ ॥

मूलम् ।

इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः ।  
आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका ॥८॥

पदच्छेदः ।

इह, अमुत्र, विरक्तस्य, नित्यानित्यविवेकिनः, आश्चर्यम्, मोक्ष-  
कामस्य, मोक्षात्, एव, विभीषिका ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
इह =	{ इस लोक के भोग विषे	च =	और
च =	और	मोक्षकामस्य =	{ मोक्ष के चाहने-वाले पुरुष को
अमुत्र =	{ परलोक के भोग विषे	मोक्षात् एव =	मोक्ष से ही
विरक्तस्य =	विरक्त	विभीषिका =	भय है ..
नित्यानित्य-विवेकिनः =	{ नित्य और अनित्य के विचार करनेवाले	आश्चर्यम् =	यही आश्चर्य है ॥
			भावाय ।

आत्मा नित्य है और शरीरादिक अनित्य है । इन दोनों के विवेचन करनेवाले का नाम विवेकी है । और आनन्द-रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है । उस मोक्ष की कामनावाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असद्रूप स्त्री, पुत्र और धनादिकों के साथ मेरा वियोग हो जायगा, तो महान् आश्चर्य है । क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जाग्रत में नाश होने से मोह किसीको भी नहीं हुआ है ॥ ८ ॥

मूलम् ।

धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा ।  
आत्मानं केवलं पश्यन्न तुष्यति न कुप्यति ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

धीरः, तु, भोज्यमानः, अपि, पीड्यमानः, अपि, सर्वदा,  
आत्मानम्, केवलम्, पश्यन्, न, तुष्यति, न, कुप्यति ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
	धीरः=ज्ञानी पुरुष		सर्वदा=नित्य
	तु=तो		केवलम्=एक
भोज्यमानः=भोगता हुआ		आत्मानम्=आत्मा को	
अपि=भी		पश्यन्=देखता हुआ	
च=और		न तुप्यति=न तो प्रसन्न होता है	
पीड्यमानः=पीड़ित होता हुआ		+च=और	
अपि=भी		न कुप्यति=न कोप करता है ॥	

भावार्थ ।

ज्ञानी को शोक और कोप भी न होना चाहिए । ज्ञानी पुरुष लोकों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी, और लोकों करके निन्दित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी, सर्वदा सुख-दुःख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ न तो हर्ष को और न कोप को प्राप्त होता है । क्योंकि तोप और रोप आत्मा में नहीं रह सकते हैं । यदि ज्ञानी में भी तोप और रोप रहें, तो बड़ा आश्चर्य है ॥ ६ ॥

मृतम् ।

चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्यशरीरवत् ।  
संस्तवे चापि निन्दायां कथं क्षुभ्येन्महाशयः ?०

पदच्छेदः ।

चेष्टमानम्, शरीरम्, स्वम्, पश्यति, अन्यशरीरवत्, संस्तवे, च, अपि, निन्दायाम्, कथम्, क्षुभ्येत्, महाशयः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
चेष्टमानम्=चेष्टा करते हुए		सः=वह	
स्वम्=अपने		महाशयः=महाशय पुरुष	
शरीरम्= { शरीर को आत्मा		संस्तवे=स्तुति में	
से भिन्न		च=और	
अन्य शरीरवत्= { अन्य शरीर की		निन्दायाम् अपि=निन्दा में भी	
तरह		कथम्=कैसे	
+ यः=जो		क्षुभ्येत्= { क्षोभ को प्राप्त	
पश्यति=देखता है		होवेगा ॥	
	भावार्थ ।		

जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है, वह अपनी स्तुति में हर्ष को और निन्दा में क्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता है। यदि वह हर्ष और क्षोभ को प्राप्त होवे, तो वह ज्ञानवान् नहीं है ॥ १० ॥

मूलम् ।

मायामात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगतकौतुकः ।  
अपि सन्निहिते मृत्यौ कथं त्रस्यति धीरधीः ११

पदच्छेदः ।

मायामात्रम्, इदम्, विश्वम्, पश्यन्, विगतकौतुकः, अपि, सन्निहिते, मृत्यौ, कथम्, त्रस्यति, धीरधीः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

विगतकौतुकः = { दूर हो गई है  
अज्ञानता जि-  
सकी ऐसा

धीरधीः = धीर पुरुष

इदम् विश्वम् = इस विश्व को

मायामात्रम् = माया-रूप

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

पश्यन् = देखता हुआ

मृत्यो सन्नि-हिते अपि = { मृत्यु के आने  
पर भी

कथम् = क्यों

त्रस्यति = डरेगा ॥

भावार्थः ।

यह जो दृश्यमान जगत् है, सो सब माया का कार्य है । और माया का कार्य होने में ही वह सब मिथ्या है । जो ज्ञानी इसको मिथ्या देखता है, वह फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहीं से ये शरीरादिक उत्पन्न होते हैं और नाश होकर किसमें लय हो जाते हैं । यदि ऐसा विचार करके वह मोह को प्राप्त होने, तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता है । जो विद्वान् अपने स्वरूप में अचल है, वह मृत्यु के समीप आने पर भी भय को नहीं प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

मूलम् ।

निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः ।  
तस्यात्मज्ञानवृत्तस्य तुलना केन जायते ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

निःस्पृहम् , मानसम् , यस्य, नैराश्ये, अपि, महात्मनः, तस्य,  
आत्मज्ञानवृत्तस्य, तुलना, केन, जायते ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

यस्य=जिस

महात्मन =महात्मा का

मानसम्=मन

नैराशये अपि=मोक्ष में भी

नि स्पृहम्=इच्छा रहित है

तस्य=उस

आत्मज्ञान  
तृप्तस्य = { आत्म ज्ञान से  
तृप्त हुए की -

तुलना=बराबरी,

केन=किसके साथ ।

जायते=हो सकती है ॥

भावार्थ ।

अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते हैं—

जिस विद्वान् का मन मोक्ष की भी इच्छा से रहित एव ससार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गये हैं और अपने आत्मा के आनन्द करव ही जो तृप्त है, उस विद्वान् की किसके साथ तुलना की जाये, किन्तु किसी के भी साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अतुल्य है ॥ १२ ॥

मूलम् ।

स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किञ्चन ।

इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं स किं पश्यति धीरधीः १३

पदच्छेद ।

स्वभावात्, एव, जानान, दृश्यम्, एतत्, न, किञ्चन, इदम्, ग्राह्यम्, इदम्, त्याज्यम्, स, किम्, पश्यति, धीरधीः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

एतत्=यह  
दृश्यम्=दृश्य  
स्वभावान्=स्वभाव से ही  
न किञ्चन=कुछ नहीं है  
+ इति=ऐसा  
जानानः=जाननेवाला है  
+ य =जो  
स. धीरधी =यह ज्ञानी

किम्=कैसे  
पश्यति=देख सकता है कि  
इदम्=यह  
प्राह्यम्= { ग्रहण करने  
योग्य है  
+ च=और  
इदम्=यह  
त्याज्यम्=त्यागने-योग्य है ॥

भानार्थः ।

यह जो दृश्यमान प्रपञ्च है, सो सब दृश्य होने से शुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है । अर्थात् जैसे शुक्ति में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे यह प्रपञ्च भी दृश्य होने से मिथ्या है—इम अनुमान प्रमाण करके यह जगत् मिथ्या निन्द्य होना है । ऐसा जिन विद्वान् ने निश्चय कर लिया है, वह धीर पुरुष ऐसा कब देणता है कि यह मेरे को ग्रहण करने-योग्य है, यह मेरे को त्यागने-योग्य है, किन्तु कदापि नहीं देखता है ।

अथ इत्त विषे हेतु को आगेवाले वाक्य करके करते हैं ॥ १३ ॥

मूलम् ।

अन्तस्त्यक्कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिपः ।

यदृच्छयाऽऽगतो भोगो न दुःखाय च तुष्टये १४



पदच्छेदः ।

अन्तस्स्यक्तकपायस्य, निर्द्वन्द्वस्य, निराशिपः, यदृच्छया, आगतः, भोगः, न, दुःखाय, च, तुष्टये ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्तस्स्यक्त-  
कपायस्य = { अन्तःकरण से त्याग  
दिया है विषय-  
वासना के कपाय  
को जिसने

+ एवं=जो

निर्द्वन्द्वस्य=द्वन्द्व से रहित है

+ तथा=जो

निराशिपः= { आशा-रहित है, ऐसे  
पुरुष को

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदृच्छया=दैवयोग से

आगतः=प्राप्त हुई

भोगः=वस्तु

न दुःखाय=न दुःख के लिये है

च=और

न तुष्टये= { न संतोष के  
लिये है ॥

भावार्थः ।

जिस विद्वान् ने अन्तःकरण के मलों को दूर कर दिया है, वह शीत उष्णादिक द्वन्द्वों से अर्थात् शीत और उष्ण-जन्य सुख-दुःखादि से भी रहित है । और नष्ट हो गई हैं सम्पूर्ण विषय-वासनाएँ जिसकी, ऐसा जो समचित्त विद्वान् है, उसको दैवयोग से प्राप्त हुए जो भोग हैं, उनको प्रारब्धवश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां तृतीयं प्रकरणं समाप्तम् ।

## चौथा प्रकरण ।

—:—

मूलम् ।

हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया ।  
न हि संसारवाहीकेमूढे सह समानता ॥ ? ॥

पदच्छेदः ।

हन्त, आत्मज्ञस्य, धीरस्य, खेलतः, भोगलीलया, न, हि, संसार-  
वाहीकेः, मूढैः, सह, समानता ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

हन्त=पथाय है कि

भोगलीलया=भोगलीला से

खेलतः=खेलते हुए

आत्मज्ञस्य=आत्म-ज्ञानी

धीरस्य=धीर पुरुष की

समानता=बराबरी

संसारवाहीके=संसार से लिप्त

मूढैः सह=मूढ़ पुरुषों के साथ

न हि= { कदापि नहीं हो  
सकती है ॥

भावार्थः ।

तृतीय प्रकरण में जो गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिये ज्ञानी के ऊपर आक्षेप किये हैं, अब उन आक्षेपों के उत्तरों को शिष्य कहता है—

प्रारम्भवश से और बाधिताऽऽनुवृत्ति करके सम्पूर्ण व्यवहारों को करवा-हुँआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है । जनकजी

कहते हैं कि हे भगवन् ! जिस आत्म-ज्ञानों विद्वान् ने सबका अधि-  
ष्ठान अपने आत्मा को जान लिया है, वह विषयों करके विक्षेप को  
नहीं प्राप्त होता है, अर्थात् उसका चित्त विषयों के सम्बन्ध से  
विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है ।

यदि विद्वान् प्रारब्धकर्म के वश से स्त्री आदि भोगों में प्रवृत्त  
भी हो जावे, तब भी मूढ़ बुद्धिवाले अज्ञानियों के साथ उसकी तुल्यता  
किसी प्रकार नहीं हो सकती है । क्योंकि विद्वान् विषयों को भोगता  
हुआ भी उनमें प्राप्त नहीं होता है, और मूर्ख कर्म आसक्त हो  
जाता है । इसी वार्ता को 'गीता' में भी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी  
ने कहा है—

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।

गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ १ ॥

हे महाबाहो ! तत्त्ववित्तु जो ज्ञानी है, सो इन्द्रियों के विषयों के  
विभाग को जानता है और इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में वर्तती  
हैं, मैं इनका भी साक्षी हूँ, किन्तु मेरा इनके साथ कोई सम्बन्ध  
नहीं है ॥ १ ॥

एव पञ्चदशीकार ने भी ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिख-  
लाया है—

ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्धकर्मणि ।

न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान्मूढः क्लिशत्यधैर्यतः ॥१॥

प्रारब्ध कर्म के भोग में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुल्य ही हैं ।  
कष्ट के होने पर भी ज्ञानी धीरता से क्लेश को नहीं प्राप्त होता है  
और अज्ञानी मूर्ख अधीरता के कारण क्लेश को प्राप्त होता है ॥ १ ॥

मूलम् ।

यत्पदं प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्याः सर्वदेवताः ।  
अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति ॥२॥

पदच्छेद ।

यत्, पदम् प्रेप्सव, दीना, शक्राद्या, सर्वदेवता, अहो, तत्र,  
स्थित, योगी, न, हर्षम्, उपगच्छति ॥

अन्वय । शब्दार्थ ।  
- ॥ यत्=जिस  
पदम्=पद को  
प्रेप्सव =इच्छा करते हुए  
शक्राद्या =शक्रादि  
सर्वदेवता =सब देवता  
॥ दीना =दीन हो रहे हैं  
तत्र=उस पद पर

अन्वय । शब्दार्थ ।  
स्थित = { स्थित होता ।  
हुआ भी  
योगी=योगी  
हर्षम्=हर्ष को  
न उपगच्छति=नही प्राप्त होता है  
अहो=यही आश्चर्य है ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—ससार विषे व्यवहार में स्थित हुआ भी ज्ञानी अज्ञानी  
के तुल्य क्यों नहीं हो सकता है ?

उत्तर—अज्ञानी को लाभ और अलाभ में सुख और दुःख होते  
हैं, परन्तु ज्ञानवान् को नहीं होते हैं । इसी से उनकी तुल्यता नहीं  
बन सकती है ।

जनकजी कहते हैं कि हे गुरो ! इन्द्र से आदि लेकर सब देवता  
जिसे आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए बड़ी दीनता को  
प्राप्त होते हैं, और जिस पद की अप्राप्ति होने में बड़े शोक को

प्राप्त होते हैं, उस आत्म-पद में स्थित हुआ भी योगी विषय-भाग की प्राप्ति होने से, न तो वह हर्ष को प्राप्त होता है, और न विषयों के न प्राप्त होने से या नष्ट होने पर वह शोक को प्राप्त होता है। क्योंकि आत्म-सुख से अधिक और सुख नहीं है, वह उसको नित्य प्राप्त है ॥ २ ॥

मूलम् ।

तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यां स्पर्शो ह्यन्तर्न जायते ।

न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानोऽपि संगतिः ॥३॥

पदच्छेदः ।

तज्ज्ञस्य, पुण्यपापाभ्याम्, स्पर्शः, हि, अन्तः, न, जायते, न, हि, आकाशस्य, धूमेन, दृश्यमाना, अपि, संगतिः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तज्ज्ञस्य= { उस पद को जानने-  
वाले के

अन्तः=अन्तःकरण का

पुण्यपा- { पुण्य और पाप  
पाभ्याम्= { के साथ

स्पर्शः=सम्बन्ध

न जायते=नहीं होता है

हि=क्योंकि

आकाशस्य=आकाश का

संगतिः=सम्बन्ध

दृश्यमाना=देखा जाता हुआ

अपि=भी

धूमेन=धूम के साथ

न=नहीं है ॥

भावार्थः ।

ज्ञानवान् विधि-वाक्यों का भी किङ्कर नहीं होता है, इसी वास्ते उसको पुण्य-पाप भी स्पर्श नहीं करते हैं। जिस विद्वान् ने तत्पद और त्वम्पद के अर्थ को महावाक्यों द्वारा भागत्याग लक्षणा करके

अभेद अर्थ को निश्चय कर लिया है, उसके अन्तःकरण के धर्म जो पुण्य और पाप हैं, उनके साथ उसका सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं होता है । क्योंकि वह पुण्य और पाप को अन्तःकरण का धर्म मानता है अपने आत्मा का नहीं । जो अपने में पुण्य और पाप मानता है, उसी को पुण्य-पाप भी लगते हैं । इसमें एक दृष्टांत कहते हैं—

एक पण्डित किसी ग्राम को जाते थे । रास्ते में खेत के किनारे, एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे । उस खेत में एक जाट हल जोतता था । जब उसके बैल हल के आगे चलते चलते खड़े हो जाते थे, तब वह जाट बैलों को गालियाँ देता था कि 'तेरे खसम की लड़की को ऐसा करूँ ।' 'तेरे खसम के मुख में पेशाब करूँ ।' इत्यादि.....

पण्डित ने जब उसको बैलों के प्रति भी गालियाँ देते देखा, तब विचार करने लगे कि इन बैलों का खसम तो यह पुरुष आप ही है और यह अपने को ही ये गालियाँ दे रहा है, परन्तु इस वार्ता को यह समझता नहीं है, अतएव इसको समझा देना चाहिए ।

तब पण्डित ने उस जाट से कहा कि तू जो बैलों को गालियाँ दे रहा है, ये गालियाँ किसको लगती हैं । तब जाट ने कहा कि जो साला गालियों को समझता है, उसी को लगती हैं । यह सुनकर पण्डितजी चुप होकर चले गये । जाट का तात्पर्य यह था कि मैं तो समझता नहीं हूँ और तू समझता है, अतएव ये गालियाँ तेरे को ही लगती हैं ।

दार्ष्टान्त ।

अज्ञानी पाप और पुण्य को अपने में मानता है इसवास्ते अज्ञानी को ही पाप और पुण्य लगते हैं । ज्ञानी अपने में नहीं मानता है,

किन्तु उनको अन्त करण का धर्म मानता है, इसवास्ते उसको पाप-पुण्य नहीं लगते हैं। अथवा जिसको पाप-पुण्य का विशेष ज्ञान होता है, उसी को पाप पुण्य लगते हैं, बालक को या पागल को पाप-पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, इसवास्ते उनको भी पाप-पुण्य नहीं लगते हैं। ज्ञानवान् को भी पाप-पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह अपने आत्मानन्द में मग्न रहता है, अतएव उसको भी पाप-पुण्य नहीं लगते हैं। इसी पर और दृष्टान्त कहते हैं—

जैसे आकाश का धूम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, वैसे आत्म-वित् का भी पुण्य और पाप के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है ॥३॥

मूलम् ।

आत्मंवेदं जगत्सर्वं ज्ञातं येन महात्मना ।  
यदृच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेत कः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

आत्मा, एव, इदम्, जगत्, सर्वम्, ज्ञातम्, येन, महात्मना,  
यदृच्छया, वर्तमानम्, तम्, निषेद्धुम्, क्षमेत, कः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

येन महात्मना = { जिन महात्मा  
करके

यदृच्छया = प्रारब्धवश से  
तम् = इस

वर्तमानम् = वर्तमान ज्ञानी को  
निषेद्धुम् = निषेध करने को

इदम् सर्वम् = यह सम्पूर्ण  
जगत् = संसार

कः = कौन

आत्मा एव = आत्मा ही  
ज्ञातम् = ज्ञाना गया है

क्षमेत = समर्थ है ॥

भावार्य ।

प्रश्न—यदि ज्ञानी कर्मों को करेगा; तो उसको पुण्य-पाप का भी सम्बन्ध जरूर हीगा, यह कैसे हो सकता है कि वह कर्म तो करे पर उसको पुण्य-पाप का सम्बन्ध न हो ?

उत्तर—जिस विद्वान् ने दृश्यमान सारे जगत् को अपना आत्मा जान लिया है, उसको प्रारब्धवश से कर्मों में वर्तमान को कौन वास्तव्य प्रवृत्त करने में वा निषेध करने में समर्थ है, किन्तु कोई भी नहीं है । 'शारीरक-भाष्य' में कहा है—

अविद्यावद्विषयो वेदः ।

अर्थात् वेदवचन जो विधि-निषेध वाक्य हैं, वे भी अज्ञानों के लिये हैं, ज्ञानवान् के ऊपर उनकी आज्ञा नहीं है । स्मृति भी नहीं है—

पयोधनीय एवासौ सुप्तो राजेव बन्धुभिः ।

जैसे बन्दी-गण अर्थात् भाट लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान् के चरित्रों का वर्णन करते हैं । इसी कारण ज्ञानवान् को पुण्य-पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे ।

विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यमिच्छानिच्छाविवर्जने ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्ते, भूतग्रामे, चतुर्विधे, विज्ञस्य, एव, हि, सामर्थ्यम्,  
इच्छानिच्छाविवर्जने ॥



अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
आग्रहस्तम्ब- पर्यन्त = { ब्रह्मा से चीटी पर्यन्त		इच्छानिच्छा- विवर्जने = { इच्छा और अनिच्छा के रयाग में	
चतुर्विधे=चार प्रकार के		हि=निश्चय करके	
भूतग्रामे= { जीवों के समूह में से		सामर्थ्यम्=सामर्थ्य है ॥	
विज्ञस्य एव=ज्ञानी को ही			
	भावार्थ ।		

प्रश्न—ज्ञानी की प्रवृत्ति यदृच्छा से अर्थात् दैवेच्छा से होती है या अपनी इच्छा से होती है ?

उत्तर—ज्ञानी की प्रवृत्ति यदृच्छा से होती है, अपनी इच्छा से नहीं होती है ।

यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त इच्छा और अनिच्छा हटाई नहीं जा सकती है, तथापि ब्रह्मज्ञानी में इच्छा और अनिच्छा के हटाने की सामर्थ्य है, इसी वास्ते यदृच्छा करके भोगों में प्रवृत्त होकर या कर्मों में प्रवृत्त होकर विधि-निषेध का किंकर नहीं हो सकता है । शुक्रदेवजी ने भी कहा है—

भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विशीरौ

मायामोहौ क्षयमुपगतौ नष्टसन्देहवृत्तेः ।

शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तच्चावबोधं

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः ॥ १ ॥

अर्थात् जिस विद्वान् के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद और अभेद ये दोनों वृत्ति-ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गये हैं, उसी के पुण्य और पाप भी नष्ट हो जाते हैं और माया और माया का कार्य मोह; ये दोनों



जिसके नष्ट हो गये हैं और जो शब्द आदि विषयों से और तीनों गुणों से रहित है, और जो आत्म-तत्त्व को प्राप्त हुआ है, और जो तीनों गुणों से रहित होकर निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में विचरता रहता है, उसके लिये न कोई विधि है, और न कोई निषेध है ॥ १ ॥

प्रश्न—अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥ १ ॥

अर्थात् किये हुए जो शुभ-अशुभ कर्म हैं, वे सब अवश्य ही सब जीवों को भागने पड़ते हैं, तो फिर इन वाक्यों से क्या प्रयोजन है ?

उत्तर—ये सब वाक्य अज्ञानी के प्रति हैं ज्ञानी के प्रति नहीं; ऐसा वेद में भी कहा है । तथाच श्रुतिः—

तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृदः साधुकृत्यं द्विपन्तः पापकृत्यम् ?

अर्थात् जो विद्वान् शुभ-अशुभ कर्मों को करते हैं, उसके द्रव्य को उसके पुत्र लेते हैं, और उसके मित्र उसके पुण्यकर्मों को लेते हैं, और उसके द्वेषी पापकर्मों को ले लेते हैं, वह आप पुण्य-पाप से रहित होकर मुक्त हो जाता है ।

तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये ।

अर्थात् केवल उतना ही काल उस विद्वान् के मोक्ष में विलंब है, जितने काल तक वह प्राग्भ्य-कर्म के भोग में नहीं छूटता है ।

अथ संपन्थ्ये ।

जब वह प्राग्भ्य-कर्मों में छूट जाता है, तब वह शरीर-रूपी उपाधि में रहित होकर ब्रह्म से अभेद को प्राप्त हो जाता है ।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विभूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ।

शरीर त्यागते ही विद्वान् पुण्य-पाप से रहित होकर और भावी जन्म-कर्म से रहित होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है ।

**न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति ।**

और उस विद्वान् के प्राण लोकान्तर में गमन नहीं करते हैं—

**अत्रैव समवलीयन्ते ।**

इसी जगह अपने कारण में लय हो जाते हैं । इस तरह के अनेक श्रुति-वाक्य हैं, जो विद्वान् के कर्मों के फल को निषेध करते हैं, और गीता में भी भगवान् ने कहा है कि ज्ञान-रूपी अग्नि करके उसके सब कर्म दग्ध हो जाते हैं ।

**प्रश्न—**कारण के नाश होने से कार्य का भी नाश हो जाता है । जैसे तन्तुओं के नाश होने से पट का भी नाश हो जाता है, वैसे ही आत्म ज्ञान करके अज्ञान के नाश होने से अज्ञान का कार्य जो विद्वान् का शरीर है, उसका भी नाश हो जाना चाहिए ?

ऐसी शका किसी नैयायिक की है । इसके समाधान को कहते हैं—

**उत्तर—**कारण अज्ञान के नाश-समकाल ही विद्वान् के शरीर इन्द्रियादिकों का भी नाश हो जाता है अर्थात् ज्ञान-रूपी अग्नि करके विद्वान् के देहादिक सब भस्म हो जाते हैं, पर दग्ध हुए भी उसके काम को देते हैं । जैसे 'महाभारत' में ब्रह्माक्ष करके अर्जुन का रथ भस्म हो गया था, तथापि कृष्णजी की शक्ति से वह भस्म हुआ भी रथ चलता-फिरता था वैसे आत्म-ज्ञान करके कारण के सहित देहादिक विद्वान् के भस्म हुए भी प्रारब्ध-रूपी शक्ति करके अपने-अपने कार्य को करते रहते हैं । अथवा नैयायिक के मत में

कारण के नाश से एक क्षण पीछे कार्य का नाश होता है । जैसे तन्तुओं के नाश से एक क्षण पीछे पट का नाश होता है वैसे ही अज्ञान-रूपी कारण के नाश के एक क्षण पीछे विद्वान् के देहादिकों का भी नाश होता है ।

यदि कहो कि देहादिक तो ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे अनेक वर्षों तक रहते हैं, सो नहीं । जैसे अल्पकाल तक रहनेवाले पट का नाश भी अल्प है, वैसे ही अनादिकाल के अज्ञान के कार्य जो देहादिक हैं, उनके नाश के लिये दीर्घकाल लगता है । पूर्वोक्त युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ज्ञानी के ऊपर विधि-निषेध-वाक्यों की आज्ञा नहीं है, किन्तु अज्ञानी के ऊपर ही है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

आत्मानमद्वयं कश्चिज्जानाति जगदीश्वरम् ।

यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

आत्मानम्, अद्वयम्, कश्चित्, जानाति, जगदीश्वरम्, यत्, वेत्ति, तत्, सः, कुरुते, न, भयम्, तस्य, कुत्रचित् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

कश्चित्=कोई एक

आत्मानम्= { आत्मा अर्थात्  
जीव को

च=और

जगदीश्वरम्=ईश्वर को

अद्वयम्=अद्वैत

जानाति=ज्ञानता है

यत्= { जिस कर्म को  
करने योग्य

वेत्ति=ज्ञानता है

तत्=उसको

स=वह

कुरुते=करता है

तस्य= { उस आत्म-  
जानी को

भयम्=भय

कुत्रचित्=कहीं

न=नहीं है ॥

भावार्थ ।

अद्वैत ज्ञान करके द्वैत का बाध हो जाता है और द्वैत के बाध होने से भय का कारण अज्ञान विद्वान् को नहीं रहता है । तत्पद और त्वंपद के लक्ष्यार्थ का भागत्याग लक्षणा करके, और महावाक्यों करके अभेदता से जो जानता है, वही अद्वैत ज्ञान है । जिसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त है, वह विद्वान् है, वही बाधितानुवृत्ति करके सम्पूर्ण व्यवहारों को करता भी है, पर उसको किसी का भय नहीं होता है । क्योंकि उसके भय का—द्वैतज्ञान का—बाध हो गया है । इसी वार्ता को श्रुति भगवती भी कहती है—

द्वितीयाद्वै भयं भवति ॥ १ ॥

अर्थात् द्वैत में ही निश्चय करके भय होता है ।

उदरमन्तरं कुरुतेऽथ तस्य भयं भवति ।

जो थोड़ा सा भी भेद करता है, उसको भय होता है ।

अन्योऽसावदमन्योस्मि न स वेद यथा पशुः ।

जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है, वह पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता है ।

ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति ।

ब्रह्मवित् ब्रह्मरूप ही होता है ।

तरति शोकमात्मवित् ।

आत्मवित् संसार-रूपी शोक से तर जाता है । इन श्रुति-वाक्यों से भी सिद्ध होता है कि विद्वान् को किसी दूसरे का भी भय नहीं होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दुमरा नहीं है ॥ ६ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां चतुर्थं प्रकरणं समाप्तम् ।



## पाँचवाँ प्रकरण ।



मूलम् ।

न ते सङ्गोऽस्ति केनापि किं शुद्धस्त्यक्रुमिच्छसि ।  
संघातविलयं कुर्वन्नेवमेव लयं व्रज ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

न, ते, संगः, अस्ति, केन, अपि, किम्, शुद्धः, त्यक्तुम्, इच्छसि,  
संघातविलयम्, कुर्वन्, एवम्, एव, लयम्, व्रज ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

ते=तेरा

केन अपि=किसी के साथ भी

संगः=संग

न=नहीं

अस्ति=है

अतः=इसलिये

शुद्धः=तू शुद्ध है

किम्=किसको

त्यक्तुम्=त्यागना

इच्छसि=चाहता है

एवम् एव=इस प्रकार ही

संघातविलयम्= { देहाभिमान का  
त्याग

कुर्वन्=करता हुआ

लयम्=मोक्ष को

व्रज=प्राप्त हो ॥

भावार्थः ।

चतुर्थ प्रकरण में शिष्य की परीक्षा के लिये उपदेश किया था, अब उसकी दृढ़ता के लिये चार श्लोकों करके लय का उपदेश करते हैं—

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे शिष्य ! तू शुद्धबुद्ध-स्वरूप है, तेरा देह गेहादिकों के साथ अहंकार और ममत्व का आस्पद-रूप करके सम्बन्ध नहीं है । जब तू असंग है, और शुद्ध है, तब फिर तेरे विषे त्याग और ग्रहण कहाँ है, इसवास्ते अब तू देह-संघात को लय कर, अर्थात् 'मैं देह हूँ' या 'मेरा यह देह है'—ऐसे अहंकार को भी दूर करके अपने स्वरूप में स्थित हो ॥ ? ॥

मूलम् ।

उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्बुदः ।

इति ज्ञात्वैकमात्मानमेवमेव लयं ब्रज ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

उदेति, भवत, विश्वम्, वारिधेः, इव, बुद्बुद, इति, ज्ञात्वा, एकम्, आत्मानम्, एवम्, एव, लयम्, ब्रज ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
भवतः=बुझसे	.	एकम्=एक	
विश्वम्=संसार	.	आत्मानम्=आत्मा को	
उदेति=उत्पन्न होता है	.	एवम् एव=ऐसा	
इव=जैसे,	.	ज्ञात्वा=जान करके	
वारिधेः=समुद्र मे	.	लयम्=शान्ति को	
बुद्बुदः=बुद्बुद	.	ब्रज=प्राप्त हो ॥	
इति=इस प्रकार	.		

भावार्थः ।

जैसे समुद्र में अनेक बुद्बुदे और तरंग उत्पन्न होते हैं, फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही मन के संकल्प



से यह जगत् उत्पन्न हुआ है और मन के ही लय होने से जगत् लय हो जाता है । देवीभागवत में कहा है—

शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा न वै बध्येत किञ्चित् ।

बन्धमोक्षौ मनस्संस्थौ तस्मिञ्छान्ते प्रशाभ्यति ॥ १ ॥

आत्मा सदैव शुद्ध और मुक्त है, वह कदापि बंध को नहीं प्राप्त होता है । बंध और मोक्ष दोनों मन के धर्म हैं । मन के शान्त होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है । आत्मा में मन के लय करने से सारा जगत् लय को प्राप्त हो जाता है ॥ २ ॥

मूलम् ।

प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाद्भिश्च नास्त्यमले त्वयि ।

रज्जुसर्प इव व्यक्तमेवमेव लयं व्रज ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

प्रत्यक्षम्, अपि, अवस्तुत्वात्, विश्वम्, न, अस्ति, अमले, त्वयि, रज्जुसर्पः, इव, व्यक्तम्, एवम्, एव, लयम्, व्रज ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

व्यक्तम्=दृश्यमान

विश्वम्=संसार

प्रत्यक्षम् अपि= { प्रत्यक्ष होता  
हुआ भी

अवस्तुत्वात्=वास्तव में

अमले=मल-रहित

त्वयि=तुम्हारे विषे

रज्जुसर्पः=रज्जु-सर्प के

इव=मदृश भी

न अस्ति=नहीं है

एवम् एव=इसी लिये

लयम्=शान्ति को

व्रज=( तू ) प्राप्त हो ॥

भावार्थ ।

**प्रश्न**—प्रत्यक्ष प्रमाण करके रज्जु विषे सर्पादिकों का भेद प्रतीत होता है, उनका कैसे लय हो सकता है ? क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, उसका लय नहीं होता है ?

**उत्तर**—प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय है, उसका भी बाध शास्त्र करके हो जाता है । जैसे चन्द्रमा का मंडल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो एक बिन्ता भर का दिखाई देता है, परन्तु ज्योतिष-शास्त्र में वह दश हजार योजन का लिखा है । उस शास्त्र करके बिन्ता भर का नहीं माना जाता है । वैसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय जो जगत् है, वह भी श्रुति-वाक्यों करके बाधित हो जाता है, क्योंकि जगत् वास्तव में तीनों कालों में नहीं है, और जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व-नगरादिक तीनों कालों में नहीं हैं, वैसे ही यह जगत् भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है । ऐसा चिन्तन ही जगत् के लय का हेतु है । ३ ॥

मूलम् ।

समदुःखसुखः पूर्ण आशानैराश्ययोः समः ।  
समजीवितमृत्युः सन्नेवमेव लयं ब्रज ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

समदुःखसुखः, पूर्णः, आशानैराश्ययोः, समः, समजीवितमृत्युः, सन्, एवम्, एव, लयम्, ब्रज ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

समदुःखसुखः = { तुल्य है दुःख  
और सुख  
जिसको

पूर्णः = जो पूर्ण है

आशानैरा-  
श्ययोः = { आशा और  
निराशा में

समः = जो बराबर है

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

समजीवित-  
मृत्युः = { तुल्य है जीना  
और मरना  
जिसको

एवम् एव = ऐसा

सन् = होता हुआ

लयम् = ब्रह्म-दृष्टि को

ब्रज = ( तू ) प्राप्त हो ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! तू आत्मानन्द करके पूर्ण है । दैवयोग से शरीर में उत्पन्न हुए जो सुख-दुःख हैं, उनमें भी तू पूर्ण है, आशा और निराशा में भी तू सम है, जीने और मरने में भी तू सम है, तू निर्विकार है, सुख दुःखादिक सब अनात्मा के धर्म हैं, और मिथ्या हैं । क्योंकि इनके धर्मा जो देहादिक हैं, वे भी सब मिथ्या हैं । उत्पत्ति से पूर्व जो देहादिक नहीं थे, और नाश से उत्तर भी नहीं रहते हैं, वे बीच में भी प्रतीतिमात्र हैं । जो वस्तु उत्पत्ति से पूर्व और नाश से उत्तर न हो, वह बीच में भी वास्तविक नहीं होती है, केवल प्रतीतिमात्र ही होती है । जैसे स्वप्न के पदार्थ और रज्जु विषे सर्पादिक मिथ्या हैं, वैसे यह जगत् भी मिथ्या है । वास्तव में, तीनों फालों में नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है ।

सर्वं खल्विदं ब्रह्म ॥

यह संपूर्ण जगत् निश्चय करके ब्रह्म-रूप ही है, एमे चिंतन का नाम ही लयचिंतन है ॥ ४ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां पंचम प्रकरण समाप्तम् ।

## छठा प्रकरण ।

—:०:—

मूलम् ।

आकाशवदनन्तोऽहं घटवत्प्राकृतं जगत् ।  
इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः ॥१॥

पदच्छेदः ।

आकाशवत्, अनन्तः, अहम्, घटवत्, प्राकृतम्, जगत्, इति,  
ज्ञानम्, तथा, एतस्य, न, त्याग, न, ग्रहः, लयः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
आकाशवत्=आकाशवत्		एतस्य=इसका	
अहम्=मैं		न त्यागः=न त्याग है	
अनन्तः=अनन्त हूँ		च=और	
जगत्=संसार		न ग्रहः=न ग्रहण है	
घटवत्=घटवत्		च=और	
प्राकृतम्=प्रकृति-जन्म है		न लयः=न लय है	
तथा=इस कारण		इति ज्ञानम्=ऐसा ज्ञान है ॥	

भावार्थः ।

शिष्य की परीक्षा के वास्ते पाँचवें प्रकरण द्वारा गुरु ने लययोग-  
रूप चिंतन का उपदेश किया । अब इस छठे प्रकरण में गुरु अपने  
अनुभव को दिखाता हुआ लयादिकों के असंभय को दिखाता है—

लय चिंतन रूप योग भी मेरे में नहीं बनता है। लय उसका होता है, जो उत्पत्तिवाला पदार्थ है। जिसकी उत्पत्ति ही तीनों कालों में नहीं है, उसका लय भी नहीं है। जैसे वध्या का पुत्र और शशे के सींग की उत्पत्ति नहीं है और न उसका लय है, वैसे ही जगत् भी तीनों कालों में न उत्पन्न हुआ है, न होगा, और न वर्तमान काल में है। तब उसका लयचिंतन कसे हो सकता है, किन्तु कदापि नहीं हो सकता है।

प्रश्न—यदि जगत् उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तब प्रतीत क्यों होता है ?

उत्तर—माडुक्य-कारिका में कहा है—

आदावन्ते च यत्रास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ।

वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ १ ॥

स्रग्ममाये यथा दृष्टे गंधर्वनगरं तथा ।

तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥ २ ॥

पर्यात् जो वस्तु उत्पत्ति से पहल नहीं है, और नाश से उत्तर भी नहीं है, वह वर्तमान काल में भी नहीं है, परन्तु मिथ्या होकर सत्य की तरह वर्तमान काल में प्रतीत होती है ॥ १ ॥

जैसे स्वप्न के हाथी घोड़े, और इन्द्रजाली करके रचे हुए पदार्थ, और ग-धर्वनगर ये सत्र मिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे यह जगत् भी मिना हुए ही प्रतीत होता है। ज्ञानियों ने ऐसा अनुभव करके वेदा त शास्त्र द्वारा देखा है कि केवल अद्वैत अनंत स्वरूप आत्मा ही सत्य है, और सारा प्रपञ्च प्रतीतिमात्र ही है, वास्तव में नहीं है ॥ २ ॥

प्रश्न—अनंत-स्वरूप आत्मा का देहादिकों में निवास कैसे हो सकता है ? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं आ सकती है ?

उत्तर—जैसे घटमठादिक आकाश के निवास के स्थान हैं, और भेदक भी हैं, वैसे ही देहादिक भी अनंत-स्वरूप आत्मा के निवास का स्थान है, और भेदक भी है । वास्तव में तो यह जगत् मिथ्या भाषा का कार्य होने से मिथ्या है । इस प्रकार वेदान्त करके सिद्ध जो ज्ञान है, वही अनुभवरूप होकर जगत् के मिथ्यात्व में प्रमाण है, इस वास्ते लयचितनादिक भी जगत् के नहीं बन सकते हैं ॥ १ ॥

मूलम् ।

महोदधिरिवाहं स प्रपञ्चो वीचिसन्निभः ।

इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

महोदधिः, इव, अहम्, सः, प्रपञ्चः, वीचिसन्निभः, इति, ज्ञानम्, तथा, एतस्य, न, त्यागः, न, ग्रहः, लयः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अहम्=मैं

महोदधिः इव=समुद्र के समान हूँ

सः=यह

प्रपञ्चः=संसार

वीचिसन्निभः=तरंगों के मुख्य हैं

तथा=इस कारण

न=न

एतस्यत्यागः=इसका त्याग है

च=और

न=न

ग्रहः लयः=ग्रहण और लय हैं

इति ज्ञानम्= { यह ज्ञान है अर्थात् इस प्रकार के विचार को ज्ञान कहते हैं ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—घटाकाश के दृष्टांत से तो देह और आत्मा के भेद की शंका उत्पन्न होती है । जैसे आकाश से घट भिन्न है, और घट से आकाश भिन्न है, वैसे आत्मा से देह भिन्न है, और देह से आत्मा भिन्न है, दोनों के भिन्न-भिन्न होने से ही द्वैत साधित हुआ, अद्वैत आत्मा तो साधित न हुआ ?

उत्तर—जनकजी कहते हैं कि आत्मा महान् समुद्र की तरह है, उसमें प्रपञ्च लहरों की तरह है । इस प्रकार का अनुभव-रूप ज्ञान ही अद्वैत में प्रमाण है ॥ २ ॥

मूलम् ।

अहं स शुक्तिसङ्काशो रूप्यवद्विश्वकल्पना ।  
इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः ॥३॥

पदच्छेद ।

अहम्, सः, शुक्तिसंकाशः, रूप्यवत्, विश्वकल्पना, इति, ज्ञानम्, तथा, एतस्य, न, त्यागः, न, ग्रहः, लयः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

स.=वह

अहम्=मैं

शुक्तिसंकाशः=शुक्ति के मुख्य हैं  
विश्वकल्पना=विश्व की कल्पना  
रूप्यवत्=रजत के समान हैं

तथा=इस कारण

एतस्य=इसका

न त्यागः=न त्याग है

न लयः=न लय है

इति ज्ञानम्=यही ज्ञान है ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—जैसे सुव धीधियों समुद्र के विकार हैं और समुद्र विकारी

है, वैसे आपके दृष्टान्त से देह, आत्मा-का विकार है, और आत्मा विकारी सिद्ध होता है ?

उत्तर—अष्टावक्रजी कहते हैं कि विकार-विकारीभाव-साध्यव्यपदायों में होते हैं, निरवयव पदार्थ में नहीं होते हैं, इसलिये तुम्हारा दृष्टान्त सार्थक नहीं है, अतएव मेरे दृष्टान्त को सुनो—

जैसे शुक्ति सत्य-रूप है और उसमें रजत मिथ्या है, वैसे ही देहादिक समग्र प्रपञ्च का अधिष्ठान-रूप मैं ही सत्य हूँ और सारा प्रपञ्च मेरे मे कल्पित रजत की तरह मिथ्या है। इसी कारण, द्वैत तीनों कालों में सिद्ध नहीं हो सकता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

अहं वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि ।

इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः ॥ ४ ॥

पदच्छेद ।

अहम्, वा, सर्वभूतेषु, सर्वभूतानि, अथो, मयि, इति, ज्ञानम्, तथा, एतस्य, न, त्यागः, न, ग्रहः, लय ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अहम्=मैं

वा=निश्चय करके

सर्वभूतेषु=सब भूतों में हैं

अथो=और

सर्वभूतानि=सब भूत

मयि=मुझमें

+ सन्ति=हैं

तथा=इस कारण से

एतस्य=इसका

न त्यागः=न त्याग है

न ग्रहः=न ग्रहण है

च=और

न लयः=न लय है

इति ज्ञानम्= { इस प्रकार का ज्ञान है ॥



भावार्थ ।

प्रश्न—शुक्ति में रजत के दृष्टांत करके भी आत्मा को परिच्छिन्नता की शंका होती है, क्योंकि जैसे शुक्ति परिच्छिन्न और एकदेशवर्ती है, वैसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न और एकदेशवर्ती सिद्ध होगा ?

उत्तर—जनकजी कहते हैं कि मैं ही सम्पूर्ण भूतों में व्यापकरूप करके मणियों में सूत की तरह वर्तता हूँ, मैं ही सबका अधिष्ठान-रूप होकर सत्ता और स्फूर्ति का देनेवाला हूँ, मेरे में ही सारा जगत् आकाश में नीलता की तरह अध्वस्त है । इस प्रकार का दान्त वाक्यो करके सिद्ध ज्ञान अर्थात् अनुभव आत्मा के अद्वैत होने में प्रमाण है । और जब मैं हूँ, तो मेरे में ग्रहण, त्याग और लय चितनादिक भी नहीं बनते हैं ॥ ४ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां षष्ठं प्रकरणं समाप्तम् ।

## सातवाँ प्रकरण ।



मूलम् ।

मय्यनन्तमहाम्भोधौ विश्वपोत इतस्ततः ।

भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्त्यसहिष्णुता ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

मयि, अनन्तमहाम्भोधौ, विश्वपोतः, इतः, ततः, भ्रमति, स्वान्त-  
वातेन, न, मम, अस्ति, असहिष्णुता ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
मयि अनन्त-		भ्रमति=भ्रमती है	
महाम्भोधौ		+ परन्तु=परन्तु	
विश्वपोतः=विश्व-रूपी नौका		मम=मुझको	
स्वान्तवातेन=मन-रूपी पवन करके		असहिष्णुता=असहनशीलता	
इतः ततः=इधर-उधर से		न अस्ति=नहीं है ॥	

भावार्थः ।

प्रश्न—यदि लय चिंतन नहीं होगा, तो सांसारिक विलेप भी  
बने रहेंगे और वे कदापि दूर नहीं होंगे ?

उत्तर—वे बने रहें, मेरी क्या छानि है । अनन्त महान् समुद्र-  
रूपी मुझ आत्मा में यह विश्व-रूपी नौका मन-रूपी पवन करके  
इधर-उधर भ्रमती फिरती है, उसका भ्रमण करना मेरे को असहन

नहीं है। जैसे समुद्र में पवन करके इधर-उधर भ्रमती हुई नौका समुद्र को लुब्ध नहीं कर सकती है, वैसे मन-रूपी पवन करके इधर-उधर भ्रमती हुई विश्व-रूपी नौका भी समुद्ररूपी आत्मा को लुब्ध नहीं कर सकती है ॥ १ ॥

मूलम् ।

मय्यनन्तमहाम्भोधौ जगद्बीचिः स्वभावतः ।

उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न च क्षतिः ॥२॥

पदच्छेदः ।

मयि, अनन्तमहाम्भोधौ, जगद्बीचिः, स्वभावतः, उदेतु, वा, अस्तम्, आयातु, न, मे, वृद्धिः, न, च, क्षतिः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
मयि अनन्त- महाम्भोधौ =	{ मुझ अनन्त महासमुद्र में	आयातु=प्राप्त हों	
जगद्बीचि =	जगत्-रूपी कलोल	मे=मेरी	
स्वभावतः=	स्वभाव से	न=न	
उदेतु=	उदय हों	वृद्धिः=वृद्धि है	
वा=	और चाहे	च=और	
अस्तम्=	लय की	न=न	
		क्षतिः=हानि है ॥	

भावार्थः ।

पूर्ववाक्य करके जगत् के व्यवहार को अनिष्टता का अभाव कहा। अब इस वाक्य करके जगत् की उत्पत्ति आदिकों को भी अनिष्टता का अभाव कथन करते हैं।

जनकजी कहते हैं कि विनाश से रहित व्यापक आत्मा-रूपी

समुद्र में जगत्-रूपी अनेक लहरें उदय होती हैं, और फिर अस्त हो-  
जाती हैं । उनके उदय होने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती है और  
उनके अस्त होने से आत्मा की कोई हानि नहीं होती है । जैसे  
समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र की कुछ भी  
हानि नहीं है ॥ २ ॥

मूलम् ।

मय्यनन्तमहाम्भोधौ विश्वं नाम विकल्पना ।  
अतिशान्तो निराकार एतदेवाहमास्थितः ॥३॥

पदच्छेदः ।

मयि, अनन्तमहाम्भोधौ, विश्वम्, नाम, विकल्पना, अतिशान्तः,  
निराकारः, एतत्, एव, अहम्, आस्थितः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

मयि=मुझ

अहम्=मैं

अनन्त- { अनन्त महा-  
महाम्भोधौ = { समुद्र में

अतिशान्तः=अत्यन्त शान्त हूँ

निराकारः=निराकार हूँ

नाम=निश्चय करके

च=और

विश्वम्=संसार

एतत् एव=इसी आत्मा के

विकल्पना=कल्पनामात्र है

आस्थितः=आश्रय हूँ

भावार्थः ।

समुद्र और लहर के दृष्टान्त से किसी को ऐसा भ्रम न हो जावे  
कि आत्मा का विकार जगत् है, इस भ्रम के दूर करने के लिये  
ज नकभी दूसरी रीति से कहते हैं ।

मुझ महान् समुद्र-रूपी आत्मा में जो जगत् की कल्पना है, सो

भ्रम मात्र ही है। वास्तव में नहीं है, क्योंकि मेरा अनन्तरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती है। जब कि आत्मा में जगत् की वास्तव में उत्पत्ति नहीं बनती है, तो मैं प्रपंच से रहित शान्त-रूप होकर स्थित हूँ। एवं लय योगादिक भी मेरे को करना उचित नहीं हैं ॥ ३ ॥

मूलम् ।

नात्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरञ्जने ।

इत्यसक्तोऽस्पृहः शान्त एतदेवाहमास्थितः ॥४॥

पदच्छेदः ।

न, आत्मा, भावेषु, नो, भावः, तत्र, अनन्ते, निरञ्जने, इति, असक्तः, अस्पृहः, शान्तः, एतत्, एव, अहम्, आस्थितः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

आत्मा=आत्मा

भावेषु=देह आदि में

न=नहीं

+ च=और

भावः=देहादि

तत्र=उस

अनन्ते=अनन्त

निरञ्जने=निर्द्वन्द्व आत्मा में

नो=नहीं है

इति=इस प्रकार

असक्तः=संग-रहित

शान्तः=शान्त हुआ

अहम्=मैं

एतत् एव=इसी आत्मा के

आस्थितः=आश्रित हूँ ॥

भावार्थः ।

आत्मा देहादिभावों में आधेय अर्थात् आश्रित-रूप करके नहीं है, क्योंकि आत्मा व्यापक है, देहादिक सब परिच्छिन्न हैं। व्यापक

परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता है । और आत्मा निराकार होने से देहादिकों की उपाधि भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा सत्य है, देहादिक सब मिथ्या हैं । सत्य वस्तु मिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हो सकती है । और देह इन्द्रियादिक आत्मा की उपाधि भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा अनन्त और निरञ्जन है और देहादिक अन्तवान् और नाशवान् हैं, इसी कारण आत्मा सम्बन्ध से रहित है और इच्छा आदिकों से भी रहित है एवं आत्मा शान्त-स्वरूप है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

अहो चिन्मात्रमेवाहमिन्द्रजालोपमं जगत् ।

अतो मम कथं कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

अहो, चिन्मात्रम्, एव, अहम्, इन्द्रजालोपमम्, जगत्, अतः, मम, कथम्, कुत्र, हेयोपादेयकल्पना ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अहो=आश्चर्य है कि

अहम्=मैं

चिन्मात्रम्=चैतन्य-मात्र हूँ

जगत्=संसार

इन्द्रजालोपमम् = { इन्द्रजाल की तरह है

अतः=इसलिये

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

मम=मेरी

हेयोपादेय-कल्पना = { हेय और उपादेय की कल्पना

कथम्=क्योंकर

च=और

कुत्र=किसमें हो ॥

भावार्थ ।

विद्वान् में इच्छा आदिक भी स्वतः नहीं होते हैं, इसमें जो कारण है उसको कहते हैं—

जनकजी कहते हैं कि मैं चैतन्य-स्वरूप हूँ और संपूर्ण जगत् इन्द्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बल और अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होता है । चूँकि जगत् की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है इस वास्ते मेरे को किसी पदार्थ में भी किसी प्रकार करके त्याग और ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है । जो पुरुष जगत् के पदार्थों को सत्य मानता है, उसी की उनमें ग्रहण और त्यागबुद्धि होती है ॥ ५ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां सप्तमं प्रकरणं समाप्तम् ।

## आठवाँ प्रकरण ।

मूलम् ।

तदा वन्धो यदा चित्तं किञ्चिद्वाञ्छति शोचति ।  
किञ्चिन्मुञ्चति गृह्णाति किञ्चिद्धृष्यति कुप्यति ॥१॥

पदच्छेदः ।

तदा, वन्धः, यदा, चित्तम्, किञ्चित्, वाञ्छति, शोचति,  
किञ्चित्, मुञ्चति, गृह्णाति, किञ्चित्, हृष्यति, कुप्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदा=जब

चित्तम्=मन

वाञ्छति=चाहता है

किञ्चित्=कुछ

शोचति=मोचता है

किञ्चित्=कुछ

मुञ्चति=त्यागता है

किञ्चित्=कुछ

गृह्णाति=ग्रहण करता है

हृष्यति=पसन्न होता है

कुप्यति=दुःखित होता है

तदा=तब

वन्धः=बन्ध है ॥

भावार्थः ।

पहले के सात प्रकरणों द्वारा अष्टावक्रजी ने सब प्रकार से जनकजी के अनुभव की परीक्षा कर ली । अब इस आठवें प्रकरण



में चार श्लोकों द्वारा अपने शिष्य के अनुभव की श्लाघा को करते हैं—

हे जनक ! जो तूने पूर्व कहा है कि मुझ अनन्त-स्वरूप आत्मा में त्याग और ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, सो तूने ठीक कहा है । क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छावाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके अप्राप्त होने से फिर सोच करता है और कष्ट होता है, तब उसके त्याग की इच्छा करता है । और जब चित्त में लोभ उत्पन्न होता है, तब ग्रहण की इच्छा करता है तथा पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, अप्राप्ति होने पर क्रोधित होता है । इस प्रकार जब कि अनेक वासनाओं करके चित्त युक्त होता है, तब जीव को बन्ध होता है । योग-वाशिष्ठ में भी कहा है—

स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोपिताम् ।

आपातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम् ॥ १ ॥

अर्थात् स्त्री-पुत्रादिकों में स्नेह करके, धन के लोभ करके, मणियों और स्त्री आदिकों के लाभ करके चित्त दीनता को प्राप्त होता है ॥ १ ॥

बन्धो हि वासनावन्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः ।

वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥ २ ॥

चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की वासना ही पुरुष के बंधन का कारण है । ममग्र-रूप से वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है । हे राम ! जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की इच्छा न करोगे, तब सुखी हो जाओगे ॥ २ ॥

प्रश्न—आपने कहा है कि जब तक चित्त में वासनाएँ भरी हुई हैं, तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती है, सो संसार में निर्वासनिक पुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जितने गृहस्थाश्रमी हैं, उनके चित्त में स्त्री, पुत्र, धनादिकों की प्राप्ति की वासनाएँ भरी रहती हैं। यदि कोई पुरुष ईश्वर का स्मरण और दानादिकों को करता है, तो उसके चित्त में यही कामना रहती है कि मेरे धनादिक सर्वदा बने रहें, निर्वासनिक होकर कोई भी नहीं करता है। और जितने त्यागी, साधु और महात्मा कहलाते हैं, उनके चित्त में भी अनेक प्रकार की कामनाएँ भरी हुई हैं। कोई मठों को बनाता है, कोई सेवकों को बढ़ाता है, निर्वासनिक तो उनमें भी कोई नहीं दिखाई देता है। यदि निर्वासनिक होवें, तो वेपोंको, चेलोंको और मठों को क्यों बढ़ावें, और क्यों प्रपंच को फैलावें, अतएव सब कोई प्रपंच को फैलाते हैं—क्या गृहस्थ, क्या संन्यासी। इस हालत में कोई भी ज्ञानी नहीं सिद्ध होता है। ज्ञानी के अभाव होने से मुक्ति का भी अभाव ही सिद्ध होता है ?

उत्तर—जैसे एक वन में एक ही सिंह रहता है और स्यार मृगादिक लाखों रहते हैं वैसे ही संसार-रूपी गृहस्थाश्रम-रूपी, अथवा संन्यासाश्रम-रूपी वन में वासना से रहित ज्ञानवान् कोई एक बिरला ही होता है और वासना से भरे हुए अनेक होते हैं। जैसे सिंह के मारे हुए शिकार को स्यार आदिक खाते हैं वैसे निर्वासनिक पुरुषों के चिह्नों को धारण करके अर्थात् ज्ञान की बातें सुना करके और वैराग्यादिकों को दिखलाकर, बहुत से मुखों को वशक संन्यासी या गृहस्थ आचार्यादिक ठगते हैं, वे ही संसार के स्यार हैं। इसमें एक दृष्टान्त को कहते हैं—

एक ग्राम में जुलाहे बसते थे । उन्होंने आपस में एक दिन सलाह किया कि चलो, रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूट लावें । तदनुसार सब जुलाहे मिलकर रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूटने गये । जब क्षत्रिय लोग दृथियार लेकर जुलाहों के मारने को दौड़े, तब जुलाहे सब भागे । उनमें से एक जुलाहे ने कहा कि भाइयो ! भागे तो जाते ही हो, भला मारो-मारो तो कहते चलो । वे सब जुलाहे भागते जाते और मारो-मारो भी कहते जाते थे ।

दार्ष्टान्त मे यह है कि बहुत से बनावट के ज्ञानी ज्ञान के साधनों से भागे तो जाते हैं, पर औरों से ऐसा कहते जाते हैं कि वासना को त्यागो, ज्ञान को धारण करो, सब ससार मिथ्या है, ऐसे दम्भी ज्ञानी नहीं हो सकते हैं । जो समग्र वासनाओं से रहित हैं, वे ही ज्ञानी हैं । वासनावाला ही बन्ध को प्राप्त होता है ॥ १ ॥

मूलम् ।

तदा मुक्तिर्यदा चित्तं न वाञ्छति न शोचति ।

न मुञ्चति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

तदा, मुक्तिः, यदा, चित्तम्, न, वाञ्छति, न, शोचति, न, मुञ्चति, न, गृह्णाति, न, हृष्यति, न, कुप्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदा=जब

चित्तम्=मन

न वाञ्छति=न चाहता है

न शोचति=न सोचता है

न मुञ्चति=न त्यागता है

न गृह्णाति=न ग्रहण करता है

न हृष्यति=न प्रसन्न होता है

+ च=और

न=न

कुप्यति=दुःखित होता है

तदा=तब भी

मुक्तिः=मुक्ति है ॥

भावार्थ ।

जिस काल मे चित्त न भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है, और न शोकों के त्याग की इच्छा करता है' अर्थात् पदार्थ के पाने पर न उसको हर्ष होता है, और न प्यारे सम्बन्धियों के नष्ट या वियोग हो जाने पर शोक होता है, किन्तु एक-रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है॥२॥

मूलम् ।

तदा बन्धो यदा चित्तं सक्रं कास्वपि दृष्टिषु ।  
तदा मोक्षो यदा चित्तमसक्रं सर्वदृष्टिषु ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

तदा, बन्धः, यदा, चित्तम्, सक्रम्, कासु, अपि, दृष्टिषु, तदा, मोक्षः, यदा, चित्तम्, असक्रम्, सर्वदृष्टिषु ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदा=जब

यदा=जब

चित्तम्=मन

चित्तम्=मन

कासु=किसी

दृष्टिषु= { दृष्टि में अर्थात्  
विषय में

सर्वदृष्टिषु= { सब दृष्टियां में  
अर्थात् सब विषयों  
में से किसी भी  
विषय में

सक्रम्=लगा हुआ है

असक्रम्=नहीं लगा है

तदा=तब

तदा=तब

बन्धः=बन्ध है

अपि=और

मोक्षः=मुक्ति है ॥

भावार्थ ।

पहले एक वाक्य करके बन्ध के लक्षण को कहा और दूसरे करके मुक्ति के लक्षण को कहा । अब एक ही वाक्य करके और मोक्ष दोनों का कथन करते हैं—

जब चित्त अनात्मपदार्थों में अनात्माकारवृत्तिवाला होता तब भी इसको बन्ध होता है । जब चित्त विषयाकार नहीं हो अर्थात् आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टिवाला होता भी जीव मुक्त कहा जाता है ।

प्रश्न—आपने कहा है कि जिस काल में चित्त विषय आसक्त होता है, तब बन्ध होता है, और जब अनासक्त होता तब मुक्त होता है । यदि एक ही चित्त में काल-भेद करके बन्ध मोक्ष माना जावेगा, तब मुक्ति भी अनित्य हो जावेगी ?

उत्तर—उस वाक्य का यह तात्पर्य नहीं है, जो आपने है, किन्तु उसका यह तात्पर्य है कि आत्म-ज्ञान की प्राप्ति जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर, आसक्त रहता है, उतने काल तक जीव बन्ध में ही पड़ा । परचात् जब विचार करके युक्त हुआ, चित्त दोष-द्विषयों में आसक्ति से रहित हो जाता है, और फिर विचार का बीज भी चित्त में नहीं रहता है, तब फिर वह कदापि बन्ध को नहीं प्राप्त होता है । जैसे अणु फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं निर्वसन्निक चित्तवाला पुरुष कभी भी होता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बन्धनं तदा ।  
मत्वेति हेलया किञ्चिन्मा गृहाण विमुञ्च मा ॥४॥

पदच्छेदः ।

यदा, न, अहम्, तदा, मोक्षः, यदा, अहम्, बन्धनम्, तदा, मत्वा, इति, हेलया, किञ्चित्, मा, गृहाण, विमुञ्च, मा ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदा=जब

अहम्=मैं हूँ

तदा=तब

बन्धनम्=बन्ध है

यदा=जब

अहम् न=मैं नहीं हूँ

तदा=तब

मोक्षः=मोक्ष है

इति=इस प्रकार

मत्वा=मान करके

हेलया=इच्छा करके

मा=मत

गृहाण=ग्रहण कर

मा=मत

विमुञ्च=त्याग कर ॥

भावार्थः ।

जब तक पुरुष में अहंकार बैठा है—‘मैं ब्राह्मण हूँ’, ‘मैं ज्ञानी हूँ’, ‘मैं त्यागी हूँ’, तब तक वह मुक्त कदापि नहीं हो सकता है। ऐसा भी कहा है—

यावत्स्यात्स्वस्य सम्बन्धोऽहंकारेण दुरात्मना ।

तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा ॥ ? ॥

भावार्थ ।

पहले एक वाक्य करके बन्ध के लक्षण को कहा और दूसरे वाक्य करके मुक्ति के लक्षण को कहा । अब एक ही वाक्य करके बन्ध और मोक्ष दोनों का कथन करते हैं—

जब चित्त अनात्मपदार्थों में अनात्माकारवृत्तिवाला होता है, तब भी इसको बन्ध होता है । जब चित्त विषयाकार नहीं होता है अर्थात् आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टिवाला होता है, तभी जीव मुक्त कहा जाता है ।

प्रश्न—आपने कहा है कि जिस काल में चित्त विषयों में आसक्त होता है, तब बन्ध होता है और जब अनासक्त होता है, तब मुक्त होता है । यदि एक ही चित्त में काल-भेद करके बन्ध और मोक्ष माना जावेगा, तब मुक्ति भी अनिश्चय हो जावेगी ?

उत्तर—उस वाक्य का यह तात्पर्य नहीं है, जो आपने समझा है, किन्तु उसका यह तात्पर्य है कि आत्म-ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है, उतने काल तक जीव बन्ध में ही पड़ा रहता है । पश्चात् जब विचार करके युक्त हुआ, चित्त दोष-दृष्टि करके विषयों में आसक्ति से रहित हो जाता है, और फिर विषय-वासना का बीज भी चित्त में नहीं रहता है, तब फिर वह मुक्त होकर कदापि बन्ध को नहीं प्राप्त होता है । जैसे भूँजे हुए बीज में फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती है, वैसे ही निर्वासनिक चित्तवाला पुरुष कभी भी जन्म को नहीं प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बन्धनं तदा ।  
मत्वेति हेलया किञ्चिन्मा गृहाण विमुञ्च मा ॥४॥

पदच्छेदः ।

यदा, न, अहम्, तदा, मोक्षः, यदा, अहम्, बन्धनम्, तदा,  
मत्वा, इति, हेलया, किञ्चित्, मा, गृहाण, विमुञ्च, मा ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदा=जब

अहम्=मैं हूँ

तदा=तब

बन्धनम्=बन्ध है

यदा=जब

अहम् न=मैं नहीं हूँ

तदा=तब

मोक्षः=मोक्ष है

इति=इस प्रकार

मत्वा=मान करके

हेलया=इच्छा करके

मा=मत

गृहाण=ग्रहण कर

मा=मत

विमुञ्च=रहाग कर ॥

भावार्थः ।

जब तक पुरुष में अहंकार बैठा है—‘मैं ब्राह्मण हूँ’, ‘मैं ज्ञानी हूँ’,  
‘मैं त्यागी हूँ’, तब तक वह मुक्त कदापि नहीं हो सकता है । ऐसा  
भी कहा है—

यावत्स्यात्स्वस्य सम्यन्धोऽहंकारेण दुरात्मना ।

तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा ॥ ? ॥



अर्थात् जब तक इस जीव का सम्बन्ध दुरात्मा अहकारी के साथ बना रहता है, तब तक मुक्ति लेश-मात्र इसको प्राप्त नहीं होती है। इसी वार्ता को कहते हैं—

जब तक जीव का शरीरादिकों से अहकाराध्यास बना है, तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती है। जिस काल मे अहकाराध्यास इसका निवृत्त हो जाता है, उसी काल मे विना ही परिश्रम अकर्ता, अभोक्ता होकर मुक्त हो जाता है ॥ ४ ॥

इति श्रीअष्टांगकगीतायामष्टम प्रकरण समाप्तम् ।

## नवाँ प्रकरण ।

—:०:—

मूलम् ।

कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा ।  
एवं ज्ञात्वाह निर्वेदाद्भव त्यागपरोऽव्रती ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

कृताकृते, च, द्वन्द्वानि, कदा, शान्तानि, कस्य, वा, एवम्,  
ज्ञात्वा, इह, निर्वेदात्, भव, त्यागपरः, अव्रती ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

कृताकृते= { कृत और अकृत  
कर्म

च=और

द्वन्द्वानि=दुःख और सुख

कस्य=किसके

कदा=कब

शान्तानि=शान्त हुए हैं

एवम्=इस प्रकार

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

वा=संशयरहित

ज्ञात्वा=जान करके

इह=इस ससार में

निर्वेदात्=विचार से

अव्रती= { मृत रहित होता  
हुआ

त्यागपरः=त्यागपरायण

भव=हो ॥

भावार्थः ।

अब निर्वेदाटक नामक नवम प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं—

पहले शिष्य ने जो गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा था, उसकी दृढ़ता के लिये अब आठ श्लोकों के वैराग्य के स्वरूप को दिखलाते हैं ।

प्रश्न—त्याग कैसे करना चाहिए ?

उत्तर—यह मेरे को कर्तव्य है, और यह मेरे को कर्तव्य नहीं है, इसी का नाम वृत और अकृत है अर्थात् इस तरह का जो आप्रह है अर्थात् अवरय ही मेरे को यह करना उचित है, और अवरय ही मेरे को यह करना उचित नहीं है, इन दोनों में अभिनिवेश अर्थात् हठ न करना और द्वन्द्व जो सुख-दुःख है, मैं इन दोनों से रहित हो जाऊँ इसमें आप्रहान करना, क्योंकि वे दोनों किमी भी देहधारी के कर्मी शान्त नहीं हुए हैं और न होंगे, इसवास्ते अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! इन वृत्ताऽऽकृत आदिकों के त्याग से भी तू वैराग्य को प्राप्त हो । क्योंकि हे शिष्य ! तू अत्रती है, तेरा आप्रह याने हठ किसी में भी नहीं है ॥ १ ॥

पूलम् ।

कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् ।

जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गता ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

कस्य, अपि, तात, धन्यस्य, लोकचेष्टावलोकनात्, जीवितेच्छा, बुभुक्षा, च, बुभुत्सा, उपशमम्, गता ॥

अन्वय. ।	शब्दार्थ ।	अन्वय. ।	शब्दार्थ ।
तात=हे प्रिय ।		जीवितेच्छा=जीने की इच्छा	
लोकचेष्टाव- लोकनात् =	{ उत्पत्ति और विनाशरूप लोकों की चेष्टा के देखने से	च=और	
कस्य=किसी -		बुभुक्षा=भोगने की इच्छा	
धन्यस्य=महात्मा की		+ च=और	
अपि=भी ।		बुभुत्सा=ज्ञान की इच्छा	
		उपशमम्=शान्ति को	
		गता=प्राप्त हुई है ॥	

भाषार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे शिष्य ! हजारों मनुष्यों में से किसी एक भाग्यशाली पुरुष के चित्त में, वैराग्य उत्पन्न होता है । उसके जीने की और भोगने की इच्छा भी निवृत्त हो जाती है । क्योंकि संसार के पदार्थों में म्लानि और दोष-दृष्टि का नाम ही वैराग्य है । जितने संसार के उत्पत्ति और नाशवाले पदार्थ हैं, सबमें दोष लगे हैं । संसार में स्त्री, पुत्र, धन और शरीर तथा इन्द्रिय आदिक सबको प्यारे हैं, और इन्हीं के सुख के लिये पुरुष अनेक अनर्थों को करता है, और ये ही सब जीवों के बन्धु के कारण हैं, इसवास्ते बिना इनमें वैराग्य प्राप्त हुए पुरुष कदापि मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है, इसी हेतु मे प्रथम इन्हीं में दोष-दृष्टि को दिखाते हैं । 'योगवाशिष्ठ' में कहा है—

गर्भे दुर्गन्धिभूयिष्ठे जठराग्निप्रदीपिते ।

दुःखं मयाप्तं यत्तस्मात्कनीयः कुम्भिपाकजम् ॥ १ ॥

अर्थात् बड़ी भारी दुर्गन्धि करके युक्त जो माता का उदर है, और जो जठराग्नि करके प्रदीप्त है, उम गर्भ में आकर जो जीव को दुःख होता है, उसमे कुम्भीपाक नरक का भी दुःख कम है ॥१॥

एवं 'गर्भोपनिषद्' में भी गर्भ के दुःखों का वर्णन किया है कि जिस काल में गर्भ में जीव अति दुःखी होता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो ! इस बार मैं जन्म लेकर अवश्य ही ज्ञान के साधनों को करूँगा, पर जन्म लेकर फिर यह जीव संसार के भोगों में फँस जाता है और गर्भवाले दुःखों को भूल जाता है इसी कारण फिर बार-बार जन्मता और मरता है। 'शिव-गीता' में मरण के दुःखों को भी दिखाया है—

हा कान्ते हा धनं पुत्राः क्रन्दमानः सुदारुणम् ।

मएदूक इव सर्पेण मृत्युना गीर्यते नरः ॥ १ ॥

अर्थात् जब जीव प्राणों को त्यागने लगता है, तब पुकारता है हे मायें ! हे धन ! हे पुत्रो ! मुझको इस मृत्यु से छुड़ाओ, ऐसे भयानक शब्दों को करता है जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेढक पुकारता है ॥ १ ॥

अयः पाशेन कालस्य स्नेहपाशेन बन्धुभिः ।

आत्मानं कृप्यमाणस्य न खल्वस्ति परायणम् ॥ २ ॥

अर्थात् मरण-काल में यह जीव इधर तो काल के पाशों करके बँधा होता है उधर सम्बन्धियों के स्नेहकी रिसियों करके खँचा हुआ होता है, पर कोई भी मृत्यु से इसकी रक्षा नहीं कर सकता है ॥ २ ॥

या माता सा पुनर्भार्या या भार्या जननी हि सा ।

यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुत्रः स पुनः पिता ॥ १ ॥

अर्थात् पूर्व जन्म में जो माता होती है, वही पुत्र में स्नेह के कारण उत्तर जन्म में उसकी स्त्री बनती है । जो पूर्व जन्म में पिता होता है, वही उत्तर जन्म में पुत्र होता है । जो पूर्व जन्म में पुत्र होता है, वही उत्तर जन्म में पिता होता है ॥ १ ॥

एको यदा व्रजति कर्मपुरःसरोऽयं

विश्रामवृत्तसदृशः खलु जीवलोकः ।

सायंसायं वासवृत्तं समेतः

प्रातःप्रातस्तेन तेन प्रयान्ति ॥ २ ॥

जैसे सायंकाल में इधर उधर से पत्नी उड़कर एक ही वृत्त पर रात्रि का विश्राम के लिये इकट्ठे हो जाते हैं और प्रातःकाल में सब इधर उधर उड़ जाते हैं, वैसे ही इस ससार-रूपी वृत्त में सब जीव कर्मों के षरय होकर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर प्रारब्ध-कर्म के भोग के पूरे होने पर, सब अकेले अकेले होकर चले जाते हैं । कोई भी स्त्री, पुत्र, धनादि इसके साथ नहीं जाते हैं, और न साथ आते हैं, इस तरह विचार करके इनमें मोह को कदापि न करे ।

एवं 'देवी-भागवत' में शुक्रदेवजी ने जो स्त्री के सम्बन्ध से दोष दिग्वाये हैं—

नरस्य बन्धनार्थाय मृङ्गला स्त्री प्रकीर्त्तिता ।

लोहबद्धोऽपि मुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्यते ॥ १ ॥

पुरुष के बन्धन का हेतु स्त्री को ही बेड़ीरूप करके कहा है । एवं लोहे की बेड़ी कर्मके बाँधा हुआ पुरुष छूट जाता है, परन्तु स्त्री के स्नेह-रूपी पाश करके बाँधा हुआ पुरुष कदापि छूट नहीं सकता है । इसी पर एक दृष्टान्त देते हैं—

मुक्त हो जावेंगे और शुकदेव, वामदेवादिकों की मुक्ति शास्त्रों में लिखी है, सो न होनी चाहिए, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिये पुत्र से गति कहनेवाले वाक्य अर्थवाद-रूप हैं । लोगों ने पुत्र के सम्बन्ध से बड़े दुःख उठाये हैं । राजा दशरथ ने रामजी के वियोग में प्राणों को त्याग दिया था । प्रथम तो पुत्र के उत्पन्न होने की चिन्ता, फिर उसके जीने की चिन्ता, फिर उसके विवाह और सन्तति की चिन्ता जन्म भर बनी रहती है । बड़े होने पर पिता की वृद्धावस्था में पुत्र धनादिकों को ले लेते हैं, और सेवा आदि कुछ भी नहीं करते हैं, अतएव पुत्र भी विवेकी पुरुष के लिये दुःख के हेतु हैं । इसी तरह और भी जितने विषय हैं, सो सब दुःख के ही कारण हैं । 'विवेक-चूडामणि' में कहा है—

विषयाशामढापाशात् यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् ।

स एकः कल्पने मुक्तश्चै नान्ये षट्शास्त्रवेदिनः ॥ १ ॥

अर्थात् स्त्री, पुत्र, धनादिक विषय महान् पाश हैं, जिनका त्यागना अति कठिन है । जो पुरुष उन पाशों से रहित है, वही मुक्ति का अधिकारी है । दूसरा षट्शास्त्रों का जाननेवाला पुरुष भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है ॥ १ ॥

इसी पर गायत्रिकजी कहते हैं कि संपूर्ण विषयवासनाओं से रहित संसार में, नाशों में कोई एक ही वैराग्यवान् जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ २ ॥

मूलम् ।

अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रितयदूषितम् ।

असारं निन्दितं हेयमिति निश्चित्य शाम्यति ॥ ३ ॥

जैमिनि आत्मा को जड़, चेतन उभय-रूप मानने हैं, और स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं ।

एक ही पदार्थ जड़, चेतन उभय-रूप नहीं हो सकता है । क्योंकि इसमें कोई भी दृष्टान्त नहीं मिलता है । फिर चेतन निरवयव है, और जड़ सावयव और अनित्य है । शीत, उष्ण जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे ही उभय-रूप जड़, चेतन भी विरोधी हैं । और वेद में भी कहीं आत्मा को उभय-रूपता नहीं लिखी है, और न स्वर्ग की प्राप्ति का नाम भी मोक्ष है ।

सद्यधेह कर्मनिहतो लोकाःक्षीयत एवामुत्र पुण्यचित्तो लोकःक्षीयते ।

श्रुति कादती है कि जैसे इस लोक में कर्मों करके प्राप्त की हुई होती काल पा करके नष्ट हो जाती है, वैसे ही पुण्यकर्मों करके प्राप्त हुआ स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है । इन श्रुतिवाक्यों से स्वर्ग की अनित्यता सिद्ध होती है । और जब स्वर्ग ही अनित्य है, तो मुक्ति भी अनित्य धारण होगी । इसवास्ते जैमिनि का मन आत्मज्ञान निश्चयसे को त्यागना चाहिए ॥ ५ ॥



यास्ते यद् मय प्रपंच असाह है, तुच्छ है, त्यागने-योग्य है, ऐसा जानकर ज्ञानवान् किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता है । ३ ॥

मूलम् ।

काऽसौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् ।  
तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

कः, अर्थात्, कालः, वयः, किम्, वा, यत्र, द्वन्द्वानि, नो, नृणाम्, तानि, उपेक्ष्य, यथा, प्राप्तवर्ती, सिद्धिम्, अवाप्नुयात् ॥

अन्वयः ।

अन्वयार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यत्र=जिगमै

नृणाम्=मनुष्यों को

द्वन्द्वानि नो= { सुख और दुःख  
में होते

असौ=यह

क=किस

है

है

अपि तु न } =अर्थात् कोई नहीं  
कोऽपि }

तानि=उन सबको

उपेक्ष्य=जिगरण करके

यथा प्राप्तवर्ती= { यथाप्राप्त  
वस्तुओं में वर्तमान  
मेवासा पुरुष

सिद्धिम्= { सिद्धि अर्थात्  
मोक्ष को

अवाप्नुयात्=प्राप्त होता है ॥

माथार्थः ।

दुःखादिक इन्द्र किर्मा प्राप्त प्राप्त या अवरथा में  
तु मय अवरथाओं में और सर्व जानों में सुख-  
की को आहार देने रहते हैं । इसी मार्ग को  
में कहा है—

पदच्छेद ।

अनित्यम्, सर्वम्, एव, इदम्, तापत्रिनयदूषितम्, असारम्, निन्दितम्, हेयम्, इति, निश्चित्य, शाम्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

इदम् सर्वम्=यह सब ही

अनित्यम्=अनित्य है

तापत्रितय- = { तीनों तापों से  
दूषितम् = { दूषित

असारम्=सार-रहित है

निन्दितम्=निन्दित

हेयम्=त्यागने योग्य है

इति=ऐसा

निश्चित्य=निश्चय करके

शाम्यति= { शान्ति को प्राप्त  
होता है ॥

भावार्थः ।

प्रश्न—ज्ञानी की सर्वत्र इच्छा के उपशम में क्या कारण है ?

उत्तर—जितना कि दृष्टि का विषय-प्रपञ्च है, वह सब अनित्य है अर्थात् चेतन में अच्यस्त है ।

प्रश्न—यह प्रपञ्च कैसा है ?

उत्तर—आध्यात्मिक आदि तापों करके दूषित है । वात, पित्त, रलेष्मादि निमित्त से जो दुःख होता है, उसका नाम आध्यात्मिक दुःख है याने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि करके जो मानस दुःख है, उमी का नाम आध्यात्मिक दुःख है । शरीर जो मनुष्य, पशु, सर्प, वृक्षादि निमित्तक दुःख है, उमका नाम आधिभौतिक दुःख है । यत्न, रात्रस, विनायकादि निमित्तक जो दुःख है, उमका नाम आधिदैविक दुःख है ।

इन तीन प्रकार के दुःखों करके पुरुष सदैव संतप्त रहता है । इसी

वास्ते यह सब प्रपंच असार है, तुच्छ है, त्यागने-योग्य है, ऐसा जानकर ज्ञानवान् किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता है । ३ ॥

मूलम् ।

काऽसौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् ।  
तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

कः, असौ, कालः, वयः, किम्, वा, यत्र, द्वन्द्वानि, नो, नृणाम्,  
तानि, उपेक्ष्य, यथा, प्राप्तवर्ती, सिद्धिम्, अवाप्नुयात् ॥

अन्वयः । शब्दार्थः । अन्वयः । शब्दार्थः ।

यत्र=जिममें  
नृणाम्=मनुष्यों को  
द्वन्द्वानि नो.= { सुख और दुःख  
न होवे  
असौ=वह  
क.=कौन  
कालः=काल है  
वा=और  
किम्=कौन  
वयः=अवस्था है

अपि तु न } =अर्थात् कोई नहीं  
कोऽपि }  
तानि=उन सबको  
उपेक्ष्य=विस्मरण करके  
यथा प्राप्तवर्ती= { यथाप्राप्त  
वस्तुओं में घतं-  
नेवाला पुरुष  
सिद्धिम्= { सिद्धि अर्थात्  
मोक्ष को  
अवाप्नुयात्=प्राप्त होता है ॥

भावार्थः ।

पुरुषों को सुख दुःखादिक द्वन्द्व किसी खास काल या अवस्था में नहीं व्यापता है, किन्तु सब अवस्थाओं में और सर्व कालों में सुख-दुःखादिक द्वन्द्व देहधारी को बराबर बने रहते हैं । इसी वार्ता को रामजी ने अध्यात्म-रामायण में कहा है—

पदच्छेद ।

अनित्यम् , सर्वम् , एव, इदम् , तापत्रितयदूषितम् , असारम् , निन्दितम् , हेयम् , इति, निश्चित्य, शाम्यति ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
इदम् सर्वम्=यह सब ही		हेयम्=स्यागने योग्य है	
अनित्यम्=अनित्य है		इति=ऐसा	
तापत्रितय- = { तीनों तापों से		निश्चित्य=निश्चय करके	
दूषितम् = { दूषित		शाम्यति= { शान्ति को प्राप्त	
असारम्=सार-रहित है		होता है ॥	
निन्दितम्=निन्दित			

भावार्थः ।

प्रश्न—ज्ञानी की सर्वत्र इच्छा के उपशम में क्या कारण है ?

उत्तर—जितना कि दृष्टि का विषय-प्रपञ्च है, वह सब अनित्य है अर्थात् चेतन में अव्यस्त है ।

प्रश्न—यह प्रपञ्च कैसा है ?

उत्तर—आध्यात्मिक आदि तापों करके दूषित है । वात, पित्त, रलेष्मादि निमित्त से जो दुःख होता है, उसका नाम आध्यात्मिक दुःख है याने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि करके जो मानस दुःख है, उसी का नाम आध्यात्मिक दुःख है । और जो मनुष्य, पशु, सर्प, वृक्षादि निमित्तक दुःख है, उसका नाम आधिभौतिक दुःख है । यत्न, राक्षस, विनायकादि निमित्तक जो दुःख है, उमका नाम आधिदैविक दुःख है ।

इन तीन प्रकार के दुःखों करके पुरुष सदैव संतप्त रहता है । इसी

वास्ते यह सब प्रपंच असार है, तुच्छ है, त्यागने-योग्य है, ऐसा जानकर ज्ञानवान् किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता है । ३ ॥

मूलम् ।

काऽसौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् ।  
तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

कः, असौ, कालः, वयः, किम्, वा, यत्र, द्वन्द्वानि, नो, नृणाम्,  
तानि, उपेक्ष्य, यथा, प्राप्तवर्ती, सिद्धिम्, अवाप्नुयात् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यत्र=जिममें  
नृणाम्=मनुष्यों को  
द्वन्द्वानि नो= { सुख और दुःख  
न होवे  
असौ=वह  
कः=कौन  
कालः=काल है  
वा=और  
किम्=कौन  
वयः=अवस्था है

अपि तु न } =अर्थात् कोई नहीं  
कोऽपि }

तानि=उन सबको

उपेक्ष्य=विस्मरण करके

यथा प्राप्तवर्ती= { यथाप्राप्त  
वस्तुओं में घतं-  
नेवाला पुरुष

सिद्धिम्= { सिद्धि अर्थात्  
मोक्ष को

अवाप्नुयात्=प्राप्त होता है ॥

भावार्थः ।

पुरुषों को सुख दुःखादिक द्वन्द्व किसी खास काल या अवस्था में नहीं व्यापता है, किन्तु सब अवस्थाओं में और सर्व कालों में सुख-दुःखादिक द्वन्द्व देहधारी को बराबर बने रहते हैं । इसी वार्ता को रामजी ने अर्ध्यात्म-रामायण में कहा है—

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् ।

द्वयमेतद्धि जन्तूनामलंघ्यं दिनरात्रिवत् ॥ १ ॥

सुख के अनन्तर दुःख होता है, और दुःख के अनन्तर सुख होता है; ये दोनों निश्चय करके जीव को अलंघ्य हैं, याने हटाये नहीं जा सकते हैं ॥ १ ॥

सुरजमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितं सुखम् ।

द्वयमन्योन्यसंयुक्तं प्रोच्यते जलपंकवत् ॥ २ ॥

सुख में दुःख, और दुःख में सुख स्थित है, अर्थात् क्षण-मात्र सुख के देनेवाले विषयों से अनेक रोगादिक दुःख उत्पन्न होते हैं, और उपनासादिक व्रतों से जिसमें दुःख होता है, फिर विषयों की प्राप्ति-रूपी सुख होता है । ये दोनों सुख-दुःख ऐसे मिले हैं, जैसे पानी और कीच मिले होते हैं ॥ २ ॥

किसी भी देहधारी से ये सुख दुःख किसी काल में त्यागे नहीं जा सकते हैं, इस वास्ते विनेकी पुरुष उन सुख-दुःखादिक द्वन्द्वों में भी इच्छा को त्यागकर शरीर को प्रारब्ध-आश्रित छोड़ देता है ॥४॥

मूलम् ।

नाना मतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा ।

दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः ॥५॥

पदच्छेद ।

नाना, मतम्, महर्षीणाम्, साधूनाम्, योगिनाम्, तथा, दृष्ट्वा, निर्वेदम्, आपन्न, क, न, शाम्यति, मानवः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
नाना मतम् =	{ नाना प्रकार के मत हैं	दृष्ट्वा=देख करके	
महर्षीणाम्=महर्षियों के		निर्वेदम्=वैराग्य को	
तथा=और		आपन्नः=प्राप्त हुआ	
योगिनाम्=योगियों के		कः मानवः=कौन पुरुष	
इति=ऐसा		न शाम्यति=	{ नहीं शान्ति को प्राप्त होता है ॥

भावार्थः ।

हे शिष्य ! 'तर्क-शास्त्र' को, और कर्मकाण्ड में निष्ठा को, त्याग करके केवल आत्म-ज्ञान में ही निष्ठा करनी चाहिए । क्योंकि तर्क-शास्त्रादिक मत्र बुद्धि के भ्रम करानेवाले हैं ।

गौतम आदिकों के जो मत हैं, वे वेद और युक्ति-प्रमाण से विरुद्ध हैं, केवल भ्रम-जाल में डालनेवाले हैं । गौतम आदिकों के मत पर चलनेवाले नैयायिक इन्द्र-प्रात्मा और जीव-आत्मा, दोनों को जड़ मानते हैं । और ज्ञान, इच्छा आदिकों को आत्मा का गुण मानते हैं । फिर ईश्वरात्मा के गुणों को नित्य मानते हैं । जीवात्मा के गुणों को अनित्य मानते हैं । और सारे जीवात्मा को व्यापक मानते हैं । आत्मा के संयोग के ज्ञान के प्रति कारण मानते हैं । परमाणुओं में जगत् की उत्पत्ति मानते हैं । फिर परमाणुओं को निरवयव मानते हैं ।

प्रथम तो जीवात्मा और ईश्वरात्मा जड़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि—

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।

आत्मा सत्य-रूप, ज्ञान-स्वरूप और आनन्द-रूप है । इस श्रुति

के साथ विरोध आता है। दूसरा, दोनों ईश्वर आत्मा के जड़ मानने से जगदांध प्रसंग होगा।

यदि यह मान लिया जाय कि कर्म जड़ है, आत्मा जड़ है, ईश्वरात्मा भी जड़ है, तो फिर भोक्ता, कर्ता और फल-प्रदाता कोई भी नहीं होगा। क्योंकि जड़ में भोक्तापना, कर्तापना आदिक शक्ति बनती नहीं, और जड़ के गुण ज्ञान और चेतनता बन नहीं सकते हैं, क्योंकि गुण-गुणी का भेद नहीं होता। जैसे अग्नि और उष्णता; जल और शीतलता का भेद नहीं है। यदि अग्नि से उष्णता और प्रकाश निकाल लिया जाय, तो अग्नि कोई वस्तु बाकी नहीं रहती है, और दोनों जड़ भी हैं। जैसे अग्नि के स्वरूप उष्ण और प्रकाश हैं वैसे ज्ञान और चेतनता भी दोनों आत्मा के स्वरूप ही हैं, आत्मा के धर्म नहीं हैं। क्योंकि गुण-गुणी भाव आत्मा में कहीं भी नहीं लिखा है। और चेतनता जड़ का धर्म है, इसमें कोई भी दृष्टान्त नहीं मिलता है, इसलिये नैयायिक का कथन असंगत है।

यदि ईश्वर के इच्छादिक गुणों को नित्य माना जाय, तो ईश्वर की इच्छानुसार जगत् की उत्पत्ति अथवा प्रलय सर्वदा हुआ करेगी याने दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे।

यदि यह माना जाय कि दोनों कभी प्रलय, कभी सृष्टि, तब ईश्वर की इच्छा अनित्य हो जावेगी।

सारे जीवात्मा व्यापक भी नहीं हो सकते हैं, यदि ऐसा मानें, तो एक के शरीर में जगत् भर के जीवात्मा बैठे हैं, और सब जीवात्माओं के साथ उसके मन के संयोग बने रहने से उसको सर्वज्ञता होनी चाहिए, इस कारण सबको सर्वज्ञता होनी चाहिए, सो तो होती नहीं है, इसीसे सिद्ध होता है कि जीवात्माओं को व्यापक मानना



युक्ति-प्रमाण से विरुद्ध है, और परमाणुओं से जड़ जगत् की उत्पत्ति भी नहीं बनती है, क्योंकि निरवयव परमाणुओं का परस्पर संयोग बनता नहीं, सावयव पदार्थों का ही परस्पर संयोग बनता है, युक्ति-प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण नैयायिक का मत विवेकी को त्यागने-योग्य है । इसी तरह कर्म-निष्ठावाले कर्मियों के मत में भी विवेकी को श्रद्धा न करनी चाहिए, क्योंकि उनके मत में भी नाना प्रकार के भगडे लगे हैं । कोई कर्मी होम को ही मुख्य मानते हैं, कोई मन्त्रों के जपादिकों को ही प्रधान मानते हैं, कोई कृच्छ्र चान्द्रायणादिक व्रतों के करने को ही धर्म मानते हैं, कोई यज्ञों में पशुओं की हिंसा को ही धर्म मानते हैं, कोई मूर्ति-पूजा को, कोई तीर्थाटन को धर्म मानते हैं । कर्मजाल इतना बड़ा भारी है कि यदि एक आदमी प्रत्येक दिन एक-एक कर्म को करे, तब भी उसके सब उमर भर में सारे कर्म समाप्त नहीं होंगे और घटीयन्त्र की तरह अधोर्ध्व अर्थात् नरक, स्वर्ग का हेतु कर्म-रूपी जाल है । इसी पर कहा है—

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते ।

तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यत्तपः पारदर्शिनः ॥ १ ॥

अर्थात् कर्मों करके जीव बन्ध को प्राप्त होता है, और आत्म-विद्या करके वह मोक्ष को प्राप्त होता है, इसलिये विवेकी आत्म-ज्ञानी कर्मों को नहीं करते हैं, किन्तु आत्म-निष्ठा में ही मग्न रहते हैं ॥ १ ॥

जैमिनि आचार्य का मत भी श्रुति-युक्ति से विरुद्ध है, क्योंकि

जैमिनि आत्मा को जड़, चेतन उभय-रूप मानते ह, और स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हैं ।

एक ही पदार्थ जड़, चेतन उभय रूप नहीं हो सकता है । क्योंकि इसमें कोई भी दृष्टान्त नहीं मिलता है । फिर चेतन निरवयव है, और जड़ सावयव और अनित्य है । शून्य, उष्ण जैसे परस्पर विरोधी हैं, वैसे ही उभय-रूप जड़, चेतन भी विरोधी हैं । और वेद में भी कहीं आत्मा को उभय-रूपता नहीं लिखी है, और न स्वर्ग की प्राप्ति का नाम भी मोक्ष है ।

तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवागुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते ।

श्रुति कहती है कि जैसे इस लोक में कर्मों करके प्राप्त की हुई खेती फाल या करके नष्ट हो जाती है, वैसे ही पुण्यकर्मों करके प्राप्त हुआ स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है । इन श्रुतिवाक्यों से स्वर्ग की अनित्यता सिद्ध होती है । और जब स्वर्ग ही अनित्य है, तो मुक्ति भी अनित्य अरथ होगी । इसनास्ते जैमिनि का मन आत्म ज्ञान निष्ठावाले को त्यागना चाहिए ॥ ५ ॥

मूलम् ।

कृत्वा मूर्त्तिपरिज्ञानं चैतन्यस्य न किं गुरुः ।

निर्वेदसमतायुक्त्या यस्तारयति संसृतेः ॥ ६ ॥

पदच्छेद ।

कृत्वा. मूर्त्तिपरिज्ञानम्, चैतन्यस्य, न, किम्, गुरु, निर्वेदसमता-युक्त्या, य, तारयति, संसृते ॥

अन्वय । शब्दार्थ ।  
 निर्वेदसमता- { वैराग्य, समता  
 युक्त्या { और युक्ति द्वारा,  
 चैतन्यस्य=चैतन्य के  
 मूर्त्तिपरिज्ञानम्=मूर्त्ति के ज्ञान को  
 कृत्वा=जानकर  
 य =जो

अन्वय । शब्दार्थ ।  
 ससृते=संसार से  
 + स्वम्=अपने को  
 तारयति=तारता है  
 किम्=क्या  
 स =वह  
 गुरु न=गुरु नहीं है ॥

भार्य ।

अष्टाधकजी कहते हैं कि हे जनक ! जिसने विषयवासना को त्याग करके शत्रु और मित्र में मगबुद्धि करके, और श्रुति के अनुकूल युक्ति से सच्चिदानन्द रूप अपने आत्मा का साक्षात्कार किया है, और जिम्ने अपने को ही मर्मरूप से अनुभव किया है, उसने समार से अपने को तारा है, दूसरा नहीं । हे जनक ! तुम अपने ही पुरुषार्थ में मुक्त होगे, दूसरे करके नहीं होगे ।

प्रश्न—संसार में लोग कहते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त कर देता है । आप उसके विरुद्ध ऐसा कहते हैं कि शिष्य अपने पुरुषार्थ से ही मुक्त होता है, यह क्या बात है ?

उत्तर—हे प्रियदर्शन ! संसार के लोग प्रायः करके अज्ञानी मूर्ख होते हैं, वे शास्त्र के तात्पर्य को और गुरु-शिष्य शब्दों के अर्थ को नहीं जानते हैं । क्योंकि वे कामना करके हत होते हैं । जैसे कि मुसलमानों ने मान रक्खा है कि पैगम्बर हमको पापों से छुड़ा देगा । एवं जैसे ईसाइयों ने मान रक्खा है कि ईसा हमको पापों से छुड़ा देगा तब ही और भी ससारी लोगों ने मान रक्खा है कि गुरु हमको पापों से छुड़ा देगा, ऐसा उनका मानना दुःख

का जनक है। क्योंकि वेद और शास्त्र में कान में मंत्र फूकनेवाले को गुरु नहीं लिखा है, किन्तु जो अज्ञान और अज्ञान के कार्य जन्म-मरण-रूपी संसार से आत्म-ज्ञान उपदेश करके छुड़ा देवे, और चित्त के संशयों को दूर कर देवे, उसका नाम गुरु है, मन्त्र फूकने-वाले का नाम गुरु नहीं है। रामचन्द्रजी ने वशिष्ठजी के प्रति हजारों शंकाएँ की थीं और जब सबका उत्तर वशिष्ठजी ने देकर रामजी को संशयों से रहित करके आत्मा का बोध करा दिया, तब रामजी ने वशिष्ठजी को गुरु माना। अर्जुन ने श्रीकृष्णजी के प्रति हजारों शंकाएँ की थीं। जब अर्जुन को भगवान् ने विराटरूप दिखाया, तब उनको अर्जुन ने गुरु माना। इसी तरह और भी पूर्व जितने श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उन्होंने चित्त के सन्देह दूर करनेवाले को ही गुरु करके माना है। सो भी व्यवहार-दृष्टि से ही माना है, आत्म-दृष्टि से नहीं माना है। क्योंकि आत्म दृष्टि में आत्मा का भेद नहीं है।

अष्टावक्रजी ने आत्म-दृष्टि को ले-करके कहा है कि संसारी मूर्ख कान में मंत्र फूकनेवाले गुरु के ही अज्ञानार्थ शिष्य पूरे पशु बन जाते हैं, क्योंकि उनको बोध नहीं है कि पारमार्थिक गुरु आत्म-ज्ञानी का ही नाम है। ऐसे गुरु तो संसार में बहुत दुर्लभ हैं! दूसरा गुरु गायत्री का मन्त्र देनेवाला है। तीसरा गुरु व्यावहारिक विद्या का पढ़ाने-वाला है। चौथा सत्सङ्ग गुरु है।

विद्या-दाता हजारों अक्षरों को पढ़ाता है, पशु से मनुष्य बनाता है, फिर भी लोग उसके उपकार को नहीं मानते हैं। जो दो-चार अक्षरों के मन्त्र को कान में फूक देता है, उसी के पूरे पशु बन जाते हैं। उसके उपदेश से कोई संशय दूर नहीं होता है, बल्कि उल्टी

भेद-बुद्धि उत्पन्न होती है । कोई विष्णु का मन्त्र देकर महादेव से विरोध करा देता है, कोई विष्णु से विरोध कराता है, कोई देवी का पशु बना देता है । कनफुकवे गुरु तो आप ही भेदवाद-रूपी कीच में फँस हैं और शिष्यों को भी फँसाते हैं । अपनी जीविका के लिये शिष्यों के घरों में भिखारियों की तरह मारे-मारे फिरते हैं । जैसे वे मूर्ख हैं, वैसे उनके शिष्य भी मूर्ख हैं । क्योंकि जो सत्महात्मा संशयों का नाश करते हैं, उनकी वह सेवा-पूजा नहीं करते हैं । जो मूर्ख कनफुकवे गुरु संशयों में डालते हैं, उन्हीं की पूरी सेवा करते हैं । जब गुरु ही मोक्षमार्ग को नहीं जानते हैं, तब शिष्य कैसे जानें । शिष्यों के चित्तों में तो अनेक प्रकार के विषयों की कामनाएँ भरी हैं । उन कामनाओं की पूर्ति के लिये वे मन्त्र लेकर जपते हैं, और जपते जपते मर जाते हैं, परन्तु कामना किसी की भी पूरी नहीं होती है । इसी पर कबीरजी ने भी कहा है—

दोहा ।

गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेलें दौब ।

दोनों डूबे बापड़े, बैठ पथर की नात्र ॥ १ ॥

गुरुजन जाका है गृही, चेला-गृही जो होय ।

कीच कीच को धोवते, दाग न छूटै कोय ॥ २ ॥

बंधे को बंधा मिलै, छूटै कौन उपाय ।

सेवा कर निबंध की, पल में देय छुडाय ॥ ३ ॥

एवं 'गुरु-गीता' में भी अज्ञानी मूर्ख गुरु का त्याग करना ही लिखा है—

ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः ।

स्वविश्रान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किम् ॥ १ ॥

जो गुरु ज्ञान से हीन हो, मिथ्यावादी हो, विडम्बी हो, उसका त्याग कर देना चाहिए । क्योंकि जब वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है, तो शिष्यों का कल्याण क्या करेगा । ऐसे मूर्ख अज्ञानी गुरु के त्याग में बहुत से शास्त्रोक्त प्रमाण हैं, पर मूर्ख अज्ञानी लोग कुकर्मी मूर्ख गुरुओं को नहीं त्यागते हैं, क्योंकि प्रथम तो लोग आत्मा के ही कल्याण को नहीं जानते हैं । दूसरे उनके चित्त में भय रहता है कि गुरु के निरादर करने से हमारे को कोई विघ्न न हो जाये, इसी से मूर्खों के मूर्ख जन्म भर उनके पशु-बने रहते हैं । इन मूर्ख शिष्य-गुरुओं का इस जगह में निरूपण करने का कोई प्रकरण नहीं है, इस वास्ते उनका प्रसंग छोड़ दिया जाता है । हे राजन् ! ज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर गुरु-शिष्य-व्यवहार भी मिथ्या हो जाता है, क्योंकि उसकी भेद-बुद्धि नहीं रहती है ॥ ६ ॥

... मूलम् ।

पश्य भूतविकारांस्त्वं भूतमात्रान् यथार्थतः ।

तत्क्षणाद्बन्धनिमुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि ॥७॥

पदच्छेदः ।

पश्य, भूतविकारान्, त्वम्, भूतमात्रान्, यथार्थतः, तत्क्षणात्, बन्धनिमुक्तः, स्वरूपस्थः, भविष्यसि ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
यदा=जब		तत्क्षणात्=उसी समय	
भूतविकारान्=	भूतों के कार्य देह, इन्द्रिय आदि को	त्वम्=तू	
यथार्थतः=वास्तव में		वन्धनिमुक्तः=बन्ध से छूटा हुआ	
भूतमात्रान्=भूत-मात्र		स्वरूपस्थः=	अपने स्वरूप में स्थित
पश्य=देखेगा		भविष्यसि=होगा ॥	

भावार्थ ।

हे जनक ! भूतों के विकार जो देह इन्द्रियादिक हैं, उनको यथार्थ रूप से तुम भूत-मात्र देखो, आत्म-रूप करके उनको तुम मत देखो । जब तुम ऐसे देखोगे, तब उसी-क्षण में शरीरादिकों से पृथक् होकर आत्म-स्वरूप में स्थित हो जाओगे और उनका साक्षीभूत आत्मा भी तुमको करामतकवत् प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगेगा ॥ ७ ॥

मूलम् ।

वासना एव संसार इति सर्वा विमुञ्च ताः ।  
तत्यागो वासनात्यागात् स्थितिरथ यथा तथा ॥८॥

पदच्छेदः ।

वासनाः, एव, संसारः, इति, सर्वाः, विमुञ्च, ताः, तत्यागः, वासना-  
त्यागात्, स्थितिः, अथ, यथा, तथा ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
वासना एव=वासनाएँ ही		तत्याग =	{ उसका अर्थात् संस्कार का त्याग है
संसार =संसार है		अद्य=ऐसा होने पर	{ यथा= { जैसा कम है अर्थात् प्रारम्भ है
इति=ऐसा		तथा=उसके अनुसार	
ज्ञात्वा=जानकर		स्थिति =	{ शरीर की स्थिति है ॥
ताः सर्वा = { उन सब वास नाओं को			
विमुञ्च=( तू ) त्याग			
वासनात्यागात्= { वासना के त्याग से			

भावार्थ ।

प्रश्न—पूर्वोक्त युक्ति में जब पुरुष आत्मा को जान भी लेगा, तब फिर उसमें उसकी निष्ठा कैसे होगी ?

उत्तर—विषयों की जो अनेक वासनाएँ हैं, वही संसार है अर्थात् बंधन है। 'योगवाशिष्ठ' में कहा है—

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयापि च ।

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥ १ ॥

वासनाएँ तीन प्रकार की हैं। १—लोक-वासना अर्थात् स्वर्गादि उत्तम लोक की प्राप्ति मुझको हो।

२—दूसरी शास्त्र-वासना अर्थात् सब शास्त्रों का पढ़कर मैं ऐसा पण्डित हो जाऊँ कि मेरे मुख्य दूसरा कोई न हो।

३—तीसरी शरीर की वासना अर्थात् मेरा शरीर सबसे सुन्दर और पुष्ट सदैव बना रहे।



इन तीनों प्रकार की वासनाओं के त्याग करने से पुरुष बन्ध से छूट जाता है और उसका चित्त आत्मा में भी स्थिर हो जाता है ।

प्रश्न—समस्त वासनाओं के त्याग कर देने से शरीर की स्थिति कैसी होगी ?

उत्तर—जैसे दुग्ध पीनेवाले बालक के और उन्मत्त अर्थात् पागल के शरीर की स्थिति प्रारब्ध-कर्म से होती है, वैसे विद्वान् निर्वासनिक के शरीर की स्थिति भी प्रारब्ध-कर्म के बश से रहती है, परन्तु यह वासना कि शरीर की स्थिति कैसे होगी, इसका त्याग ही करना उचित है ।

प्रश्न—यदि पुरुष समग्र वासनाओं का त्याग कर देगा, तब आत्म-ज्ञान को भी वह नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मुमुक्षु को आत्म-ज्ञान की प्राप्ति की वासना सर्वदा बनी रहती है और ज्ञानवान् को भी चित्त के निरोध करने की वासना बनी रहती है, फिर जीवन्मुक्त होने की उसको वासना बनी रहती है । सर्व वासनाओं का त्याग तो किसी से भी नहीं हो सकता है ।

उत्तर—‘वाल्मीकीय रामायण’ में ऐसा लिखा है—

वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा ।

मलिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ १ ॥

दो प्रकार की वासनाएँ कही गई हैं—पहली शुद्ध वासना, दूसरी मलिन वासना । किसी प्रकार से मेरी मुक्ति हो और मैं अपने आत्मा का साक्षात्कार करूँ, उसके लिये जो वृत्ति आदिकों का निरोध करना है, वह शुभ वासना है । विषयभोगों की प्राप्ति की जो वासना है, वह मलिन वासना है । दोनों में से मलिन वासना जन्म

का हेतु है और शुद्ध वासना जन्म का नाशक है। जो चतुर्थ भूमिकावाला ज्ञानी है और जो मुमुक्षु है, उनके लिये शुभ वासना का त्याग नहीं है, किन्तु अशुभ वासना का ही त्याग है। क्योंकि विदेह मुक्ति में आत्म-ज्ञान की ही प्रधानता है। शुभ वासना का नाश उपयोगी नहीं है, परन्तु जीवन्मुक्ति के लिये समग्र वासनाओं का त्याग और मन का भी नाश और आत्म-ज्ञान, ये तीनों उपयोगी हैं।

यहाँ पर अष्टावक्रजी जीवन्मुक्ति के सुख के लिये जनकजी से कहते हैं कि तू समग्र वासनाओं का त्याग कर ॥ ८ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायाऽनवमं प्रकरणं समाप्तम् ।

## दशवाँ प्रकरण ।

—०—

मूलम् ।

विहाय वैरिणं काममर्थं चानर्थसंकुलम् ।  
धर्ममप्येतयोर्हेतुं सर्वत्रानादरं कुरु ॥ १ ॥

पदच्छेद ।

विहाय, वैरिणम्, कामम्, अर्थम्, च, अनर्थसंकुलम्, धर्मम्,  
अपि, एतयो हेतुम्, सर्वत्र, अनादरम्, कुरु ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
वैरिणम्=वैरी रूप		हेतुम्=कारण रूप	
कामम्=कामना को		धर्मम्=धर्म को	
च=और		अपि=भी	
अनर्थसंकुलम्= { अनर्थ से भरे हुए		विहाय=छोड़कर	
अर्थम्=अर्थ को		सर्वत्र= { धर्म, अर्थ और काम के हेतु कर्मों को	
विहाय= याग करके		अनादरम् कुरु=अनादर कर ॥	
च=और			
एतयो =उन दोनों के			

भावार्थ ।

पहले प्रकरण में विषयों के बिना भी सतोष-रूप वैराग्य का

निरूपण किया है। अब इस प्रकार में विषयों की तृष्णा के त्याग का निरूपण करते हैं।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! काम शत्रु है। यह काम ही सम्पूर्ण अनर्थों का मूल है और बड़ा दुर्जय है।

आत्मपुराण में कहा है—

कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरः ।

कामेन विजितो निष्णुः शक्रः कामेन निर्जितः ॥ १ ॥

कामदेव ही ने ब्रह्मा को जीता, विष्णु को जीता, इन्द्र को जीता, महादेव को जीता, अतएव सब अनर्थों का मूल कारण कामदेव ही है। धन के संग्रह और रक्षा करने में जो दुःख होता है, और उसके नाश होने में जो शोक होता है, उसका मूल कारण काम ही है। हे जनक ! काम का कारण जो धर्म है, उसको और सकाम कर्मों को तुम त्याग करो, क्योंकि ये सब जीवन्मुक्ति में प्रतिबन्धक हैं ॥ १ ॥

मूलम् ।

स्वप्नंन्द्रजालवत्पश्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा ।

मित्रक्षेत्रधनागारदारदायादिसम्पदः ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

स्वप्न, इन्द्रजालवत्, पश्य, दिनानि, त्रीणि, पञ्च, वा, मित्र-क्षेत्रधनागारदारदायादिसम्पदः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
मित्रक्षेत्रधना- गारदारदाया- दिसम्पदः	{ मित्र, क्षेत्र, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि सम्प- तियों को	त्रीणि=तीन वा=या पञ्च=पाँच	
स्वप्नेन्द्रजाल- वत्	{ स्वप्न और इन्द्र- जाल के समान,	दिनानि=दिनों तक पश्य=( तू ) देख ॥	

भावार्थ ।

प्रश्न—अनेक प्रकार के सुखों को देनेवाले जो स्त्री-पुत्रादिक विषय हैं, उनका निरादर करके त्याग कैसे हो सकता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! स्त्री, पुत्र, धन, मित्र, क्षेत्रादिक जितने कि भोग के साधन हैं, इन सबको तुम स्वप्न और इन्द्रजाल की तरह देखो, क्योंकि ये सब पाँच या तीन दिन के रहनेवाले हैं, और सब दृष्टनष्ट हैं याने देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं । इसवास्ते इनमें ममता का त्याग करना ही उत्तम है ॥ २ ॥

मूलम् ।

यत्र यत्र भवेत्तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै ।  
प्रौढवैराग्यमाश्रित्य वीततृष्णः सुखी भव ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

यत्र, यत्र, भवेत्, तृष्णा, संसारम्, विद्धि, तत्र, वै, प्रौढवैराग्यम्,  
आश्रित्य, वीततृष्णः, सुखी, भव ॥

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 यत्र यत्र=जिस जिस वस्तु में  
 तृष्णा=इच्छा  
 भवेत्=होवे  
 तत्र=उस उस विषे  
 संसारम्=संसार को  
 विद्धि=( तू ) जान  
 वै=निश्चयपूर्वक

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 प्रौढवैराग्यम्= { असाधारण  
 वैराग्य को  
 आश्रित्य=आश्रय करके  
 वीततृष्णः= { तृष्णा-रहित  
 होता हुआ  
 सुखी भव=सुखी हो ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! जिस जिस प्रसिद्ध विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी उसी विषय को तुम संसार का हेतु जानो। क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्म द्वारा संसार का हेतु है। यही वार्ता 'योगवाशिष्ठ' में भी लिखी है—

मनोरथरथारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिभिः ।

भ्राम्यत्येव जगत्कृत्स्नं तृष्णासारथिचोदितम् ॥ १ ॥

मनोरथ-रूपी रथ है, इन्द्रिय-रूपी घोड़े उसके आगे बंधे हैं, उसी रथ पर सारा जगत् आरूढ हो रहा है और तृष्णा-रूपी सारथि उसको भ्रमा रहा है ॥ १ ॥

यथा हि शृङ्गोकाले वर्धमानेन वर्धते ।

एवं तृष्णापि चित्तेन वर्धमानेन वर्धते ॥ २ ॥

जैसे गौ के दोनों शृंग गौ के शरीर के साथ ही बराबर बढ़ते हैं, वैसे ही तृष्णा भी चित्त के साथ ही बराबर बढ़ती है ॥ २ ॥

प्राप्त पदार्थ के अधिक प्राप्त होने की इच्छा से और अप्राप्त पदार्थ के प्राप्त की इच्छा से रहित होकर आत्मा में निष्ठा करने से जीव सुखी होता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

तृष्णामात्रात्मको बन्धस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते ।  
भवासंसक्तिमात्रेण प्राप्तितुष्टिर्मुहुर्मुहुः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

तृष्णामात्रात्मक, बन्धः, तन्नाश, मोक्षः, उच्यते, भवासंसक्तिमात्रेण, प्राप्तितुष्टिः, मुहुः, मुहुः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः । अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तृष्णामात्रात्मकः = { तृष्णा-मात्र-  
स्वरूप

बन्धः = बन्ध है

तन्नाशः = उसका नाश

मोक्षः = मोक्ष

उच्यते = कहा जाता है

भवासंसक्तिमात्रेण = { संसार में असंग  
होने से

मुहुःमुहुः = बारंबार

प्राप्तितुष्टिः = { आत्मा की प्राप्ति  
और तृप्ति होती  
है ॥

भावार्थः ।

तृष्णा-मात्र का नाम ही बन्ध है और उसके नाश का नाम मोक्ष है । 'योगवाशिष्ठ' में कहा है—

च्युता दन्ताः सिताः केशा दृढनिरोधः पदे पदे ।

यातसज्जमिमं देहं तृष्णा साध्वी न मुञ्चति ॥ १ ॥

अर्थात् पुरुष के दाँत दृढ़ भी जाते हैं, केश श्वेत भी हो जाते

हैं, नेत्र की दृष्टि कम भी हो जाती है और कदम-कदम पर पाँव फिसलते भी हैं, पर तब भी यह तृष्णा उस पुरुष से नहीं त्यागी जाती है ॥ १ ॥

तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं धैर्यवित्पवकारिणी ।

विष्णुस्त्रैलोक्यपूज्योऽपि यत्त्वया वामनीकृतम् ॥ २ ॥

हे तृष्णे ! हे देवि ! तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि तू पुरुष की धैर्यता का नाश करनेवाली है । जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य था, उसको भी तूने वामन याने छोटा बना दिया ॥ २ ॥

हे जनक ! तृष्णा का त्याग ही मुक्ति का हेतु है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वमसत्तथा ।

अविद्यापि न किञ्चित्सा का बुभुत्सा तथापि ते ॥ ५ ॥

पदच्छेद ।

त्वम्, एक, चेतनः, शुद्ध, जडम्, विश्वम्, असत्, तथा, अविद्या, अपि, न, किञ्चित्, सा, का, बुभुत्सा, तथा, अपि, ते ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

त्वम्=तू

एक=एक

शुद्धः=शुद्ध

चेतनः=चेतन-रूप है

विश्वम्=संसार

जडम्=जड़

च=और

असत्=असत् है

तथा=वैसे ही

सा अविद्या= { यह अविद्या भी  
अपि=

न किञ्चित्=किसी तरह है

तथा अपि=ऐसा होने, पर भी

ते=तुम्हको

का=क्या

बुभुत्सा=जानने की इच्छा है ॥



भाषार्थ ।

प्रश्न—यदि तृष्णा-मात्र बन्धन का हेतु माना जाये, तो आत्म-ज्ञान की प्राप्ति का हेतु भी तृष्णा-बन्धन का हेतु होना चाहिए ।

उत्तर—अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! इस जगत् में तीन ही पदार्थ हैं—एक आत्मा, दूसरा जगत्, तीसरी अविद्या ।

प्रथम आत्मा के लक्षण को दिखाते हैं—

स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्वयतिरिक्तोऽवस्थात्रयमात्मी सच्चिदानन्दस्वरूपो यस्तिष्ठति स आत्मा ॥ १ ॥

✓ अर्थ—जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न है और जो जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानन्द है, वही आत्मा है ॥ १ ॥

उमत्की प्राप्ति के लिये तृष्णा करना उचित है ।

अनादिभासत्वे सति ज्ञाननिवर्तत्वमज्ञानत्वम् ॥ २ ॥

✓ जो अनादिभाव-रूप है, और आत्म-ज्ञान करके निवृत्त है, वही अज्ञान अर्थात् अविद्या है ॥ २ ॥

गच्छतीति जगत् ॥ ३ ॥

जो सदैव गमन करता रहे अर्थात् नदी के प्रवाह की तरह चलता रहे, वही जगत् है ॥ ३ ॥

हे जनक ! तुम इन तीनों में से एक ही चेतन शुद्ध आत्मा हो, अपने आत्मा को ही पूर्ण-रूप करके निरचय करो और जगत् को असत्-रूप करके जानो । अविद्या मदमत् में विलक्षण और अनिर्वचनीय है । उमत्का कार्य जगत् भी अनिर्वचनीय है । इममास्ते 'इन

दोनों में तृष्णा करनी अनुचित है, क्योंकि दोनों मिथ्या हैं। मिथ्या वस्तु में मुखे अज्ञानी तृष्णा को करता है, ज्ञानवान् कदापि नहीं करता है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च ।  
संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि ॥ ६ ॥

पदच्छेद ।

राज्यम्, सुता, कलत्राणि, शरीराणि, सुखानि, च, संसक्तस्य, अपि, नष्टानि, तव, जन्मनि, जन्मनि ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

राज्यम्=राज्य

सुता = लड़के

कलत्राणि=स्त्रियों

शरीराणि=शरीर

च=और

सुखानि=सुख

संसक्तस्य=आसक्त पुरुष के

नष्टानि=नष्ट हुए हैं

+ च=और

तव=तेरे

अपि=भी

एते=ये सब -

जन्मनि जन्मनि=हर एक जन्म में

नष्टानि=नष्ट हुए हैं ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी जगत् को भ्रमत्य-रूप दिखलाते हैं—

हे जनक ! राजभोग और स्त्री, पुत्रादिक ये सब तो तुम्हको अनेक जन्मों में मिलते ही रहे हैं और नष्ट भी होते रहे हैं । क्योंकि पहले जन्मों में जो तुम्हको स्त्री-पुत्रादिक प्राप्त हुए थे, उनका इस

काल में कहीं भी पता नहीं है और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं, उनका आगे कहीं भी नाम व निशान नहीं रहेगा, इससे यही साबित होता है कि ये सब असत् अर्थात् मिथ्या हैं। जाग्रत् के पदार्थ जैसे स्वप्न में असत् होते हैं और स्वप्न के पदार्थ जैसे जाग्रत् में असत् होते हैं और जैसे सुषुप्ति में दोनों जाग्रत् और स्वप्न असत् होते हैं और सुषुप्ति, जाग्रत् दोनों स्वप्न में असत् होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं, वैसे ही जब मनुष्य अज्ञान-रूपी स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञान-रूपी जाग्रत् अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको सारा जगत् मिथ्या प्रतीत होने लगता है।

प्रश्न—सांख्यमतवाले जगत् के पदार्थों को नित्य मानते हैं और कहते हैं कि कारण मृत्तिका भी सत्य है, और उसका कार्य घट भी सत्य है। अर्थात् कारण और कार्य दोनों सत्य हैं। यदि घट मृत्तिका में पूर्वसन्ध्य और सूक्ष्मरूप से स्थित न होये, तो उसकी उत्पत्ति भी न होवे। क्योंकि असन्ध्य की उत्पत्ति सत् से नहीं होती है, इसी तरह घट सत्य है। इसी तरह और भी संसार के सारे पदार्थ सत्य ही हैं, असन्ध्य कोई पदार्थ नहीं है। कारण-सामग्री से घट का प्रादुर्भाव होता है, सामग्री के न होने से घट-रूपी कार्य का मृत्तिका-रूपी कारण में ही निरोभाव रहता है, घट मिथ्या नहीं है ?

उत्तर—त्रिकालावाध्यत्वे सत्यत्वम्।

तीनों कालों में जिसका वाद्य न हो, उसका नाम सत्य है, पर संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। तुमने कहा है कि कार्य अपने कारण में सत्य-रूप से रहता है, इसलिये कार्य सत्य है, सो ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पट के कारण तन्तु हैं, तन्तुओं के जल

जाने से पट कहाँ रहता है । कारण तो उसका रहा नहीं कारण के नाश होने से कार्य-रूप पट का भी नाश हो गया ।

यदि उन्हीं जले हुए तन्तुओं से पट फिर उत्पन्न होवे, तब उस पट का प्रादुर्भाव और तिरोभाव कारण-रूपी तन्तुओं में समझा जावे, पर वह तन्तु तो रहते नहीं, तब प्रादुर्भाव तिरोभाव कहाँ रहा ।

यदि कहो कि वह पट अपने कारण-रूपी तन्तुओं के कारण जो तन्तुओं के परमाणु हैं, उनमें चला गया, तो ऐसा कथन भी नहीं बनता है, क्योंकि जब तन्तु जल जाते हैं, तब उनके परमाणु वायु के चलने से स्थानान्तर में चले जाते हैं और उन्हीं पृथिवी के परमाणुओं से कार्यान्तर बन जाते हैं अर्थात् घटादिक बन जाते हैं, क्योंकि जैसे तन्तु पृथिवी के कार्य हैं, वैसे घटादिक भी पृथिवी के कार्य हैं । पटों के जल जाने के पीछे उनकी राख से और बहुत वस्तुएँ पैदा हो सकती हैं ।

यदि पट ही उस राख में तिरोभावरूप करके रहता, तब और वस्तु न बन सकती, उस राख से पट का ही प्रादुर्भाव होता, किन्तु ऐसा तो नहीं देखते हैं । खेत में उसी राख के डालने से घास आदि पैदा हो जाते हैं, फिर और भी अनेक पदार्थ इसी प्रकार नष्ट और उत्पन्न होते हैं । यदि सब सत्य ही हों, तब उनका नाश कदापि न हो और नाश अवश्य होता है, इसी से सिद्ध होता है कि सब पदार्थ अनिर्वचनीय मिथ्या हैं और साखी का सत्यकार्यवाद भी असंगत है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा ।

एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तमभून्मनः ॥७॥

पदच्छेदः ।

अलम्, अर्थेन, कामेन, सुकृतेन, अपि; कर्मणा, एभ्यः, संसार-  
ान्तारे, न, विश्रान्तम्, अभूत्, मनः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
	अर्थेन=अर्थ करके		एभ्यः=इन तीनों से
	कामेन=कामना करके		संसारकान्तारे= { संसार-रूपी
	सुकृतेन कर्मणा = { सुकृत कर्म		{ जंगल में
	अपि = { करके भी		मनः=चित्त
	अलम्=बहुत हो चुका है		न विश्रान्तम्=शान्त नहीं
	तथा अपि=तो भी		अभूत्=होता भया ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! धर्म, अर्थ और काम की  
झा का त्याग करना ही जीवनमुक्ति का कारण है और इनमें जो  
प हैं, उनको देखो—

पृथिवीं धनपूर्णां चेदिमां सागरमेखलाम् ।

प्राप्नोति पुनरप्येव स्वर्गमिच्छति नित्यशः ॥ १ ॥

यदि यह संपूर्ण पृथिवी समुद्र पर्यन्त धन करके युक्त भी किसी को  
ल जाये, तो भी वह नित्य ही स्वर्ग की इच्छा करता है ॥ १ ॥

न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति ।

मदोन्मत्ता न पश्यन्ति ह्यर्थो दोषं न पश्यति ॥-२ ॥

जन्म के अन्धों को, कामातुर को, मदिरा करके उन्मत्त को, और  
न के अर्थों को कुछ भी नहीं दीखता है, इसलिए हे जनक ! धनादि  
की इच्छा का भी त्याग ही करना विवेकी के लिये उत्तम है । क्योंकि

हे जनक ! शरीर, मन और इन्द्रियों को परिश्रम देनेवाले कर्मों को तुम अनेक जन्मों तक करते आए हो, और उन कर्मों के फल जन्म-मरण-रूपी चक्र में भ्रमण करते चले आये हो । अब दिन प्रति-दिन अनेक दुःख उठाते आए, पर कुछ सुख न मिला, अतएव तुम कर्मों से उपरामता को प्राप्त हो । क्योंकि पुरुष उपरामता होने के, बिना जीवन्मुक्ति के सुख को नहीं प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां दशमं प्रकरणं समाप्तम् ।



## ग्यारहवाँ प्रकरण ।

— ० —

मूलम् ।

भावाभावविकारश्च स्वभावादिति निश्चयी ।

निर्विकारो गतक्लेशः सुखेनैवोपशाम्यति ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

भावाभावविकारः, च, स्वभावात्, इति, निश्चयी, निर्विकारः,  
गतक्लेशः, सुखेन, एव, उपशाम्यति ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
भावाभाव- विकारः =	भाव और अ- भाव का विकार स्वभाव से होता है इति=ऐसा निश्चयी = { निश्चय करने- वाला	निर्विकारः =	विकार-रहित
स्वभावात् =		गतक्लेशः =	क्लेश-रहित पुरुष
इति =		सुखेन एव =	सुख से ही
निश्चयी =		उपशाम्यति =	{ शान्ति को प्राप्त होता है ॥

भावार्थः ।

अब ज्ञानाष्टक नामक एकादश प्रकरण का आरम्भ करते हैं ।

चित्त की शान्ति आत्म-ज्ञान से ही होती है, बिना आत्मज्ञान के किसी उपाय करके नहीं होती है । इस वास्ते प्रथम आत्मज्ञान के साधनों को कहते हैं ।

भावाभाव अर्थात् स्थूल-सूक्ष्मरूप करके जितने विकार अर्थात् कार्य हैं, वे सब माया और माया के सस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं और निर्विकार आत्मा से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है ।

प्रश्न—माया जड़ है, आत्मा चेतन है । केवल जड़ माया से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है, और न केवल चेतन से उत्पन्न हो सकता है । क्योंकि निरवयव आत्मा से सावयव कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता है, और न केवल जड़ माया में आपसे आप विना चेतन के सम्बन्ध, कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है । यदि होवे, तब विना ही कुलाल के आपसे आप मृत्तिका से घट उत्पन्न हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है । तब आपने कैसे कहा कि स्थूल-सूक्ष्मरूप कार्य सब माया से ही उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते हैं ?

उत्तर—हे जनक ! जैसे चुम्बक पत्थर की शक्ति करके लोहे में चेष्टा होती है, चुम्बक पत्थर में नहीं होती, वैसे चेतन की सत्ता करके माया से कार्य उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते हैं । जैसे शरीर में जीवात्मा की सत्ता से नख-रोमादिक उत्पन्न होते हैं । आत्मा में नहीं होते हैं । आत्मा असंग है, निर्विकार है; शरीर विकारी और नाशी है । आत्मा नित्य है, चेतन है; शरीर जड़ है, अनित्य है; ऐसा निरचय करनेवाला पुरुष विना परिश्रम के शान्ति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं होता है ॥ १ ॥

मूलम् ।

ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी ।

अन्तर्गलितसर्वाशः शान्तः कापि न सज्जते ॥ २ ॥



## पदच्छेद ।

ईश्वर, सर्वनिर्माता, न, इह, अन्य, इति, निश्चयी, अन्तर्गलित  
सर्वांश, शान्त, क, अपि, न, सज्जते ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
सर्वनिर्माता=	{ सयका पैदा करनेवाला	अन्तर्गलित -	{ अन्त करण में गलित हो गई
इह=इस मसार में		सर्वांश	{ ही सब चाशायें जिमकी
ईश्वर=ईश्वर है		क=और	
अन्यः=दूसरा कोई		यस्य आत्मा=जिसका मत्	
न=नहीं है		शान्त =शान्त हुआ है	
इति=ऐसा		क अपि=कहीं भी	
निश्चयी=	{ निश्चय करने वाला पुरुष	न=नहीं	
		सज्जते=आसन्न होता है ॥	

## भावार्थ ।

प्रश्न—आपने कहा है कि आत्मा की सत्ता करके भावाभाव-विकार उत्पन्न होते हैं, सो आत्मा दो हैं । एक जीवात्मा है, दूसरा ईश्वरात्मा है । दोनों में से किसकी सत्ता करके भावाभाव-विकार उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—ईश्वरात्मा की सत्ता करके जगत् भर के पदार्थ उत्पन्न होते हैं । जीवात्मा की सत्ता करके शरीर के नख रोमादिक उत्पन्न होते हैं । क्योंकि वह आत्मा अपने शरीरमात्र में ही है और इसी कारण परिच्छिन्न है । उसकी सत्ता करके जगत् के पदार्थ उत्पन्न नहीं हों सकते हैं, और ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, और सारे जगत् से बड़ा है ।

उसकी उपाधि माया भी बड़ी है, इसीवास्ते सर्वत्र ईश्वर की सत्ता करके पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और जीव की उपाधि जो अंतःकरण है वह अल्प शरीर में स्थित है, इसवास्ते उसकी सत्ता करके शरीर के अवयव आदिक बढ़ते हैं । अल्प उपाधिवाला होने से जीव अल्पज्ञ अल्प शक्तिवाला है, और बड़ी उपाधिवाला होने से ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है, इसी कारण ईश्वर को ही लोक जगत् का कर्ता मानते हैं । वास्तव में वह कर्ता नहीं है, केवल माया उपाधि करके कर्तृत्व व्यवहार भी ईश्वर में गीण है, मुख्य नहीं है । वह वास्तव में अकर्ता है और जीव भी वास्तव में अकर्ता है ।

प्रश्न—आपने पूर्व कहा था कि चेतन एक है, अब आप जीव और ईश्वर-भेद करके दो चेतन कहते हैं ?

उत्तर—वास्तव में चेतन एक ही है, परन्तु कल्पित उपाधियों के भेद से चेतन का भेद हो जाता है । हे राजन् ! अविद्यातत्कार्य-रहितः शुद्धः । अविद्या और अविद्या के काय से रहित जो चेतन है, उसी का नाम शुद्ध चेतन है, उसी को निर्गुणब्रह्म भी कहते हैं ।

सर्वनामरूपात्मकप्रपंचाध्यासाधिष्ठानत्वं ब्रह्मत्वम् ।

संपूर्ण नामरूपात्मक प्रपंच के अध्यास का जो अधिष्ठान होवे, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी शुद्ध चेतन में सारा नामरूपात्मक जगत् अध्यस्त है ।

माया में प्रतिबिंबित चेतन का नाम ईश्वर है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव है । माया एक है, इसवास्ते उसमें प्रतिबिंबित चेतन ईश्वर भी एक ही कहा जाता है ।

अविद्या के अंश अन्तःकरण नाना हैं, उनमें प्रतिबिंबित चेतन

भी नाना हैं । चेतन के तीन भेद हैं । १—विषयचेतन, २—प्रमाण-चेतन, ३—प्रमातृचेतन ।

घटावच्छिन्नचैतन्यं विषयचैतन्यम् ॥

घटावच्छिन्न चेतन का नाम विषयचेतन है ॥ १ ॥

अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं प्रमाणचैतन्यम् ॥

अंतःकरण की वृत्त्यवच्छिन्न चेतन का नाम प्रमाणचेतन है ॥२॥

अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमातृचैतन्यम् ॥

अंतःकरणावच्छिन्न चेतन का नाम प्रमातृचेतन है ॥ ३ ॥

घटादिक विषय अनन्त हैं, इसलिये उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्तःकरण की वृत्तियाँ भी अनन्त हैं और अन्तःकरण भी अनन्त हैं, इन उपाधियों के भेद करके चेतन के भी अनन्त भेद हो गये हैं । वास्तव में चेतन एक महाकाश की तरह है । जैसे महाकाश का घटमठादि उपाधियों के साथ वास्तव में कोई भी सम्बन्ध नहीं है, वैसे कल्पित उपाधियों के साथ अन्तःकरणों का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, ऐसे निश्चय करनेवाला पुरुष निश्चल चित्त होकर कहीं भी संसक्त नहीं होता है ॥ २ ॥

मूलम् ।

आपदः सम्पदः काले दैवादेवेति निश्चयी ।

तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति ॥३॥

पदच्छेदः ।

आपदः, सम्पदः, काले, दैवात्, एव, इति, निश्चयी, तृप्तः, स्वस्थेन्द्रियः, नित्यम्, न, वाञ्छति, न, शोचति ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

काले=समय पर  
आपदः=आपत्तियाँ  
च=और

सम्पदः=सम्पत्तियाँ

दैवात् एव= { दैवयोग से ही  
होती है

इति निश्चयी= { ऐसा निश्चय  
करनेवाला  
पुरष

नित्यम् तृप्तः= { नित्य संतुष्ट  
स्वस्थेन्द्रियः= { व स्वस्थेन्द्रिय  
हुआ

न वाञ्छति= { अप्राप्त वस्तु की  
इच्छा नहीं  
करता है

च=और

न=न

शोचति= { नष्ट हुई वस्तु को  
सोचता है ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—यदि ईश्वर ही सर्व जगत् का रचनेवाला माना जावेगा, तब फिर किसी को दरिद्री, किसी को धनी, किसी को दुःखी, किसी को सुखी न होना चाहिए । पर ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिये ईश्वर में विषम दृष्टि आदिक दोष आते हैं ?

उत्तर—हे राजन् ! ईश्वर में दोष तब आवे, जब ईश्वर किन्हीं कर्मों को रचे, सो तो नहीं है, क्योंकि गीता में भी लिखा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १ ॥

ईश्वर जीवों के कर्तृत्वपने को और कर्मों को नहीं रचता है और कर्मों के फल के संयोग को भी नहीं रचता, ये सब अनादि काल के संस्कारों से होते हैं अर्थात् अनादि काल से चले आते हैं, इसवास्ते ईश्वर में कोई दोष नहीं आता है ॥ १ ॥

प्रश्न—कर्म जड़ है, स्वतः फल को नहीं दे सकता है और जीव

उत्तर—गुणारोप्य के विना भक्ति और उपासना नहीं हो सकती है। जैसे मिथ्या कल्पी हुई मूर्ति के ध्यान करने से अर्थात् उस मूर्ति में चित्त के रोकने से चित्त में शान्ति और आनन्द होता है अर्थात् चित्त के निरोध से नित्य आत्मसुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही मिथ्या दयालुतादिक गुणों को ईश्वर में आरोप्य करने से भी ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम से पुरुष को आनन्द होता है, उसी प्रेम का नाम भक्ति है। दयालुतादिक गुणों का प्रारोप्य करना निरर्थक नहीं है, वास्तव में तो ईश्वर गुणातीत है। गुण माया का कार्य है, और माया के सम्बन्ध करके ईश्वर गुणोंवाला कहा जाता है। संसार में सब जीवों को आपदाएँ और सम्पदाएँ प्रारब्धकर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं, ऐसे निश्चय करनेवाला जो पुरुष है, और भोगों की तृष्णा सेजां रहित है, और जिनके इन्द्रियादिक बश में हैं, और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है, अर्थात् जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है, और जो प्राप्त वस्तु के नष्ट होने से शोक नहीं करता, वही नित्य सुख को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

सुखदुःखे जन्ममृत्यू देवादेवेति निश्चयी ।  
साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ४ ॥

पदच्छेद ।

निश्चयी, साध्यादर्शी,

अन्तःकरण-रूपी खेत में स्थित हैं, वैसे-वैसे उसको फल होते हैं । ईश्वर स्वतंत्र अर्थात् कर्मों के बिना फल का प्रदाता नहीं है । यदि ऐसा हो, तो उसमें विषमदोष आवे, इसी वास्ते ईश्वर न्यायकारी है ।

प्रश्न—यदि ईश्वर न्यायकारी माना जावे, तब दयालुता आदिक गुण उसमें नहीं रहेंगे ?

असमर्थ है वह भी अपने आप फल को नहीं भोग सकता है, तब फिर फलदाता ईश्वर में दोष क्यों नहीं आवेगा ?

उत्तर—ईश्वर में दोष तब आवे, जब ईश्वर जीवों से शुभ अशुभ कर्म करावे और फिर उनको फल देवे या जीवों को उत्पन्न करके उनसे कर्म करावे, ऐसा तो नहीं है; क्योंकि प्रवाह-रूप करके सारा जगत् अनादि चला आता है, कोई भी नई वस्तु जीव या ईश्वर उत्पन्न नहीं करता है। जैसे पृथिवी में सब वनस्पति के बीज रहते हैं, परन्तु बिना सहकारी कारण सामग्री के अकुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे माया में सब प्रकार के पदार्थों के सूक्ष्मरूप से बीज बने रहते हैं, परन्तु बिना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस काल में उसकी उत्पत्ति की सामग्री जुड़ जाती है, उसी काल में वह उत्पन्न हो आते हैं। जैसे जुदा खेतों में जुदा जुदा बीज हल जोतकर किसान बो देता है यानी किसी में चना, किसी में गेहूँ, किसी में मटर आदि बोता है, परन्तु बिना तरीके के नहीं उत्पन्न होते हैं और पानी बिना बीज के फल को नहीं दे सकते हैं। जब खेत बोया हो और समय पर वर्षा हो, तब जाकर बीजों से आगे फल उत्पन्न होते हैं। वर्षा सब खेतों में एकसाँ बराबर होती है, पर जैसा-जैसा बोझ जिस खेत में होता है वैसा-वैसा उसमें फल उत्पन्न होता है, न केवल खेत फल को उत्पन्न कर सकता है, न केवल बीज ही फल को उत्पन्न कर सकता है। खेत, बीज और वर्षा तीनों मिल करके ही फल को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही दार्ष्टान्त में बादल स्थानापन्न ईश्वर हैं, खेत स्थानापन्न जीवों के अन्तःकरण हैं, बीज स्थानापन्न जीवों के संचित कर्म हैं, ईश्वर की सत्ता-रूपी वर्षा सर्वत्र तुल्य है, क्योंकि ईश्वर चेतन सर्वत्र तुल्य है, परन्तु जैसे-जैसे जिसके कर्म-रूपी बीज

अन्तःकरण-रूपा खेत में स्थित हैं, वैसे-वैसे उसको फल होते हैं । ईश्वर स्वतंत्र अर्थात् कर्मों के बिना फल का प्रदाता नहीं है । यदि ऐसा हो, तो उसमें विषमदोष आवे, इसी वास्ते ईश्वर न्यायकारी है ।

प्रश्न—यदि ईश्वर न्यायकारी माना जाये, तब दयालुता आदिक गुण उसमें नहीं रहेंगे ?

उत्तर—दयालुता आदिक गुण यदि माने जावेंगे, तब न्यायकारिता नहीं रहती है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं ।

जो राजा न्यायकारी होता है, वह दयालु नहीं होता है । यदि दयालुता करेगा, तब किसी हननकर्ता पुरुष को हनन करने की आज्ञा नहीं देगा और यदि देगा, तब वह रोने-चिल्लाने लगेगा, क्योंकि प्राण तो सबके प्यारे हैं । उसके दुःख को देखकर राजा को उस पर दया होगी और दया के वश होकर राजा उसको छोड़ देगा, तब उसकी न्यायकारिता जाती रहेगी । इसी तरह ईश्वर भी यदि पापियों को पाप का फल जो दुःख है, उसको नहीं देगा और दया करके छोड़ देगा, तब जगत् में कोई भी दुःखी नहीं रहेगा, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं, क्योंकि संसार में लाखों पुरुष बड़े-बड़े असाध्य रोगों करके दुःखी हैं, रात-दिन ईश्वर ! ईश्वर ! पुकारते-पुकारते मर जाते हैं, और उनका दुःख दूर नहीं होता है । लाखों अकाल में अन्न बिना मर जाते हैं और जीव कर्म के फल दुःखों को भोगकर अच्छे हो जाते हैं । अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार के उनके फल हैं, बिना भोग के कर्म नहीं छूटते हैं । इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु नहीं है ।

प्रश्न—फिर भक्त लोग ईश्वर की भक्ति करने के काल में क्यों कहते हैं कि हे ईश्वर ! आप दयालु हैं, कृपालु हैं और न्यायकारी हैं ?



उत्तर—गुणारोप्य के बिना भक्ति और उपासना नहीं हो सकती है। जैसे मिथ्या कल्पी हुई मूर्ति के ध्यान करने से अर्थात् उस मूर्ति में चित्त के रोकने से चित्त में शान्ति और आनन्द होता है अर्थात् चित्त के निरोध से नित्य आत्मसुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही मिथ्या दयालुतादिक गुणों को ईश्वर में आरोप्य करने से भी ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम से पुरुष को आनन्द होता है, उसी प्रेम का नाम भक्ति है। दयालुतादिक गुणों का आरोप्य करना निरर्थक नहीं है, वास्तव में तो ईश्वर गुणातीत है। गुण माया का कार्य है, और माया के सम्बन्ध करके ईश्वर गुणोंवाला कहा जाता है। संसार में सब जीवों को आपदाएँ और सम्पदाएँ प्रारब्धकर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं, ऐसे निश्चय करनेवाला जो पुरुष है, और भोगों की तृष्णा से जां रहित है, और जिसके इन्द्रियादिक वश में है, और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है, अर्थात् जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है, और जो प्राप्त वस्तु के नष्ट होने से शोक नहीं करता, वही नित्य सुख को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

सुखदुःखे जन्ममृत्यू दैवादेवेति निश्चयी ।  
साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ४ ॥

पदच्छेद ।

सुखदुःखे, जन्ममृत्यू, दैवात्, एव, इति, निश्चयी, साध्यादर्शी,  
निरायासः, कुर्वन्, अपि, न, लिप्यते ॥

अन्वयः । शब्दार्थ ।

सुखदुःखे=सुख और दुःख  
जन्ममृत्यू=जन्म और मरण  
दैवात् एव=दैव से ही होता है  
इति=ऐसा  
निश्चयी=निश्चय करनेवाला  
साध्यादश = { साध्य कर्म को  
देखनेवाला

अन्वयः । शब्दार्थ ।

च=और  
निरायासः=श्रम-रहित  
कुर्वन्= { कर्म को करता  
हुआ  
न लिप्यते=नहीं लिप्त होता है ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—पूर्वोक्त निश्चय करनेवाले ज्ञानी भी तो कर्मों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं ? उनको कर्मों का फल होगा, या नहीं ?

उत्तर—जो यथार्थ बोधवाले हैं, उनको कर्मों का फल नहीं होगा, क्योंकि प्रथम वे फल की कामना से रहित होकर कर्मों को करते हैं, दूसरे वे श्रेष्ठाचार के लिये कर्मों को करते हैं, तीसरे वे कर्मों को देह इन्द्रियादिकों के धर्म जानते हैं, अपने आत्मा का धर्म नहीं मानते हैं, चौथे अहंकार से रहित होकर वे कर्मों को करते हैं, इन्हीं चार हेतुओं करके उनको कर्मों का फल नहीं होता है ।

गीता में भी कहा है—

यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

इत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ ? ॥

जिसका देह इन्द्रियादिकों में अहंकृतभाव नहीं है, अर्थात् मैं देह हूँ, या मेरा यह देह है, इस प्रकार का जिसकी भावना नहीं है और कर्तृत्व-भोक्तृत्व बुद्धि भी जिसकी लिपायमान नहीं हो सकती है, सो विद्वान् यदि प्रारम्भिक कर्म के बश से शरीरादिकों करके तीनों लोकों का बंध भी कर देवे, तो भी उसको ऐसा करने का फल

लिपायमान नहीं होता है । जो इस प्रकार निश्चय करता है कि सुख-दुःखादिक ये सब प्रारब्धकर्म के वश से जीवों को होते हैं, वह विद्वान् परिश्रम से रहित प्रारब्धवश से कर्मों को करता हुआ उनके फल के साथ लिपायमान नहीं होता है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

चिन्तया जायते दुःखं नान्यथेहेति निश्चयी ।  
तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गलितस्पृहः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

चिन्तया, जायते, दुःखम्, न, अन्यथा, इह, इति, निश्चयी, तया, हीनः, सुखी, शान्तः, सर्वत्र, गलितस्पृहः ॥

अन्वयः । शब्दार्थः । अन्वयः । शब्दार्थः ।

इह=इस ससार में  
चिन्तया=चिन्ता से  
दुःखम्=दुःख  
जायते=उत्पन्न होता है  
अन्यथा=और प्रकार से  
न=नहीं  
इति=ऐसा  
निश्चयी=निश्चय करनेवाला

सुखी=सुखा और  
शान्तः=शान्त है  
सर्वत्रगलित-  
नस्पृहः = { सर्वत्र उसकी  
इच्छा गलित है  
+ च=और  
तया = { उससे अर्थात्  
चिन्ता से  
हीनः =रहित है ॥

भावार्थः ।

प्रश्न—कर्मों को करता हुआ पुरुष उनके फल के साथ लिपायमान क्यों नहीं होता है ? जो कर्ता होता है वही भोक्ता भी अवश्य होता है ?

उत्तर—इस संसार में पुरुष को चिन्ता करने से ही दुःख उत्पन्न होता है, बिना चिन्ता के दुःख नहीं होता है, जो इस प्रकार निश्चय करता है, वह चिन्ता को त्याग देता है, और शान्तचित्त और स्थिर अन्तःकरणवाला होता है, और श्रम से रहित होकर भी कर्मों से जन्य अर्थों का भोगनेवाला नहीं होता है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहमिति निश्चयी ।

कैवल्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्यकृतं कृतम् ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

न, अहम्, देहः, न, मे, देहः, बोधः, अहम्, इति, निश्चयी, कैवल्यम्, इव, संप्राप्तः, न, स्मरति, अकृतम्, कृतम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अहम्=मैं

देहः=शरीर

न=नहीं हूँ

देहः=देह

मे=मेरा

न=नहीं है

बोधोऽहम्=मैं ज्ञानस्वरूप हूँ

इति=इस प्रकार

कैवल्यम्=वीषदेहमुक्ति को

संप्राप्तः=प्राप्त होता हुआ

निश्चयी= { निश्चय करने-  
वाला पुरुष

अकृत कृतम्= { अकृत और कृत  
कर्मों को

न स्मरति= { नहीं स्मरण  
करता है ॥

भावार्थः ।

परोक्त साधनों करके युक्त जो ज्ञानी हैं, उनकी दशा को दिखाते हैं—

ज्ञानवान् का ऐसा निश्चय होता है "नाहं देहः" मैं देह नहीं हूँ और "न मे देहः" मेरा यह देह नहीं है और मैं नित्य बोध-स्वरूप हूँ । आत्म-ज्ञान करके देहादिको मैं दूर हो गया है, अहं और मम अभिमान जिसका, कर्तव्य और अकर्तव्य जिसका बाका नहीं रहा है, और कृत तथा अकृत का स्मरण भी जिसको नहीं है, वही ज्ञानवान् जीघन्मुक्त कहा जाता है । इसमें एक दृष्टान्त को कहते हैं—

एक मंदिर में एक महात्मा रहते थे । आत्म-विद्या का अभ्यास करते करते उनकी अवस्था चढ़ गई थी, और शरीर की सब क्रियाएँ उनकी छूट गई थीं । अतः जब कोई उनके मुख में भोजन डाल देता, तब खाते, जब कोई पानी पिलाता, तब पानी पीते थे और एक स्थान में बैठे रहते थे, किसी से बोलते-चालते न थे और अपने आत्मानन्द में ही मग्न रहते थे । एक दिन दोपहर के समय उसी मंदिर में लड़के खेलते थे । एक लड़के ने कहा कि इन महात्मा के पट पर याने स्थल पर चौपट बनाकर खेलें । दूसरा लड़का चाकू ले आया और जब चाकू से पट पर लकीरें खींचने लगा, तब उसमें से रुधिर बहने लगा । महात्मा ज्यों के त्यों पड़े रहे और लड़के डर के मारे भाग गये । कोई एक पुरुष मंदिर में आया और उसने महात्मा के पट में रुधिर बहते देखा, तब उसने इधर-उधर से पूछा, तो उसको मालूम हुआ कि यह लड़कों ने किया है । तब दो-चार आदमी मिलकर जर्हाह को बुला लाये । जब जर्हाह आकर जखम को हाथ लगाकर सीने लगा, तब महात्मा ने न सीने दिया । जब थोड़े दिनों के बाद जखम में कीड़े पड़ गये, तब भी महात्मा का चेहरा मैला न हुआ । उसी नगर में थोड़ी दूर पर एक मंदिर में एक और महात्मा रहते थे । उन्होंने जब उनका हाल सुना, तब एक आदमी की

जबानी उन महात्मा को कहला भेजा कि भाई ! जिस मकान में आदमी रहता है, उस मकान में उसको झाड़ू-बुहारू देना आवश्यक होता है । जब ऐसा संदेश उनको पहुँचा, तब उन्होंने जवाब दिया कि महात्माजी से कहना कि जब आप तीर्थों में गये थे और राह में बीसों धर्मशालों में रात्रि भर रहते गये थे, वे धर्मशाले अब गिर पड़े हैं, अब जाकर उनकी मरम्मत करिए । हमको तो शरीर-रूपी धर्मशाला में आयु-रूपी रात्रि भर रहना है । वह रात्रि भी व्यतीत हो गई है । अब इस शरीर-रूपी धर्मशाला की कौन मरम्मत करे । इतना कहकर फिर चुप हो गये । थोड़े दिनों के बाद उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, ऐसी दशा जीवन्मूर्तों की होती है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तमहमेवेति निश्चयी ।

निर्विकल्पःशुचिः शान्तः प्राप्ताप्राप्तविनिर्मुक्तः॥७॥

पदच्छेदः ।

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तम्, अहम्, एव, इति, निश्चयी, निर्विकल्पः, शुचिः, शान्तः, प्राप्ताप्राप्तविनिर्मुक्तः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

आब्रह्मस्तम्ब-पर्यन्तम् = { महात्मा से लेकर  
पर्यन्तम् = { मृष्यपर्यन्त

अहम् एव=मैं ही हूँ

इति=इस प्रकार

निश्चयी=निश्चय करनेवाला

निर्विकल्पः=संकल्प-रहित

शुचिः=शुद्ध

एव=और

शान्तः=शान्त-रूप

एव=और

प्राप्ताप्राप्त-विनिर्मुक्तः = { लाभालाभ-  
विनिर्मुक्तः = { रहित पुरुष  
+सुखी भवति=सुखी होता है ॥

भावार्थ ।

जीवन्मुक्तों के और लक्षणों को दिखलाते हैं—

ब्रह्मा से लेकर स्तंबपर्यंत संपूर्ण जगत् मेरा ही रूप है, अर्थात् मैं ही सर्व-रूप हूँ, ऐसा निश्चय करनेवाला जो पुरुष है, वही निर्विकल्प समाधिवाला जीवन्मुक्त है, वही विषय-रूपी मल के सम्बन्ध से भी रहित है, वही शान्त चित्तवाला है और वही प्राप्ताप्राप्त विषयों में इच्छा से रहित है, वही परम संतोषवाला है, वही अपने आत्मानंद करके ही पूर्ण है ॥ ७ ॥

मूलम् ।

नानाश्चर्यमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चयी ।  
निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किञ्चिदिव शाम्यति ॥८॥

पदच्छेदः ।

नानाश्चर्यम्, इदम्, विश्वम्, न, किञ्चित्, इति, निश्चयी, निर्वासनः, स्फूर्तिमात्रः, न, किञ्चित्, इव, शाम्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

इदम्=यह

विश्वम्=संसार

नानाश्चर्यम्=अनेक आश्चर्यवाला

न किञ्चित्= { कुछ नहीं है  
अर्थात् मिथ्या है

इति=इस प्रकार

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

निश्चयी=निश्चय करनेवाला

निर्वासनः=वासना-रहित

स्फूर्तिमात्रः=बोध स्वरूप पुरुष

न किञ्चिदिव=व्यवहार-रहित

शाम्यति= { शांति को प्राप्त  
होता है ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—हे प्रभो ! ब्रह्मज्ञानी के मन के संकल्प कैसे स्वतः नष्ट हो जाते हैं ?

उत्तर—जब अधिष्ठान चेतन के साक्षात्कार होने से अध्यस्त वस्तु का बाध हो जाता है, अर्थात् आत्मा के साक्षात्कार होने से जब नाना प्रकार के आश्चर्य-रूप विश्व का बोध हो जाता है, तब विद्वान् के मन के सब संकल्प दूर हो जाते हैं ।

प्रश्न—हे प्रभो ! यदि आत्मा के साक्षात्कार होने से जगत् का बोध अर्थात् नाश हो जाता, तो फिर पंचभूतात्मक जगत् भी न रहता, और जगत् के नाश होने पर विद्वान् के देहादिक भी न रहते, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं, इसी से जाना जाता है कि आत्मा के साक्षात्कार होने पर भी जगत् ज्यों का त्यों बना रहता है ?

उत्तर—नाश दो प्रकार का है । एक तो बाध-रूप नाश है, दूसरा निवृत्ति रूप नाश है ।

उपादानेन सह कार्यविनाशो बाधः ॥ १ ॥

उपादानकारण के सहित जो कार्य का नाश है, उसका नाम बाध है ॥ १ ॥

विद्यमाने उपादाने कार्यविनाशो निवृत्तिः ॥ २ ॥

उपादान के विद्यमान होते हुए जो कार्य का नाश है, उसका नाम निवृत्ति है ॥ २ ॥

विद्वान् की दृष्टि से अज्ञान-रूपी कारण के सहित कार्य-रूपी जगत् का नाश हो जाता है । जगत् का नाश-रूप बाध हो जाता है, परन्तु बाधिता अनुवृत्ति करके बना रहता है, और स्वप्न-प्रपञ्च की निवृत्ति-रूप बाध जाग्रत् में हो जाता है, क्योंकि उसका उपादानकारण जो अविधा



है, वह बनी रहती है। कारण-रूपी अविद्या के विद्यमान होने पर स्वप्न-रूपी कार्य का नाश हो जाता<sup>३</sup>, इसी से वह निवृत्ति-रूप बाध है।

अज्ञान के अनेक अंश हैं। जिस विद्वान् के अंतःकरण-रूपी अंश का, जो अज्ञान का कार्य है, नाश हो जाता है, उसी को अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, और बाकी के जीवों को नहीं होता है, उनका जगत् भी बना रहता है। जैसे दश पुरुष सोये हुए अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं। उनमें से जिसकी निद्रा दूर हो गई है, उसी का स्वप्न-प्रपंच नष्ट हो जाता है, बाकी के पुरुषों का बना रहता है। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया है कि जगत् अपनी सत्ता से शून्य है, ब्रह्म की सत्ता करके सत्यवत् भान होता है, वास्तव में मिथ्या है, वही पुरुष शान्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां एकादशप्रकरणं समाप्तम् ।

## वारहवाँ प्रकरण ।

—:०:—

मलम्

कायकृत्यासहः पूर्वं ततो वाग्निस्तरासहः ।

अथ चिन्तासहस्तस्मादेवमेवाहमास्थितः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

कायकृत्यासहः, पूर्वम्, ततः, वाग्निस्तरासहः, अथ, चिन्तासहः,  
तस्मात्, एवम्, एव, अहम्, आस्थितः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

पूर्वम्=पहले

अथ=उसके पीछे

कायकृत्यासहः= { शारीरिक कर्म  
का न सहारने-  
वाला हुआ अ-  
र्थात् कायिक  
कर्म का त्यागने-  
वाला हुआ

चिन्तासहः= { चिन्ता के व्या-  
पार को न  
सहारनेवाला  
हुआ अर्थात्  
मानसिक कर्म  
का त्याग करने-  
वाला हुआ

ततः=उसके पीछे

तस्मात् एवम्=इसी कारण  
अहम् एव=मैं ही  
आस्थितः=स्थित हूँ ॥

वाग्निस्तरासहः= { वाणी के जप्य-  
रूप कर्म का न  
सहारनेवाला  
हुआ अर्थात्  
वाचिक कर्म  
का त्यागने-  
वाला हुआ

भावार्थ ।

अब द्वादशाष्टक प्रकरण का आरम्भ करते हैं—

पूर्व जो गुरु ने शिष्य के प्रति ज्ञानाष्टक कहा है, उसी को अब शिष्य अपने में दिखाता है । शिष्य कहता है कि हे गुरो ! प्रथम जो शरीर के कर्म यज्ञादि हैं, उनका मैं असहन करनेवाला हुआ अर्थात् शारीरिक कर्म मेरे से सहारे नहीं गये हैं, फिर वाणी के कर्म जो निन्दा स्तुति आदिक हैं, उनका मैंने असहन किया । फिर मन के कर्म जो जपादिक हैं, उनका मैंने असहन किया अर्थात् कायिक, वाचिक और मानसिक संपूर्ण कर्मों को त्याग करके मैं स्थित हो गया ॥ १ ॥

मूलम् ।

प्रीत्यभावेन शब्दादेरदृश्यत्वेन चात्मनः ।

विज्ञेयैकाग्रहृदय एवमेवाहमास्थितः ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

प्रीत्यभावेन, शब्दादेः, अदृश्यत्वेन, च, आत्मनः, विज्ञेयैकाग्रहृदयः, एवम्, एव, अहम्, आस्थितः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

शब्दादेः=शब्द आदि की  
प्रीत्यभावेन=प्रीति के अभाव से  
च=और

आत्मनः=आत्मा के  
अदृश्यत्वेन=अदृश्यता से

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

विज्ञेयैकाग्रहृदयः= { विषयों से ए-  
काग्र हुआ है  
मन जिसका  
एवम् एव=ऐसा  
अहम्=मैं

आस्थितः= { सब तरफ से  
स्थित हूँ ॥

भावार्थ ।

अब तीन प्रकार के कर्मों के त्याग के हेतु को कहते हैं—कायिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों कर्म मन की एकाग्रता विषे विलोप करनेवाले हैं । लोकान्तर की प्राप्ति करनेवाले जो यज्ञादिक कर्म हैं, उनसे शरीर में विलोप होता है । शरीर में विलोप के होने से मन का निरोध नहीं हो सकता है । वाणी के कर्म जो निन्दा, स्तुति आदिक हैं, उनसे भी मन का निरोध नहीं हो सकता है, और मन के जो जपादिक कर्म हैं, वे भी मन के विलोप करनेवाले हैं । तीनों कर्मों में जो प्रीति है, उसका त्याग करना आवश्यक है । आत्मा अदृश्य है अर्थात् ध्यानादिकों का अधिपय है । आत्मा चेतन है, मन, बुद्धि आदिक सब अचेतन हैं याने जड़ हैं । जड़ चेतन को विषय नहीं कर सकता है, इसरास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिन्तारूपी विलोप भी मेरे को नहीं है और मैं संपूर्ण विलोपों से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ ॥ २ ॥

मूलम् ।

समाध्यासादिविहितौ व्यवहारः समाधये ।

एवं विलोक्य नियममेवमेवाहमास्थितः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

समाध्यासादिविहितौ, व्यवहारः, समाधये, एवम्, विलोक्य, नियमम्, एवम्, एव, अहम्, आस्थितः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

समाध्यासा-  
दिविचिन्तौ = { सम्यक् अ-  
ध्यास आदि  
करके विक्षेप  
होने पर  
समाधये = समाधि के लिये  
व्यवहारः = व्यवहार है

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

एवम् नियमम् = ऐसे नियम को  
विलोक्य = देख करके  
एवम् एव = समाधि-रहित  
अहम् = मैं  
आस्थितः = स्थित हूँ ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—किसी प्रकार के विक्षेप के न होने पर भी समाधि के लिये तो कुछ मन आदिकों को व्यापार करना ही पड़ेगा ?

उत्तर—कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थों का हेतु जो अध्यास है, उसी करके विक्षेप होता है । उस विक्षेप को दूर करने के लिये समाधि के वास्ते मन आदिकों का व्यापार होता है, अन्यथा नहीं होता है । ऐसे नियम को देख करके प्रथम मैंने अध्यास को दूर कर दिया है, इसवास्ते समाधि के लिये भी मन आदिकों के व्यापार की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु समाधि से रहित अपने आत्मानंद में मैं स्थित हूँ ॥ ३ ॥

मूलम् ।

हेयोपादेयविरहादेवं हर्षविषादयोः ।

अभावादव्य हे ब्रह्मन्नेवमेवाहमास्थितः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

हेयोपादेयविरहात्, एवम्, हर्षविषादयोः, अभावात्, अथ, हे ब्रह्मन्,  
एवम्, एव, अहम्, आस्थितः ।

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
हे प्रह्वन्=हे प्रभो !		अभावात्=अभाव से	
हेयोपादेयविरहात्=	{ त्याग्य और ग्राह्य वस्तु के वियोग से	अद्य=अद्य	
एवम्=वैसे ही		अहम्=मैं	
हर्षविपादयो =	{ हर्ष और वि- पाद के	एवम् एव=जैसा हूँ वैसा ही	
		आस्थित =रिपत हूँ ॥	

भाषार्थ ।

जनकजी फिर अपने अनुभव को कहते हैं कि हे प्रभो ! त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तु का अभाव होने से अर्थात् आत्म-ज्ञान की प्राप्ति होने में न तो मेरे को कुछ त्याग करने योग्य रहा है, और न कुछ ग्रहण करने के योग्य रहा है, इसी वास्ते हर्ष विपादादिक भी मेरे को नहीं है क्योंकि हर्ष विपादादिक भी ग्रहण और त्याग करने में ही होते हैं, इस वास्ते अत्र मैं अपने स्वरूप में ही स्थित हुआ हूँ ॥ ४ ॥

मूलम् ।

आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकृतवर्जनम् ।  
विकल्पं मम वीक्ष्यैतैरेवमेवाहमास्थितः ॥ ५ ॥

पदच्छेद ।

आश्रमानाश्रमम्, ध्यानम्, चित्तस्वीकृतवर्जनम्, विकल्पम्, मम, वीक्ष्य, एतैः, एवम्, एव, अहम्, आस्थितः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
+यत्=जो		उत्पन्न=उत्पन्न हुए	
आश्रमाना- श्रमम् = { आश्रम और अनाश्रम है		मम=अपने	
ध्यानम्=ध्यान है		विकल्पम्=विकल्प को	
च=और		वीक्ष्य=देख करके	
चित्तस्वीकृत- वर्जनम् = { चित्त से स्वीकार की हुई वस्तु का त्याग है		अहम्=मैं	
एतै=उन सबसे		एवम्=इन तीनों से रहित	
		आस्थितः=स्थित हुआ हूँ ॥	

भावार्थ ।

शिष्य कहता है कि हे गुरो ! आश्रमों के धर्मों से और उनके फलों के सम्बन्ध से भी मैं रहित हूँ । अनाश्रमी जो त्यागी संन्यासी हैं, उनके धर्म जो दण्डादिकों का धारण करना है, उनके सम्बन्ध से भी मैं रहित हूँ और योगियों के धर्म जो धारणा ध्यानादिक हैं, उनसे भी मैं रहित हूँ, क्योंकि ये सब अज्ञानियों के लिये बने हैं, मैं इन सबका साक्षी चिद्रूप हूँ ।

यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सर्वसाक्षिणम् ।

पारमार्थिकविज्ञानं सुखात्मानं च स्वप्रभम् ॥ १ ॥

परं तत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥ २ ॥

जो पुरुष शरीर इन्द्रियादिकों से भिन्न और शरीरादिकों के साक्षी विज्ञान-स्वरूप, सुख-स्वरूप, स्वयंप्रकाश परम तत्त्व अपने आत्मा को जान लेता है, वह अतिवर्णाश्रमी कहलाता है । सो मैं वर्णाश्रमों से अतीत सबका साक्षी चिद्रूप हूँ ॥ ५ ॥

मूलम् ।

कर्माऽनुष्ठानमज्ञानाद्यथैवोपरमस्तथा ।

बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वमेवमेवाहमास्थितः ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

कर्माऽनुष्ठानम्, अज्ञानात्, यथा, एव, उपरमः, तथा, बुद्ध्वा,  
सम्यक्, इदम्, तत्त्वम्, एवम्, एव, अहम्, आस्थितः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यथा=जैसे

कर्माऽनुष्ठानम्=कर्म का अनुष्ठान

अज्ञानात्=अज्ञान से है

तथा=वैसा ही

उपरमः=कर्म का त्याग

एव=भी है

इदम्=इस तरह को

सम्यक्=भली प्रकार

बुद्ध्वा=जान करके

अहम्=मैं

एवम् एव= { कर्म करने और  
कर्म न करने की  
इच्छा को त्याग  
करके

आस्थितः=स्थित हूँ ॥

भावार्थः ।

जनकजी कहते हैं कि कर्मों का अनुष्ठान अज्ञानता से होता है, अर्थात् जिसको धात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वही कर्मों का अनुष्ठान स्वर्गादि फल की प्राप्ति के लिये करता है, और धात्मा के ज्ञान से ही पुरुष कर्म करने से उपराम को भी प्राप्त हो जाता है । जिसको आत्मा को साक्षात्कार हो गया है, वह न कर्म करता है, और न उनसे उपराम होता है, प्रारब्ध-वश से शरीरादिक कर्मों को करता है वा नहीं करता है, ऐसा जानकर ज्ञानी अपने नित्या-नन्दस्वरूप में स्थित रहता है ॥ ६ ॥



मूलम् ।

अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसौ ।  
त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मादेवमेवाहमास्थितः ॥ ७ ॥

पदच्छेद ।

अचिन्त्यम्, चिन्त्यमान, अपि, चिन्तारूपम्, भजति, असौ,  
त्यक्त्वा, तद्भावनम्, तस्मात्, एवम्, एव, अहम्, आस्थित ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अचिन्त्यम्=ब्रह्म को  
चिन्त्यमान =चितवन करता हुआ  
अपि=भी  
असौ=यह पुरुष  
चिन्तारूपम्=चिन्ता को  
भजति=भावना करता हे

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

तस्मात्=इस कारण  
तद्भावनम्=उस चिन्ता की भावना को  
त्यक्त्वा=त्याग करके  
अहम्=मैं  
एवम् एव=भावना-रहित  
आस्थित =स्थित हूँ ॥

भावार्थ ।

ब्रह्म अचिन्त्य है अर्थात् मन और वाणी करके चिन्तन नहीं किया जा सकता है, पर जो आत्मवर्ग अचिन्त्यरूप का चितवन करना है, उस चितवन की चिन्ता को भी त्याग करके मैं भावना-रूपी चितवन से रहित अपने आत्मा में ही स्थित हूँ ॥ ७ ॥

मूलम् ।

एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसौ ।

एवमेव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेदसौ ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

एवम्, एव, कृतम्, येन, सः, कृतार्थः, भवेत्, असौ, एवम्,  
एव, स्वभावः, यः, सः, कृतार्थः, भवेत्, असौ ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
	येन=जिस पुरुष के	यः=जो	
एवम् एव=क्रिया-रहित		एवम् एव=ऐसा ही अर्थात् स्वतः ही	
स्वरूपम्=स्वरूप		स्वभावः=स्वभावयाखा है	
साधनवशात्=साधनों के वश से		सः असौ=सो वह	
कृतम्=क्रिया गया है		कृतार्थः=कृतकृत्य	
सः असौ=वह पुरुष भी		भवेत्=होता है	
कृतार्थः=कृतकृत्य		किंचित्त्व्यम्=इसमें कहना ही क्या है ॥	
भवेत्=होता है			

भावार्थः ।

जिस पुरुष ने इस प्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहित अपने स्वरूप को जान लिया है, वही कृतार्थ अर्थात् जीवन्मुक्त होता है ।

प्रश्न—जीवन्मुक्त का लक्षण क्या है ?

उत्तर—ग्रहैवाहमस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकर्मबंधवि-  
निर्मुक्तो जीवन्मुक्तः ।

अर्थात् 'मैं मल्ल है' इस प्रकार के अपरोक्ष-ज्ञान करके जो संपूर्ण कर्मों के बंधनों ने छूट गया है, वही जीवन्मुक्त है ।

## देहापातानन्तरं मुक्तिः विदेहमुक्तिः ।

शरीर के पात होने के अनन्तर जो मुक्ति है, उसका नाम विदेह-मुक्ति है । तात्पर्य यह है कि साधनों करके क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर और इंद्रियादिकों की क्रिया का त्याग किया है और आत्मानंद का अनुभव किया है, वही जीवन्मुक्त है ॥ ८ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां द्वादशं प्रकरणं समाप्तम् ।

## तेरहवाँ प्रकरण ।

—०—

मूलम् ।

अकिञ्चनभवं स्वास्थ्यं कौपीनत्वेऽपि दुर्लभम् ।  
त्यागादाने विहायास्माद्हमासे यथासुखम् ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

अकिञ्चनभवम्, स्वास्थ्यम्, कौपीनत्वे, अपि, दुर्लभम्, त्यागादाने,  
विहाय, अस्मात्, अहम्, आसे, यथासुखम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अकिञ्चनभवम् = { नहीं है कुछ  
ऐसे विचार से  
पैदा हुई

स्वास्थ्यम् = { जो चित्त की  
स्थिरता, सो

कौपीनत्वे = { कौपीन के धा-  
रण करने पर

अपि=भी

दुर्लभम्=दुर्लभ है

अस्मात्=इस कारण से

त्यागादाने = { त्याग और  
ग्रहण को

विहाय=छोड़ करके

अहम्=मे

यथासुखम्=सुख-पूर्वक

आसे=स्थित हैं ॥

भावार्थः ।

इस त्रयोदश प्रकरण में जीवन्मुक्त के फल का निरूपण करते हैं—

*Unguent*

संपूर्ण विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्त की स्थिरता हुई है, वह स्थिरता कौपीनमात्र में भी आसक्ति करने से नहीं होती है, ऐसी स्थिरता अति दुर्लभ है। इसी कारण से शिष्य कहता है कि पदार्थों के त्याग करने में और ग्रहण करने में जो आसक्ति है, उसको भी त्याग करके आत्मानन्द में स्थित हूँ ॥१॥

*Renunciation is not the acceptance presupposes equanimity*  
मूलम् । + absolute

कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते ।

मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम् ॥२॥

पदच्छेद ।

कुत्र, अपि, खेद, कायस्य, जिह्वा, कुत्र, अपि, खिद्यते, मन, कुत्र, अपि, तत्, त्यक्त्वा, पुरुषार्थे, स्थित, सुखम् ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

कुत्र अपि=कहीं तो

कायस्य=शरीर का

खेद =दुःख है

कुत्र अपि=कहीं

जिह्वा=वाणी

खिद्यते=दुःखी है

कुत्र अपि=कहीं

मन =मन

खिद्यते=खेद करता है

अत =इससे

तत्=तोनों को

त्यक्त्वा=त्याग करके

सुखम्=सुख पूर्वक

स्थित =स्थित हूँ ॥

भावार्थ ।

शारीरिक कर्मा में शरीर को खेद होता है, अर्थात् शरीर के जो काम चलना-फिरना, सोना-जागना, लेना देना, ग्रहण त्यागादिक हैं,

उनके करने में शरीर को ही खेद होता है, और वाणी के कर्म जो सत्य मिथ्या भाषणादिक हैं, उनके करने में जिह्वा का खेद होता है, और मन के कर्म जो संकल्प-विकल्पनादिक या ध्यान-धारणा-दिक हैं उनके करने में मन को खेद होता है, इसलिये शिष्य कहता है कि उन तीनों के कर्मों का त्याग करके मैं अपने आत्मानन्द में स्थित हूँ ॥ २ ॥ *My knos self is not from all this*

मूलम् ।

कृतं किमपि नैव स्यादिति संचिन्त्य तत्त्वतः ।

यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वाऽऽसे यथासुखम् ॥३॥

पदच्छेदः ।

कृतम्, किम्, अपि, न, एव, स्यात्, इति, संचिन्त्य, तत्त्वतः, यदा, यत्, कर्तुम्, आयाति, तत्, कृत्वा, आसे, यथासुखम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

कृतम् = { शरीर आदि क-  
रके किया हुआ  
कर्म

किमपि = कुछ भी

एव = वास्तव में

न आत्मकृतम् = { आरमा करके  
नहीं किया  
हुआ

स्यात् = होता है

इति = ऐसा

तत्त्वतः = यथा

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

संचिन्त्य = विचार करके

यदा = जब

यत् = जो कुछ कर्म

कर्तुम् = करने को

आयाति = आ पड़ता है

तत् = उसको

कृत्वा = करके

यथासुखम् = सुख-पूर्वक

आसे = मैं स्थित हूँ ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों के त्याग होने से शरीर का भी त्याग हो जायेगा, क्योंकि बिना कर्मों के भोजनादिक क्रिया का त्याग होगा और बिना भोजन के शरीर रहेगा नहीं ?

उत्तर—शरीर और इन्द्रियादिकों करके किया हुआ जो कर्म है, वह वास्तव में आत्मा करके किया हुआ नहीं होता है। ऐसे चिंतन करके विद्वान् को जब शरीरादिकों के खान-पानादिक कर्म करने पड़ते हैं, तब वह अहंकार से रहित होकर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख-स्वरूप में ही स्थित रहता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

कर्मनैष्कर्म्यनिर्वन्धभावा देहस्थयोगिनः ।

संयोगायोगविरहादहमासे यथासुखम् ॥ ४ ॥

पदच्छेद ।

कर्मनैष्कर्म्यनिर्वन्धभावा, देहस्थयोगिन, संयोगायोगविरहात्, अहम्, आसे, यथासुखम् ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

कर्मनैष्कर्म्यनि-  
र्वन्धभावा = { कर्म और नि-  
ष्कर्म के बधन  
से संयुक्त स्व-  
भाववाले

देहस्थयोगिन = { देह विषे आ-  
सक्त योगी हैं

अहम्=में

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

संयोगायोग-  
विरहात् = { देह के संयोग  
और वियोग के  
पृथक् होने के  
कारण

यथासुखम्=सुख-पूर्वक  
आसे=स्थित हूँ ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—कर्मों के करने में अथवा कर्मों के न करने में अर्थात् दोनों में से एक में ही निष्ठा हो सकती है, दोनों में निष्ठा कैसे हो सकती है ?

उत्तर—कर्म और निष्कर्म का हठरूप स्वभाव उसी को होता है, जिसकी देह में आसक्ति है, जिसकी देहादिकों में आसक्ति नहीं है, उसको हठ नहीं होता है । हे प्रभो ! मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हठ नहीं है । देह का संयोग बना रहे वा इसका वियोग हो जावे, मैं अहंकार और हठ से रहित अपने आत्मा विप्रे स्थित हूँ ॥ ४ ॥

मूलम् ।

अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा ।  
तिष्ठन् गच्छन् स्वपंस्तस्माद्दहमासे यथासुखम् ॥५॥

पदच्छेदः ।

अर्थानर्थो, न, मे, स्थित्या, गत्या, वा, शयनेन, वा, तिष्ठन्, गच्छन्, स्वपन्, तस्मात्, अहम्, आसे, यथासुखम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

मे=मुझको

स्थित्या=स्थिति से

गत्या=चलने से

वा=या

शयनेन=शयन से

अर्थानर्थो=अर्थ और अनर्थ

न=कुछ नहीं है

तस्मात्=इस कारण

अहम्=मैं

तिष्ठन्=स्थित होता हुआ

गच्छन्=जाता हुआ

स्वपन्=सोता हुआ

यथासुखम्=सुख-पूर्वक

आसे=स्थित हूँ ॥



भार्यार्थ ।

शिष्य कहता है कि हे गुरो । लौकिक व्यवहार जो चलना, फिरना, बैठना, उठना आदिक है, इसमें भी मेरी हानि तथा लाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी मैं अभिमान से रहित हूँ, चाहे मैं सोता रहूँ, बेठा रहूँ अथवा चलता-फिरता रहूँ, इन सब क्रियाओं में भी मैं अपने आत्मानन्द में एकरस ज्यों का त्यों स्थित रहता हूँ ॥ ५ ॥

मूलम् ।

स्वपतो नास्ति मे हानिः सिद्धिर्यत्नवतो न वा ।  
नाशोल्लासौ विहायास्मादहमासे यथासुखम् ॥ ६ ॥

पदच्छेद ।

स्वपत, न, अस्ति, मे, हानि, सिद्धि, यत्नवत, न, वा, नाशो-  
ल्लासा, विहाय, अस्मात्, अहम्, आसे, यथासुखम् ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

मे=मुझ

स्वपत = सोते हुए की

हानि = हानि

न अस्ति = नहीं है

वा = और

न = न

मे = मुझ

यत्नवत = यत्न करते हुए की

सिद्धि = सिद्धि है

अस्मात् = इस कारण

अहम् = मैं

नाशोल्लासौ = { हानि और  
लाभ को

विहाय = छोड़ करके

यथासुखम् = सुख-पूर्वक

आसे = स्थित हूँ ॥

भावार्थ ।

जनकजी कहते हैं कि यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता ही रहूँ, तब भी मेरी कोई हानि नहीं है और यत्नविशेष करने से मेरे को किसी फल-विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है, इसवास्ते मैं यत्न और अयत्न में भी हर्ष और शोक को त्याग करके सुख-पूर्वक स्थित हूँ । क्योंकि यत्न अयत्नादिक सब देह, इन्द्रियों के धर्म हैं, मुझ आत्मा के नहीं हैं ॥ ६ ॥

मूलम् ।

सुखादिरूपानियमं भावेष्वालोक्ष्य भूरिशः ।  
शुभाशुभे विहायास्मादहमासे यथासुखम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

सुखादिरूपानियमम्, भावेषु, आलोक्ष्य, भूरिशः, शुभाशुभे, विहाय, अस्मात्, अहम्, आसे, यथासुखम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अस्मात्=इसलिये  
भावेषु=बहुत जन्मों में  
सुखादिरूपा- { सुखादिरूप की  
नियमम् = { अनित्यता को  
भूरिशः=वारंवार  
आलोक्ष्य=देख करके

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

च=और  
शुभाशुभे= { शुभ और अ-  
                  { शुभ को  
विहाय=छोड़ करके  
यथासुखम्=सुख-पूर्वक  
आसे=रिगत हूँ ॥

## भावार्थ ।

जनकजी कहते हैं कि अनेक जन्मों में मनुष्य और पशु आदिकों के जितने भाव अर्थात् जन्म होते हैं, उनको जो सुख-दुःखादिक प्राप्त होते हैं, वे सब अनित्य हैं, ऐसा बहुत स्थलों में देखा जाता है, क्योंकि संसार में सब देहधारियों को दुःख-सुख बराबर बने रहते हैं। कोई भी ऐसा देहधारी संसार में नहीं है, जो सदैव सुखी रहे, किन्तु यत्किञ्चित् काल सुख और बहुत काल दुःख रहता है। प्रथम तो जन्मकाल का दुःख फिर बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के रोगादिकों करके जन्य दुःख होता है। युवावस्था में भोगों से जन्य रोगादिकों करके दुःख होता है। फिर स्त्री-पुत्रादिकों में मोह से दुःखों के समूह उत्पन्न होते हैं। फिर वृद्धावस्था तो दुःखों की खानि ही है। अनेक प्रकार के विषय-जन्य सुख-दुःखादिकों को अनित्य जानकर और उनके हेतु जो शुभाशुभ कर्म हैं, उनका त्याग करके अपने आत्मानन्द में स्थित हूँ ॥ ७ ॥

*Happiness & Sorrow are products of attachments & not of the eternal Self.*

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां त्रयोदशप्रकरणं समाप्तम् ।

## चौदहवाँ प्रकरण ।

—:०:—

मूलम् ।

प्रकृत्या शून्यचित्तो यः प्रमादान्नाव्रभावनः ।

निद्रितो बोधित इव क्षीणसंसरणो हि सः ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

प्रकृत्या, शून्यचित्तः, यः, प्रमादात्, भावभावनः, निद्रितः,  
बोधितः, इव, क्षीणसंसरणः, हि, सः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यः=जो पुरुष

प्रकृत्या=स्वभाव से

शून्यचित्तः=शून्य चित्तवाला है

+ च=पर

प्रमादात्=प्रमाद से

भावभावनः= { विषयों का सेवन  
करनेवाला है

+च=और

निद्रितः=सोता हुआ

बोधितःइव= { जागते हुए के  
तुल्य है ऐसा

सः=वह पुरुष

क्षीणसंसरणः= { संसार से रहित  
है ॥

भावार्थः ।

इस प्रकरण में जनकजी अपने शान्तिचतुष्टय को कहते हैं ।

जो पुरुष स्वभाव से विषयों में शून्य चित्तवाला है अर्थात् अपने स्वभाव से चित्त के धर्म जो विषयों में राग-द्वेष हैं, उनसे जो रहित

है और प्रारब्धकर्मों के वशीभूत होकर विषयों का चिन्तन भी करता है, और भोगता भी है, उसको हानि-लाभ कुछ नहीं है। इसी में दृष्टान्त को कहते हैं—

जैसे निद्रा के वश जो पुरुष शून्यचित्त होकर सो रहा है उसको किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कि तू इस काम को कर। वह जागकर उस काम को तो करता है, परन्तु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता है, किन्तु दूसरे पुरुष की प्रेरणा करके वह काम को करता है।

दार्ष्टान्त ।

इसी प्रकार जो पुरुष शान्तचित्त है, वह भी प्रारब्धवश से विषयों को भोगता है, अपनी इच्छा से नहीं भोगता है और जैसे कोई पुरुष अपने आनन्द में बैठा है, किसी सिपाही ने आकर उसको विगारी पकड़कर उसके सिर पर गठरी रखवाया और वह पुरुष गठरी को उठाकर ले जाता है। यदि न उठावे या कहीं धर देवे, तो सिपाही उसके कमची मारें। वह अपनी खुशी से उठाकर नहीं ले जाता है, किन्तु दूसरे की प्रेरणा से वह उठाकर लिये जाता है, वैसे ही ज्ञानवान् भी अपनी खुशी से तो विषय-भोगों को नहीं भोगता है, परन्तु प्रारब्धरूपी सिपाही की प्रेरणा करके भोगता है, इसलिये उसको हानि-लाभ कुछ भी नहीं है ॥ १ ॥

मूलम् ।

क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्यवः ।

क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानं यदा मे गलिता स्पृहा ॥२॥

पदच्छेदः ।

क, धनानि, क, मित्राणि, क, मे, विषयदस्यवः, क, शास्त्रम्, क,  
च, विज्ञानम्, यदा, मे, गलिता, स्पृहा ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदा=जब

मे=मेरी

स्पृहा=इच्छा

गलिता=गलित हो गई है

तदा=तब

मे=मेरे को

क=कहाँ

धनानि=धन हैं

क=कहाँ

मित्राणि=मित्र हैं

क=कहाँ

विषयदस्यवः=विषय-रूपी चरेर हैं

क=कहाँ

शास्त्रम्=शास्त्र है

च=और

क=कहाँ

विज्ञानम्=ज्ञान है ॥

भावार्थः ।

जनकजी कहते हैं कि विषयों की भावना से शून्य चित्तवाला मैं हूँ, मुझ पूर्णात्मदर्शी को जब विषय-भोगों की इच्छा नष्ट हो गई है, तब मेरा धन कहाँ है ? मेरे मित्र कहाँ हैं ? शास्त्र का अभ्यास कहाँ है ? और निदिध्यासनादिक कहाँ हैं ? मेरी तो किसी में भी आस्थाबुद्धि नहीं रही ॥ २ ॥

मूलम् ।

विज्ञाते साच्चिपुरुषे परमात्मनि चेश्वरे ।

॥ १ ॥

नैराश्ये बन्धमोक्षे च न चिन्ता मुक्तये मम ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

विज्ञाते, साक्षिपुरुषे, परमात्मनि, च, ईश्वरे, नैराश्ये, बन्धमोक्षे,  
च, न, चिन्ता, मुक्तये, मम ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
साक्षिपुरुषे=	{ 'त्वं' पद का अर्थ साक्षी पुरुष अर्थात् जीव है	नैराश्ये=	आशा-रहित
च=	और	बन्धमोक्षे=	{ बन्ध के मोक्ष होने पर
परमात्मनि=	{ तत्पद का अर्थ परमात्मा है	मम=	मुझको
ईश्वरे=	ईश्वर के	मुक्तये=	मुक्ति के लिये
विज्ञाते=	जानने पर	चिन्ता=	चिन्ता
		न=	नहीं है ॥

भावार्थः ।

देह और इन्द्रियों का साक्षी पुरुष जो 'त्वं' पद का अर्थ है, और तत्पद का अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है, इन दोनों के लक्ष्यार्थ चेतन को 'तत्त्वमसि' महावाक्य और भागत्यागलक्षणा करके साक्षात्कार करने से और बंध और मोक्ष में भी इच्छा के अभाव होने से मुक्ति के निमित्त भी विद्वान् को कोई चिन्ता बाकी नहीं रहती है ।

प्रश्न—महावाक्य का लक्षण क्या है ? और लक्षण का अर्थ क्या है ?

उत्तर—वेद में दो प्रकार के वाक्य हैं—एक अवान्तर्वाक्य हैं, दूसरे महावाक्य हैं, दोनों के लक्षण को दिखाते हैं—

स्वरूपबोधकं वाक्यमवान्तर्वाक्यम् ।

आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है, उसका नाम अवान्तर्वाक्य है । जैसे—

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ।

आत्मा ब्रह्मसद्रूप है, ज्ञान-स्वरूप है, अनन्त-स्वरूप है ।

यह वाक्य तो केवल आत्मा के स्वरूप को ही बोधन करता है, इसी वास्ते इसका नाम अवान्तर्वाक्य है ।

अभेदबोधकं वाक्यं महावाक्यम् ।

अभेद का बोधक जो वाक्य है, उसीका नाम महावाक्य है ।  
जैसे—

ब्रह्माहमस्मि ।

मैं ही ब्रह्म हूँ ।

अयमात्माब्रह्म ।

यह अपना आत्मा ही ब्रह्म है ।

तत्त्वमसि ।

तत्=वही अर्थात् ईश्वर । त्वं=तू अर्थात् जीव । असि=है, ये सब वाक्य जीव और ईश्वर की अभेदता को ही बोधन करते हैं, इसी से इनका नाम महावाक्य है ।

अब लक्षणा को दिखाते हैं—

पद के अर्थ का ज्ञान दो तरह से होता है । एक तो शक्तिवृत्ति करके होता है, जैसे किसी ने किसी से कहा “घटमानय” अर्थात् घट को लाओ । अब यहाँ पर ‘घट’-पद की शक्ति कम्बुप्रीवादिवाली व्यक्ति में है, अर्थात् घड़े में है और लानेवाले को भी उसका ज्ञान है कि घड़े के लाने को दूसरा पुरुष कहता है । वह ‘घटमानय’



शब्द को सुनकर तुरन्त घड़े को उठा लाता है। यहाँ पर तो शक्ति-वृत्ति करके पद के अर्थ का बोध होता है। और जहाँ पर शक्ति-वृत्ति करके बोध नहीं होता है, वहाँ पर लक्षणावृत्ति करके पद के अर्थ का बोध होता है, सो दिखाते हैं।

**शक्यसम्बन्धो हि लक्षणा ।**

शक्ति के आश्रय का नाम शक्य है, अर्थात् पद जिस अर्थ को बोधन करे, उस अर्थ का नाम शक्य है।

दृष्टान्त ।

किसी ने एक गुवाल से पूछा, तेरा मकान कहाँ है। उसने कहा—**गंगायां घोषः**। अर्थात् मेरा मकान गंगा में है।

अब यहाँ पर शक्तिवृत्ति करके तो अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि 'गंगा'-पद की शक्ति प्रवाह में है, अर्थात् 'गंगा'-पद का अर्थ जल का प्रवाह है। उस प्रवाह में मकान का होना असंभव है, इसवास्ते यहाँ पर जो लक्षणा करके अर्थ का बोध होता है, उसको दिखाते हैं—'गंगा'-पद का शक्य प्रवाह है, उसका सम्बन्ध तीर के साथ है, इसवास्ते गंगा के तीर पर इसका ग्राम है—'**गंगायां घोषः**।' इस पद से ऐसा बोध होता है। और तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा में बीज है। जिस अर्थ में वक्ता के तात्पर्य की असिद्धि हो, वहाँ पर ही लक्षणा होती है। '**गंगायां घोषः**।' यहाँ पर गंगा के प्रवाह में मेरा ग्राम है, ऐसा वक्ता का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है, इसी वास्ते—'**गंगायां घोषः**।' में लक्षणा होती है।

अब लक्षणा के भेद को दिखाते हैं—

लक्षणा तीन प्रकार की है—एक जहल्लक्षणा, दूसरी अजहल्लक्षणा, तीसरी जहदजहल्लक्षणा।

वाच्यार्थमशेषतया परित्यज्य तत्सम्बन्धिन्यर्थान्तरे वृत्तिर्ज-  
हल्लक्षणा ।

जहाँ पर वाच्यार्थ का समग्ररूप से त्याग करके तत्सम्बन्धी  
अर्थान्तर में वृत्ति हो, वहाँ पर जहल्लक्षणा होती है । जैसे—गंगायां  
घोषः । यहाँ पर गंगा पद का वाच्यार्थ जो प्रवाह है, उसका  
समग्ररूप से त्याग करके उसके साथ सम्बन्धवाला जो तीर है, उस  
तीर में गंगा पद की लक्षणा होती है, अर्थात् गंगा के तीर पर  
इसका ग्राम है । घोष नाम अहीरों के ग्राम का है ।

वाच्यार्थापरित्यागेन तत्सम्बन्धिन्यर्थान्तरे वृत्तिरज-  
हल्लक्षणा ।

जहाँ पर वाच्यार्थ का त्याग न करके उसके सम्बन्धवाले का भी  
ग्रहण हो, वहाँ पर अजहल्लक्षणा होती है ।

किसी के गृह में दण्डी संन्यासियों का निमन्त्रण था । वहाँ पर  
जाकर दण्डी लोग बाहर बैठे । जब भोजन तैयार हुआ, तब मालिक  
ने अपने नौकर से कहा कि—यष्टी प्रवेशय । अर्थात् लाठी का  
भीतर प्रवेश कराओ ।

अब यहाँ पर लाठी का भीतर प्रवेश तो बन सकता है, परन्तु  
उसमें वक्ता का तात्पर्य नहीं है, किन्तु यष्टिधर के प्रवेश कराने में  
वक्ता का तात्पर्य है, इस वास्ते 'यष्टी'-पद का वाच्यार्थ यष्टि है,  
उसका त्याग न करके उसके साथ सम्बन्धवाला जो पुरुष है, उस  
पुरुष में जो लक्षणा करनी है, इसी का नाम अजहल्लक्षणा है ।

वाच्यार्थैकदेशपरित्यागे नैकदेशवृत्तिर्जहदजहल्लक्षणा ।

अर्थात् वाच्यार्थ के एकदेश को त्याग करके एकदेश का ग्रहण करना  
जो है, इसी का नाम जहत् अजहत् लक्षणा है जैसे—'तच्चमसि' ।

यहाँ पर 'तत्' पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञत्वादिक गुणों करके युक्त ईश्वर चेतन है, और 'त्वं' पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञत्वादिक गुणों करके युक्त जीव चेतन है। 'तत्' वह सर्वज्ञत्वादि गुणवाला ईश्वर 'त्वं' तू अल्पज्ञत्वादि गुणवाला जीव, ये जो दोनों पदों के वाक्यार्थ हैं, इनका अभेद नहीं हो सकता है, पर दोनों का लक्ष्यार्थ जो गुणों से रहित केवल चेतन है, उसी का अभेद हो सकता है, सो अभेद जहद् अजहद् अर्थात् भागत्यागलक्षणा करके ही होता है। तत्पद के वाच्यार्थ का जो एकदेश सर्वज्ञत्वादिक गुण हैं, उनके त्याग करने से, और त्वं पद के वाच्यार्थ का जो एकदेश अल्पज्ञत्वादिक गुण है उनके भी त्याग करने से, दोनों पदों विषे एक जो लक्ष्यार्थचेतन स्थित है, उसके ग्रहण करने से दोनों का अर्थात् ईश्वर और जीव का अभेद केवल चेतन में होता है, सो जिस विद्वान् ने महावाक्यों करके और भागत्यागलक्षणा करके जीव-ईश्वर की अभेदता को जान लिया है, वही मुक्त है, उसको मुक्ति की कोई चिन्ता नहीं है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

अन्तर्विकल्पशून्यस्य बहिः स्वच्छन्दचारिणः ।  
भ्रान्तस्येव दशास्तास्तादृशा एव जानते ॥४॥

पदच्छेदः ।

अन्तर्विकल्पशून्यस्य, बहिः, स्वच्छन्दचारिणः, भ्रान्तस्य, इव, दशाः, ताः, ताः, तादृशाः, एव, जानते ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
अन्तर्विकल्प- शून्यस्य	= { जो अन्तःकरण में विकल्प से शून्य है	स्वच्छन्द- चारिणः	= { स्वतंत्र की
च=और ( जो )		ताः ताः=उन उन	
वहिः=बाहर		दशाः=दशाओं को	
अन्तस्य इव= { अन्त हुए पुरुष की नाई है, ऐसे		तादृशाः एव= { वैसे ही दशावाले पुरुष	
		जानते=जानते हैं ॥	

भावार्थ ।

जिस पुरुष का अन्त करण विकल्प अर्थात् सकल्प से रहित है, अर्थात् जिसको कोई भी विषय-वासना भीतर से नहीं फुरती है, और बाहर से जो उन्मत्त की तरह स्वेच्छापूर्वक विहार करता है, वही ज्ञानी है । उसको ज्ञानी पुरुष ही जानता है, दूसरा अज्ञानी पुरुष नहीं जान सकता है ॥ ४ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीताया चतुर्दशप्रकरणं समाप्तम् ।

।

—————

## पन्द्रहवाँ प्रकरण ।

मूलम् ।

यथातथोपदेशेन कृतार्थः सत्त्वबुद्धिमान् ।

आजीवमपि जिज्ञासुः परस्तत्र विमुह्यति ॥ १ ॥

पदच्छेद ।

यथातथोपदेशेन, कृतार्थ, सत्त्वबुद्धिमान्, आजीवम्, अपि, जिज्ञासु, पर, तत्र, विमुह्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

सत्त्वबुद्धिमान् = { सत्त्वबुद्धिवाला  
पुरुष

यथातथोपदेशेन = { जैसे तैसे याने  
योद्दे ही उप-  
देश से

कृतार्थ = कृतार्थ

भवति = होता है

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

पर = { असत् बुद्धिवाला  
पुरुष

आजीवम् = जावनपर्यन्त

जिज्ञासु अपि = { जिज्ञासु होता  
हुआ भी

तत्र = उसमें

विमुह्यति = { मोह को प्राप्त  
होता है ॥

भारार्थ ।

अब तत्त्वोपदेशविंशतिक नामक पशुदश प्रकरण का आरम्भ करते हैं—

अष्टावक्रजी जनकजी की ज्ञानस्थिति के लिये पुनः-पुनः उपदेश करते हैं । क्योंकि 'ब्रह्मसिद्धि' में श्वेतकेतु के प्रति, श्वेतकेतु के पिता ने नव बार आत्मतत्त्व का उपदेश किया है ।

प्रथम ज्ञान के अधिकारी और अनधिकारी को दिखाते हैं—

उत्तम बुद्धिमान् शिष्य सामान्य उपदेश करके आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है अर्थात् कृतार्थ हो जाता है । सतयुग में केवल ओंकार के उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थ हो गये हैं और निरुद्ध बुद्धिवाला शिष्य मरणपर्यन्त उपदेश को सुनता रहता है, पर उसको यथार्थ बोध नहीं होता है । जैसे विरोचन को ब्रह्मा ने अनेक बार उपदेश किया, तो भी वह बोध को न प्राप्त हुआ ।

संसार में तीन प्रकार के अधिकारी हैं । एक तो उत्तम अधिकारी है, जिसको एक बार गुरु के मुख से महावाक्य के श्रवण करने से बोध हो जाता है । दूसरा मध्यम अधिकारी है, जिसको बारवार श्रवण, मननादिकों के करने से बोध होता है । तीसरा निरुद्ध अधिकारी है, जो चिरकाल तक शास्त्रों का श्रवण और उपासना आदिकों को करके बोध को प्राप्त होता है ।

मोक्ष के अधिकारियों को दिखलाते हैं—

शान्तो दान्तः क्षमी शूरः सर्वेन्द्रियसमन्वितः ।

अशक्तो ब्रह्मज्ञानेच्छुः सदा साधुसमागमः ॥ १ ॥

साधुबुद्धिः सदाचारी यो भेदः सर्वदैवते ।

आशापाशविनिर्मुक्तस्त्वेते मोक्षाधिकारिणः ॥ २ ॥

जो शान्तचित्त है, जो इन्द्रियों को दमन करनेवाला है, परंतु संपूर्ण इन्द्रियों करके युक्त है, जो पदार्थों में आसक्ति से रहित है, जो ब्रह्मज्ञान की इच्छावाला होकर सदैव महात्माओं का संग करता

है, जो सुन्दर बुद्धिवाला और श्रेष्ठाचारवाला है, जो संपूर्ण देवताओं में एक ही चेतन को जानता है, जो विषयों के आशा-रूपी पाश से रहित है, वह मोक्ष का अधिकारी है। जिसमें ऊपर कहे हुए गुणों में से कोई भी गुण नहीं घटता है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है ॥ १ ॥

मलम् ।

मोक्षो विषयवैरस्यं बन्धो वैषयिको रसः ।

एतावदेव विज्ञानं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

मोक्षः, विषयवैरस्यम्, बन्धः, वैषयिकः, रसः, एतावत्, एव, विज्ञानम्, यथा, इच्छसि, तथा, कुरु ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
विषयवैरस्यम्=विषयों से वैराग्य		एतावत् एव=इतना ही	
मोक्षः=मोक्ष है		विज्ञानम्=ज्ञान है	
वैषयिकः=विषय-सम्बन्धी		यथा इच्छसि=जैसा चाहे	
* रसः=रस		तथा=वैसा	
बन्धः=बन्ध है		कुरु=( त् ) कर ॥	

भावार्थः ।

अब बंध और मोक्ष के उपाय को संक्षेप से निरूपण करते हैं—  
विषयों में जो अनुराग है, वही बंध है और विषयों में जो अनुराग का त्याग है, वही मोक्ष है। ऐसा कहा भी है—

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बंधाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषये स्मृतम् ॥ १ ॥

मनुष्यों का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है । विषयों में जब मन आसक्त हो जाता है, तब वह मन बंध का हेतु होता है । जब विषयों की आसक्ति से रहित होता है, तब वही मन मुक्ति का हेतु होता है ॥ १ ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं कि इं जनक । इतना ही बंध-मोक्ष का विशेष ज्ञान है । इसको तुम भली प्रकार जानकर जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसा तुम करो ॥ २ ॥

मूलम् ।

वाग्मिप्राज्ञमहोद्योगं जनं मूकजडालसम् ।

करोति तत्त्वबोधोऽयमतस्त्यक्तो बुभुक्षुभिः ॥३॥

पदच्छेदः ।

वाग्मिप्राज्ञमहोद्योगम्, जनम्, मूकजडालसम्, करोति, तत्त्वबोधः, अयम्, अतः, त्यक्तः, बुभुक्षुभिः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अयम्=यह

करोति=करता है

तत्त्वबोधः=तत्त्वज्ञान

अतः=इसी कारण

वाग्मिप्राज्ञम-  
होद्योगम् = { अत्यन्त धोखने-  
वाले पण्डित  
महाउद्योगी

बुभुक्षुभिः = { भोगभिलाषी  
पुरुषों करके

जनम्=पुरुष को

अयम्=यह

मूकजडालसम् = { गुं गा, जड़ और  
आसक्त

त्यक्तः = { त्याग किया  
गया है ॥



भावार्थ ।

हे प्रियदर्शन ! तत्त्वज्ञान के सिवा किसी अन्य उपाय से विषया-सक्ति का नाश नहीं होता है । यह जो आत्मबोध है, वह बहुत बोलचालवाले चतुर को मूक कर देता है, और जो बड़ा बुद्धिमान् अनेक प्रकार के ज्ञान करके युक्त हो, उसको जड़ बना देता है, और बड़े उद्योगी को क्रिया से रहित आलसी बना देता है । मन का अंतर आत्मा की तरफ प्रवाह होने से सब इन्द्रियाँ ढीली हो जाती हैं अर्थात् अपने-अपने विषयों के ग्रहण करने में अस्मर्य हो जाती हैं । यह तत्त्वबोधवाक्यादिक संपूर्ण इन्द्रियों को ब्रेकाम कर देता है । इसीवास्ते विषय-भोगों की कामनावाला पुरुष इसका आदर नहीं करता है, किन्तु आत्मज्ञान के साधनों से हजारों कोस भागता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान्  
चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखं चर ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

न, त्वम्, देहः, न, ते, देहः, भोक्ता, कर्ता, न, वा, भवान्,  
चिद्रूपः, असि, सदा, साक्षी, निरपेक्षः, सुखम्, चर ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

त्वम्=त्

देहः=शरीर

न=नहीं है

न=न

ते=तेरा

देहः=शरीर है

वा=और

भवान्=तू

भोक्ता=भोक्ता  
न=नहीं है  
चिद्रूपः=चैतन्य-रूप है  
सदा=नित्य

साक्षी=साक्षी है  
निरपेक्षः=इच्छा-रहित  
सुखम्=सुख-पूर्वक  
चर=विचर ॥

भावार्थ ।

तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति के लिये अष्टावक्रजी फिर उपदेश करते हैं ।  
हे जनक ! तुम पंचभूतात्मक देह नहीं हो, क्योंकि देह जड़ है  
और अनित्य है, तुम निर्णय हो, चैतन्य-स्वरूप हो, तुम्हारा देह के  
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

असंगोऽद्यं पुरुष इति श्रुतेः ।

यह पुरुष अर्थात् जीवात्मा असंग है, देहादिकों के साथ संबन्ध  
से रहित है । इसी श्रुतिप्रमाण से तुम संयोगादिक सम्बन्धों से रहित  
हो और तुम कर्ता भोक्ता भी नहीं हो, क्योंकि कर्तापना और भाक्ता-  
पना ये दोनों अन्तःकरण के धर्म हैं । तुम उन दोनों के भी साक्षी  
हो और ऐसा नियम भी है जो जिसका साक्षी होता है, वह उससे  
भिन्न होता है । जैसे घट का साक्षी घट से भिन्न है वैसे कर्ता भोक्ता  
जो अन्तःकरण है, उनका साक्षी भी उनसे भिन्न है । इसमें दृष्टांत  
को कहते हैं ।

जैसे नृत्यशाला में स्थित दीपक शाला के स्वामी को, सभावालों  
को और नर्तकी को तुल्य ही प्रकाश करता है । यह शरीर तो  
नृत्यशाला है, अहंकार उसमें सभापति है और विषय सब सम्य हैं,  
याने सभा में बैठनेवाले हैं, और बुद्धि उसमें नर्तकी है, याने नाचने-  
वाली बेरया है, इन्द्रियगण सब ताल बजानेवाले हैं, चेतन आत्मा

साक्षी सबका प्रकाशक है। जैसे दीपक अपने स्थान में स्थित होकर सबको प्रकाश करता है, वैसे चेतन भी अचल स्थित साक्षी-रूप होकर सबको प्रकाश करता है।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! देह में जो इन्द्रिय और अहंकारादिक हैं, उनको तू अपने को साक्षी मानकर सुख-पूर्वक विचर ॥ ४ ॥

मूलम् ।

रागद्वेषौ मनोधर्मौ न मनस्ते कदाचन ।

निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा निर्विकारः सुखं चर ॥५॥

पदच्छेदः ।

रागद्वेषौ, मनोधर्मौ, न, मनः, ते, कदाचन, निर्विकल्पः, असि बोधात्मा, निर्विकारः, सुखम्, चर ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

रागद्वेषौ=राग और द्वेष

मनोधर्मौ=मन के धर्म हैं

न ते=तेरे नहीं हैं

मनः=मन

कदाचन=कभी

न=नहीं

ते=तेरा है

+त्वम्=तू

निर्विकल्पः=विकल्प-रहित

निर्विकारः=विकार-रहित

बोधात्मा=बोधस्वरूप

असि=हैं ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! रागद्वेषादिक सब मन के धर्म हैं, तू आत्मा के धर्म नहीं है। अन्यत्र भी कहा है—

शत्रुमित्रमुदासीनो भेदाः सर्वे मनोगताः ।

एकात्मत्वे कथं भेदः संभवेद्द्वैतदर्शनात् ॥ १ ॥

यह शत्रु है, यह मित्र है । शत्रु से द्वेष, मित्र से राग और उदासीनता ये सब मन के ही धर्म हैं । द्वैतदर्शी की दृष्टि में भेद कहाँ हो सकता है, द्वैतदर्शन से ही भेद होता है ॥ १ ॥

हे जनक ! मन का संबंध कदापि तेरे साथ नहीं है, मन के अध्यास से तुम रागादिकों में अध्यास मत करो ।

प्रश्न—रागद्वेष भी मुझ आत्मा ही के धर्म क्यों न हों ?

उत्तर—रागद्वेषादिक तुम्हारे धर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम ज्ञान-स्वरूप हो । यदि यह कहा जाय कि रागद्वेषादिक आत्मा के ही धर्म हैं, तो वे आत्मा के स्वभाविक धर्म हैं, या आगन्तुक धर्म हैं, या आध्यासिक धर्म हैं ।

वे स्वाभाविक धर्म तो हो नहीं सकते, क्योंकि श्रुतियों में और स्मृतियों में आत्मा को निर्धर्मक लिखा है—

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसन्नित्यमगन्धवच्चयत् ।

अनाद्यनन्तं महत्तः परं ध्रुवं निचारय तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥१॥

आत्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रसादिकों से रहित है, नाश से, गंध से भी रहित है, नित्य है, न उसका आदि है और न उसका अन्त है, महत्तत्त्व से परे है, ऐसे आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है ॥ १ ॥

इस तरह की अनेक श्रुतियाँ आत्मा को निर्धर्मिक बताती हैं—

शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा न वै बध्येत कर्हिचित् ।

बन्धमोक्षौ मनः संस्थौ तस्मिञ्छान्ते प्रशाम्यति ॥ १ ॥

आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, बंध से रहित है । बंध मोक्षादिक धर्म

सब मन में ही स्थित रहते हैं। गन के शान्त होने से सब शान्त हो जाते हैं। इस तरह की अनेक स्मृतियाँ भी आत्मा को रागद्वेषादिकों से रहित बताती हैं ॥ १ ॥

यदि रागद्वेषादिक आत्मा के स्वाभाविक धर्म माने जावें, तब मोक्ष किसी को कदापि नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक धर्म की निवृत्ति किसी उपाय से भी नहीं होती है, केवल आध्यासिक धर्म उपाय से नाश होता है। आध्यासिक धर्म एक के सम्बन्ध से दूसरे में प्रतीत होने लगता है। सम्बन्ध के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है, जैसे बिल्लौर पत्थर के समीप लाल पुष्प के रखने से उसमें लाल रंग, जो किपुष्प का धर्म है, प्रतीत होने लगता है और जब पुष्प दूर कर दिया जाता है, तो लाल रंग, जो उस पत्थर में दिखाई देता था, लोप हो जाता है। आत्मा में अन्तःकरण के धर्म रागद्वेषादिक आध्यासिक हैं, स्वाभाविक नहीं हैं। इसलिये वे दूर हो सकते हैं ॥ ५ ॥

✓ मूलम् ।

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।  
विज्ञाय निरहंकारो निर्ममत्वं सुखी भव ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

सर्वभूतेषु, च, आत्मानम्, सर्वभूतानि, च, चात्मनि, विज्ञाय, निरहंकारः, निर्ममः, त्वम्, सुखी, भव ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

सर्वभूतेषु=सब भूतों में  
आत्मानम्=आत्मा को  
च=और  
सर्वभूतानि=सब भूतों को  
आत्मनि=आत्मा में  
विज्ञाय=जान करके

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

निरहंकारः=अहंकार-रहित  
च=और  
निर्ममः=ममता-रहित  
त्वम्=तू  
सुखी=सुखी  
भव=हो ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! ब्रह्मा से लेकर चौंटी पर्यंत संपूर्ण भूतों में कारण-रूप करके अनुस्यूत एक ही आत्मा को जान-कार, और संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में अच्युत अर्थात् कल्पित मान करके अहंकार और ममता से रहित होकर तू सुख-पूर्वक विचर ॥ ६ ॥

मूलम् ।

विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे ।

तत्त्वमेव न संदेहश्चिन्मृते विज्वरो भव ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

विश्वम्, स्फुरति, यत्र, इदम्, तरंगाः, इव, सागरे, तत्, त्वम्, एव, न, संदेहः, चिन्मृते, विज्वरः, भव ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यत्र=जिस स्थान में  
इदम्=यह  
विश्वम्=संसार

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तरंगा इव } = समुद्र विषे तरंगों  
सागरे } = की तरह  
स्फुरति=स्फुरण होता है

तत्=सो  
त्वम् एव=तू ही है  
न संदेहः=इसमें संदेह नहीं

चिन्मूर्तेः=हे चैतन्य-रूप  
विज्वर=संताप-रहित  
भव=हो ॥

भावाथ ।

हे जनक ! जिस अधिष्ठान चेतन में यह सारा जगत् समुद्र में तरंग की तरह अभिन्न स्फुरण हो रहा है, वही चेतन तुम्हारा आत्मा है, इसवास्ते हे जनक ! तुम विगतज्वर होकर ऐसा अनुभव करो कि मैं चैतन्य-स्वरूप हूँ और संतापों से रहित हूँ ॥ ७ ॥

मूलम् ।

श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व नात्र मोहं कुरुष्व भोः ।  
ज्ञानस्वरूपो भगवानात्मा त्वं प्रकृतेः परः ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

श्रद्धत्स्व, तात, श्रद्धत्स्व, न, अत्र, मोहम्, कुरुष्व, भोः, ज्ञान-स्वरूपः, भगवान्, आत्मा, त्वम्, प्रकृतेः, परः ॥

अन्वयः । शब्दार्थः । अन्वयः । शब्दार्थः ।

तात=हे सौम्य !

भोः=हे प्रिय

श्रद्धत्स्व } =श्रद्धा कर श्रद्धा कर  
श्रद्धत्स्व }

अत्र=इसमें

मोहम्=मोह

न कुरुष्व=मत्त कर

त्वम्=तू

ज्ञानस्वरूपः=ज्ञान-रूप

भगवान्=ईश्वर

आत्मा=परमात्मा

प्रकृतेः=प्रकृति से

परः=परे है ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे तात ! आत्मा की चिद्रूपता में असं-  
भावना और विपरीतभावना-रूपी मोह को मत प्राप्त हो, क्योंकि  
आत्मा ज्ञान-स्वरूप है और प्रकृति से भी परे है ।

प्रश्न—चित्-पद का क्या अर्थ है ? और ज्ञान-पद का क्या  
अर्थ है ?

उत्तर—साधनान्तरनैरपेक्ष्येण स्वयं प्रकाशमानतया इतर-  
पदार्थावभासकं यत् तच्चित् ।

जो अपने से भिन्न किसी और साधन की अपेक्षा न करके अपने  
प्रकाश से इतर पदार्थों को प्रकाश करे, उसी का नाम चित्त है ।

अज्ञाननाशकरत्वे सति स्वात्मबोधकत्वं ज्ञानम् ।

जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित  
करे, उसका नाम आत्मा-ज्ञान है ।

अर्थप्रकाशो हि ज्ञानम् ।

जो पदार्थ को प्रकाशित करे उसी का नाम ज्ञान है, सोई आत्मा  
चेतन-रूप ज्ञान-स्वरूप है ।

अब जड़ और चेतन के भेद को सुगम रीति से दिखलाते हैं—

जो अपने को जाने और अपने से भिन्न भी सब पदार्थों को जाने,  
वही चेतन कहलाता है और जो अपने को न जाने और अपने  
से भिन्न भी किसी पदार्थ को न जाने, वह जड़ कहलाता है, सां  
आत्मा चेतन है । क्योंकि अपने को जानता है और अपने से भिन्न  
सम्पूर्ण घट-पटादिक जड़ पदार्थों को भी जानता है, इसी से आत्मा  
चेतन है और आत्मा से भिन्न संपूर्ण घट-पटादिक पदार्थ जड़ हैं ।



घट-पटादिक अपने को नहीं जानते हैं और अपने से भिन्न आत्मा को भी नहीं जानते हैं। इसी से वे सब जड़ हैं। हे शिष्य ! तुम ज्ञान और चैतन्य-स्वरूप हो ॥ ८ ॥

मूलम् ।

गुणैः संवेष्टितो देहस्तिष्ठत्यायाति याति च ।

आत्मा न गन्ता नागन्ता किमेनमनुशोचसि ॥६॥

पदच्छेद ।

गुणैः, संवेष्टितः, देहः, तिष्ठति, आयाति, याति, च, आत्मा, न, गन्ता, न, आगन्ता, किम्, एनम्, अनुशोचसि ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

गुणैः=गुणों से

संवेष्टितः=लिपटा हुआ

देहः=शरीर

तिष्ठति=स्थित है

+स =वह

आयाति=आता है

च=और

याति=जाता है

आत्मा=जीवात्मा

न=न

गन्ता=जानेवाला है

न=न

आगन्ता=आनेवाला है

किम्=किस वारते

एनम्=इसके निमित्त

अनुशोचसि=तू सोचता है ॥

भावार्थ ।

हे शिष्य ! इन्द्रियादिकों करके संवेष्टित होकर यह लिंग-शरीर इस लोक में स्थित रहता है। फिर कुछ काल के बाद लोकान्तर को चला जाता है। फिर वहाँ से चला आता है। आत्मा न लोकान्तर को, न देशान्तर को जाता है, न वहाँ से आता है और न

स्थूल शरीर जन्म लेता और मरता है। उसके धर्मों को आत्मा में मानकर तू सोच करने के योग्य नहीं है। क्योंकि वह तेरे विषे अव्यस्त है। अव्यस्त वस्तु के नाश होने से तुम्ह अधिष्ठान का नाश नहीं हो सकता है।

**प्रश्न**—आपने कहा है कि आत्मा लोकान्तर को नहीं जाता, किंतु लिङ्ग-शरीर ही लोकान्तर और देशान्तर को जाता है, सो बिना आत्मा के लिङ्ग-शरीर का गमनागमन नहीं बन सकता है ? **लिंग-शरीर** जड़ है उसमें सुख-दुःख का भोगना भी नहीं हो सकता ?

**उत्तर**—गमनागमन परिच्छिन्न वस्तु में होता है, व्यापक में नहीं होता है। लिंग-शरीर परिच्छिन्न है इसनास्ते इसी का गमनागमन होता है। आत्मा व्यापक है उसका गमनागमन नहीं हो सकता है। जैसे जल से भरे हुए घट का देशान्तर में ले जाना हो सकता है, व्यापक आकाश का नहीं, क्योंकि आकाश तो सब जगह मौजूद है। जहाँ पर घट जायेगा वहाँ पर आकाश का प्रतिबिम्ब उममें पड़ेगा। वैसे ही जहाँ जहाँ लिंग-शरीर जाता है, वहाँ वहाँ उसमें आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है। उस चेतन के प्रतिबिम्ब करके युक्त अन्तःकरण सुख दुःखादिकों का भोक्ता और कर्ता भी कहा जाता है। उसमें ज्ञान-शक्ति और इच्छा-शक्ति भी हो जाती है। उसी अन्तःकरण प्रतिबिम्बित चेतन का नाम ही जीव हो जाता है।

जीव का लक्षण पञ्चदशीकार ने ऐसा किया है कि लिंग शरीर, उसमें चेतन का प्रतिबिम्ब और उसका आश्रय अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम जीव है। माया और माया में प्रतिबिम्ब, और माया का अधिष्ठान चेतन तीनों का नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर का भेद उपाधियों करके है, वास्तव में भेद नहीं है। जैसे घटाकाश और

मठाकाश का उपाधि-कृत भेद है, वैसे जीव और ईश्वर का भी उपाधि-कृत भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। उपाधियाँ कल्पित हैं अर्थात् मिथ्या हैं। चेतन नित्य है, सोई चेतन तुम्हारा रूप आप है, ऐसा जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो ॥ ६ ॥

मूलम् ।

देहस्तिष्ठतु कल्पान्तं गच्छत्वद्यैव वा पुनः ।

क वृद्धिः क च वा हानिस्तव चिन्मात्ररूपिणः १० ॥

पदच्छेदः ।

देहः, तिष्ठतु, कल्पान्तम्, गच्छतु, अथ, एव, वा, पुनः, क, वृद्धिः, क, च, वा, हानिः, तव, चिन्मात्ररूपिणः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

पुनः=चाहे

देहः=शरीर

कल्पान्तम्=कल्प के अन्त तक

तिष्ठतु=स्थिर रहे

वा=चाहे

अथएव=अभी

गच्छतु=नाश हो

तव=तुम्हें

चिन्मात्र-  
रूपिणः = { चैतन्य रूपवाले  
का

क=फहाँ

वृद्धिः=वृद्धि है

च=और

क=फहाँ

हानिः=हानि है ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! द्रष्टा द्रव्य से पृथक् होता है, यह नियम है। देह द्रव्य है, तुम द्रष्टा हो। देह के साथ तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है। चाहे यह तुम्हारा स्थूल देह

कल्प पर्यंत स्थिर रहे, चाहे अभी गिर जाय । देह के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है और देह के गिर जाने से तुम्हारा नाश नहीं है । देह की वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि नहीं, क्योंकि देह से तुम परे हो । देह मिथ्या है, तुम सत्य हो, देह को भी तुम सत्ता स्फूर्ति देनेवाले हो । देह के भी तुम साक्षी हो, ऐसा निश्चय करके तुम जीवन्मुक्त होकर विचरो ॥ १० ॥

पूलम् ।

त्वय्यनन्तमहाम्भोधौ विश्ववीचिः स्वभावतः ।  
उदेतु वास्तमायातु न ते वृद्धिर्न वा क्षतिः ॥ ११ ॥  
पदच्छेदः ।

त्वयि, अनन्तमहाम्भोधौ, विश्ववीचिः, स्वभावतः, उदेतु, वा, अस्तम्, आयातु, न, ते, वृद्धिः, न, वा, क्षतिः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

त्वयि=तुम

अनन्तमहाम्भोधौ= { अपार महा-  
समुद्र विषे

विश्ववीचिः=विश्व-रूप तरंग

स्वभावतः=स्वभाव से

उदेतु=उदय होते हैं

वा=और

अस्तम्=अस्त को

आयातु=प्राप्त होते हैं

परन्तु=परन्तु

ते=तेरी ।

वृद्धिः=न=न वृद्धि है

वा=और

न क्षतिः=न नाश है ॥

भावार्थ ।

हे जनक ! तुम्हारा स्वरूप अनन्त चिन्मात्र-रूपी समुद्र है । उसमें अविद्या और कामुक कर्मों से यह विश्व-रूपी लहरी उत्पन्न हुई है ।

तुम्हारे स्वरूप में यह विश्व-रूपी लहरी उदय हो, अथवा अस्त हो, तुम्हारी कोई हानि-लाभ नहीं है, क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन हो, अधिष्ठान को उसी विषे कल्पित वस्तु हानि नहीं कर सकती है। जो कभी हुई ही नहीं है, वह दूसरे को क्या हानि कर सकती है ॥ ११ ॥

मूलम् ।

तात चिन्मात्ररूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत् ।

अतः कस्य कथं कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

तात, चिन्मात्ररूपः, असि, न, ते, भिन्नम्, इदम्, जगत्, अतः, कस्य, कथम्, कुत्र, हेयोपादेयकल्पना ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तात=हे तात !

चिन्मात्ररूपः=चैतन्य-रूप

असि=तू है

ते=तेरा

इदम्=यह

जगत्=जगत्

भिन्नम्=तुझसे भिन्न

न=नहीं है

अतः=इसलिये

कस्य=किसकी

कथम्=क्योंकर

च=और

कुत्र=कहाँ

हेयोपादेयकल्पना= { त्याग्यऔर ग्राह्य की कल्पना है ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे तात ! तुम चैतन्यस्वरूप हो। तुम्हारे में हैय और उपादेय अर्थात् त्याग और ग्रहण किसी वस्तु का भी नहीं बनता है, क्योंकि तुम्हारे से भिन्न यह जगत् नहीं है। कल्पित

वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है । उसका हेय और उपादेय कैसे हो सकता है ॥ १२ ॥

मलम् ।

एकस्मिन्नव्यये शान्ते चिदाकाशेऽमले त्वयि ।

कुतो जन्म कुतः कर्म कुतोऽहंकार एव च ॥१३॥

पदच्छेद ।

एकस्मिन्, अव्यये, शान्ते, चिदाकाशे, अमले, त्वयि, कुत, जन्म, कुतः, कर्म, कुतः, अहंकार, एव, च ॥

अन्वयः । शब्दार्थः । अन्वयः । शब्दार्थः ।

एकस्मिन्=तुम्ह एक

अमले=निर्मल

अव्यये=अविनाशी

शान्ते=शान्त

चिदाकाशे= { चैतन्य-रूप  
आकाश में

जन्म कुतः=जन्म कहाँ है

कर्म कुतः=कर्म कहाँ है

च एव=और

अहंकारः कुतः= { अहंकार कहाँ  
से है ॥

महात्म्य - 3-4 space

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

भावार्थः ।

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

महात्म्य - 1-2 space

हे जनक ! सजातीय और विजातीय स्वगत-भेद से शून्य, नाश और विकार से रहित, चिदाकाश निर्मल तुम्हारे स्वरूप में न जन्म है, न मरण है. न कोई कर्म है; न अहंकार है. ये सब द्वैत में ही होते हैं । द्वैत तुम्हारा रूप तीनों कालों में नहीं है इसी से तुम्हारे जन्म और विकार के अभाव होने से कर्तृत्वादिकों का भी अभाव है । शुद्ध होने से तुम्हारे में अहंकार का भी अभाव है । तुम्हारा स्वरूप ज्यों का त्यों एकरस है ॥ १३ ॥

मूलम् ।

यत्त्वं पश्यसि तत्रैकस्त्वमेव प्रतिभाससे ।

किं पृथग्भासते स्वर्णात्कटकांगदनूपुरम् ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

यत्, त्वम्, पश्यसि, तत्र, एक, त्वम्, एव, प्रतिभाससे, किम्, पृथक्, भासते, स्वर्णात्, कटकांगदनूपुरम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यत्=जिसको

त्वम्=तू

पश्यसि=देखता है

तत्र=उस विषे

एक.=एक

त्वम् एव=तू ही

प्रतिभाससे=भासता है

किम्=क्या

कटकांगदनूपुरम्= { कंगना बाजू  
और घुंघुरू

स्वर्णात्=सुवर्ण से

पृथक्=पृथक्

भासते=भासता है ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! जो जो कार्य तुम देखते हो, सो सो कारण-रूप ही है । छांदोग्य के झूठे प्रपाठक में अरुण ऋषि ने अपने श्वेतकेतु पुत्र के प्रति कहा है । जब श्वेतकेतु बारह वर्ष का हुआ, तब उद्दालक ने कहा कि हे श्वेतकेतो ! तू गुरुकुल में निवास करके सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन कर । क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है, जिसने ब्रह्मचर्य को धारण करके वेदों का अध्ययन न किया हो ।

पिता की आज्ञा को पाकर श्वेतकेतु गुरु के पास गया और ब्रह्मचर्य को धारण करके बारह वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता रहा । जब कि सब वेदों को पढ़ चुका, तब गुरु की आज्ञा लेकर घर को चला । रास्ते में उसके चित्त में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरा पिता मेरे बराबर विद्या में नहीं है, उनको प्रणाम करने की क्या जरूरत है । वह जब घर में आया, तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया । पिता जान गये, इसको विद्या का मद हुआ है । इस अहंकार को दूर करना चाहिए । पिता ने कहा कि हे श्वेतकेतो ! तुमने उस उपदेश को भी गुरु से श्रवण किया, जिस उपदेश करके अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है । तब श्वेतकेतु ने कहा कि हे पिता ! उस उपदेश को तो मैंने नहीं श्रवण किया । यदि गुरु हमारे जानते होते, तो वह हमसे अवश्य कहते । क्योंकि जितनी विद्याएँ वे जानते थे, उन सबको मेरे प्रति कहा । अब आप ही कृपा करके उस उपदेश को मेरे प्रति कहिए । पुत्र को नम्र देखकर अरुणि ऋषि उपदेश करते हैं—

यथा—सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥ १ ॥

हे सौम्य ! जैसे एक मृत्तिका के पिण्ड करके सम्पूर्ण मृत्तिका के कार्य मृत्तिका-रूप ही जाने जाते हैं । क्योंकि कारण से कार्य का भेद नहीं होता है । जितना नाम का विषय-विकार है, केवल वाणी का कथन-मात्र ही है, केवल मृत्तिका ही सत्य है ॥ १ ॥

यथा—सौम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥ २ ॥



हे सौम्य ! जैसे स्वर्ण के ज्ञान में जितने कटक कुण्डलादिक उसके कार्य हैं, सब स्वर्ण-रूप ही हैं । क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है । और जितने स्वर्ण के कार्य नाम के विषय हैं, वे सब वाणी करके कथन-मात्र मिथ्या हैं । उन सब विषे अनुगत स्वर्ण ही सत्य है ॥ २ ॥

इस तरह हे पुत्र ! अनेक श्रुति-वाक्यों से जब तू बोधित होगा, तब तुझको मालूम होगा कि तू ही कार्य-कारणरूप से स्थित है, तू ही सच्चिदानन्द ज्ञान-स्वरूप आत्मा है ॥ १४ ॥

मूलम् ।

अयं सोऽहमयं नाहं विभागमिति सन्त्यज ।  
सर्वमात्मेति निश्चित्य निःसंकल्पः सुखीभव ॥१५॥

पदच्छेद ।

अयम्, सः, अहम्, अयम्, न, अहम्, विभागम्, इति, सन्त्यज, सर्वम्, आत्मा, इति, निश्चित्य, निःसंकल्पः, सुखीभव ॥  
अन्वयः । शब्दार्थ । अन्वयः । शब्दार्थ ।

अयम्=यह

सः=वह

अहम्=मैं

अस्मि=हूँ

अयम्=यह

अहम्=मैं

न=नहीं हूँ

इति=ऐसे

विभागम्=विभाग को

सन्त्यज=छोड़ दे

सर्वम्=सब

आत्मा=आत्मा है

इति=ऐसा

निश्चित्य=निरचय करके

स्वम्=तू

निःसंकल्पः= { संकल्प-  
रहित  
होता  
हुआ

सुखीभव=सुखी हो ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक । “यह यह है, यह मैं हूँ, मैं यह नहीं हूँ” इस भेद को त्यागकर “सर्वरूप आत्मा ही है” ऐसा निश्चय कर । यदि ऐसा करेगा, तो सुखी होगा, क्योंकि द्वैतदृष्टि से ही पुरुष को भय होता है । एक अद्वैत अपने आपसे किसी को भी भय नहीं होता है । द्वैतदृष्टि ही दुःख का कारण है । उसका त्याग करके तुम सुखी हो । जैसे एकान्त देश विषे स्थित पुरुष को तब तक आनन्द रहता है, जब तक उसके अन्तःकरण में भूत की भावनावृत्ति नहीं उत्पन्न होती है । ज्यों ही भूतद्वैतवृत्ति उत्पन्न हुई, त्यों ही वह भय को प्राप्त होता है, वैसे ही जब तक तेरे दिल में यह कल्पना है कि मैं और हूँ, जगत् और है, तभी तक दुःख और भय तुम्हको है, नहीं तो तू अद्वैत आनन्द-स्वरूप है ॥ १५ ॥

मूलम् ।

तवैवाज्ञानतो विश्वं त्वमेकः परमार्थतः ।

त्वत्तोऽन्यो नास्ति संसारीनासंसारी च कश्चन १६

पदच्छेदः ।

तव, एष, अज्ञानतः, विश्वम्, त्वम्, एकः, परमार्थतः, त्वत्तः, अन्यः, न, अस्ति, संसारी, न, असंसारी, च, कश्चन ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
तव एव=तेरे ही		एकः=एक है	
अज्ञानतः=अज्ञान से		अतः=इसलिये	
विश्वम्=विश्व है		त्वत्त=तुझसे	
अन्य=दूसरा		अस्ति=है	
कश्चन=कोई			
न संसारी=न संसारी जीव		न असंसारी=	{ न'असंसारी
च=और			{ ईश्वर
परमार्थतः=परमार्थ से		अस्ति=है ॥	
त्वम्=तू			

## भावार्थ ।

हे शिष्य ! तुम्हारे ही अज्ञान से यह जगत् प्रतीत होता है और तुम्हारे ही आत्मज्ञान से यह नाश होता है ।

प्रश्न—अज्ञान का स्वरूप क्या है ? और ज्ञान का स्वरूप क्या है ?

✓ उत्तर—अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वमज्ञानम् ।

जो अनादि हो, और भावरूप हो, अर्थात् अभाव-रूप न हो, और ज्ञान करके निवृत्त हो जावे, उसी का नाम अज्ञान है ॥ १ ॥

अज्ञाननाशकत्वे सति स्वात्मबोधकत्वं ज्ञानम् ।

जो अज्ञान का नाशक हो, और अपने आत्मा के स्वरूप का बोधक हो, उसी का नाम ज्ञान है ॥ २ ॥

ज्ञान के उदय होने पर परमार्थ से हे शिष्य ! तुम एक ही हो, संसारी और असंसारी भेद तेरे विषे नहीं है ॥ १६ ॥

मूलम् ।

भ्रान्तिमात्रमिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चयी ।  
निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किञ्चिदिव शाम्यति ॥१७॥

पदच्छेदः ।

भ्रान्तिमात्रम्, इदम्, विश्वम्, न, किञ्चित्, इति, निश्चयी,  
निर्वासन, स्फूर्तिमात्र, न, किञ्चित्, इव, शाम्यति ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
इदम्=यह		निर्वासन =वासना-रहित	
विश्वम्=ससार		स्फूर्तिमात्र =स्फूर्ति-मात्र है	
भ्रान्ति- मात्रम् } =भ्रान्ति-मात्र है		न किञ्चित् इव=	{ कुछ न हुए की नाहूँ अर्थात् वासना- रहित होकर
च=और			
न किञ्चित्=कुछ नहीं है		शाम्यति=	{ शान्ति को प्राप्त होता है ॥
इति=ऐसा			
निश्चयी=	{ निश्चय करनेवाला पुरुष		

भावाय ।

हे शिष्य ! यह जगत् सब भ्रान्ति करके स्थित हो रहा है । इस जगत् की अपनी सत्ता किञ्चिन्मात्र भी नहीं है । ऐसा निश्चय करके तुम वासना से रहित होकर आनन्द-पूर्वक ससार में विचरो ॥१७॥

मूलम् ।

एक एव भवाम्भोधोवासीदस्ति भविष्यति ।

न ते बन्धोऽस्ति मोक्षो वा कृतकृत्यः सुखं चर ॥१८॥

पदच्छेदः ।

एकः, एव, भवाम्भोधो, आसीत्, अस्ति, भविष्यति, न, ते, बन्धः, अस्ति, मोक्षः, वा, कृतकृत्यः, सुखम्, चर ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

भवाम्भोधो = { संसाररूपी  
समुद्र में

एकः = एक

आसीत् = तू ही हुआ

च = और

अस्ति = तू ही है

+ च = और

कृतकृत्यः = { कृतार्थ होता  
हुआ

भविष्यति = तू ही होवेगा

ते = तेरा

बन्धः = बंध

वा = और

मोक्षः = मोक्ष

न = नहीं है

त्वम् = तू

सुखम् = सुखपूर्वक

चर = विचर ॥

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! इस संसाररूपी समुद्र में तू सदा अकेला एक आप ही था, और रहेगा ।

प्रश्न—जब मैं ही भवसागर में था, और रहूँगा, तब तो मुझको मोक्ष कदापि नहीं होगा ? किन्तु सदैव बन्ध में ही रहूँगा ?

उत्तर—हे पुत्र ! अभी तक तुम अपने आपको न जानकर बन्ध और मोक्ष के हेरफेर में पड़े थे, अब तुम अपने को जान गये हो और भवसागर में अनुस्यूत-रूप करके अर्थात् अधिष्ठान असंग साक्षी हो करके तुम्हीं स्थित थे, और रहोगे । क्योंकि तुम्हारे में ही यह

संसार रज्जुसर्पवत् कल्पित है । अब न तेरे में बन्ध है, और न मोक्ष है । तू कृतकृत्य है ॥ १८ ॥

मूलम् ।

मा संकल्पविकल्पाभ्यां चित्तं क्षोभय चिन्मय ।

उपशाम्य सुखं तिष्ठ स्वात्मन्यानन्दविग्रहे ॥ १९ ॥

पदच्छेद ।

मा, संकल्पविकल्पाभ्याम्, चित्तम्, क्षोभय, चिन्मय, उपशाम्य, सुखम्, तिष्ठ, स्वात्मनि, आनन्दविग्रहे ॥

अन्वयः । शब्दार्थ । अन्वयः । शब्दार्थ ।

चिन्मय=हे चैतन्यस्वरूप

संकल्प-  
विकल्पा-  
भ्याम् }  $\left. \begin{array}{l} \text{संकल्प-} \\ \text{विकल्पा-} \\ \text{भ्याम्} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{affirmative} \\ \text{=विकल्पों} \\ \text{से} \\ \text{negative} \end{array}$

चित्तम्=चित्त को

+त्वम्=तू

मा क्षोभय=मत क्षोभित कर

उपशाम्य= { मन को शान्त  
करके

आनन्द-  
विग्रहे } = आनन्द-  
पूरित

स्वात्मनि=अपने स्वरूप में

सुखम्=सुखपूर्वक

तिष्ठ=स्थित हो ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे चैतन्यस्वरूप । संकल्प और विकल्पों फरके अपने चित्त को बन्ध न करो, किन्तु संकल्प और विकल्प से तुम रहित होकर अपने आनन्द-स्वरूप में स्थित हो ॥ १९ ॥

मूलम् ।

त्यजैव ध्यानं सर्वत्र मां किञ्चिद्भृदि धारय ।

आत्मा त्वन्मुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि २०

पदच्छेदः ।

त्यज, एव, ध्यानम्, सर्वत्र, मा, किञ्चित्, हृदि, धारय, आत्मा,  
त्वम्, मुक्तः, एव, असि, किम्, विमृश्य, करिष्यसि ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

सर्वत्र एव=सब ही जगह  
ध्यानम्=मनन को  
त्यज=त्याग  
हृदि=हृदय में  
किञ्चित्=कुछ  
मा धारय=मत धर  
त्वम्=तू

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

आत्मा } = { आत्मा  
मुक्तः } = { मुक्त-रूप  
एव } = { ही  
असि=है  
+त्वम्=तू  
विमृश्य=विचार करके  
किम्=क्या  
करिष्यसि=करेगा ॥

भावार्थः ।

प्रश्न—हे गुरु ! अपने आनन्द-स्वरूप आत्मा में स्थिर होना  
बिना ध्यान के बनता नहीं है, इस वास्ते ध्यान करना चाहिए ?

उत्तर—ध्यान का भी त्याग कर, क्योंकि ध्यान भी अज्ञानी के  
लिए कहा है, जिसको आत्मा का बोध नहीं हुआ है, भेदवादी है,  
वही ध्यान करे । ध्यान करना भी मन का ही धर्म है । तू साक्षी  
आत्मा है, अनात्मा नहीं है, सदा मुक्त-रूप है । ध्यान और विचार  
से तेरे को क्या फल होगा, तू इनसे रहित है ॥ २० ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां पञ्चदशं प्रकरणं समाप्तम् ॥ १५ ॥

Complete progress of the  
which is antithesis of nature of self

## सोलहवाँ प्रकरण ।



मूलम् ।

आचक्ष्व शृणु वा तात नानाशास्त्राण्यनेकशः ।  
तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणाद्भते ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

आचक्ष्व, शृणु, वा, तात, नानाशास्त्राणि, अनेकशः, तथा, अपि,  
न, तव, स्वास्थ्यम्, सर्वविस्मरणात्, ऋते ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तात=हे प्रिय !

अनेकशः=बहुत प्रकार से

नानाशास्त्राणि } = अनेक शास्त्रों को

आचक्ष्व=कह

वा=या

शृणु=सुन

तथा अपि=परन्तु

ऋते=विना

सर्वविस्मरणात् } = सबके विस्मरण से

तव=तुम्हको

स्वास्थ्यम्=शान्ति

न=न होगी ॥

भावार्थः ।

तत्त्व-ज्ञान करके सम्पूर्ण प्रपञ्च और तृष्णानाश ही का नाम मुक्ति है । अब इसी वार्ता को आगे वर्णन करते हैं—



अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे तात ! चाहे तुम अनेक शास्त्रों को अनेक बार शिष्यों के प्रति पठन कराओ, अथवा गुरु से पठन करो, पर बिना सबके विस्मरण करने से तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं होवेगा । पञ्चदशी में भी कहा है—

ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी विचार्य च पुनः पुनः ।

पलालमिव धान्यार्थं त्यजेद् ग्रन्थमशेषतः ॥ १ ॥

बुद्धिमान् पुरुष प्रथम ग्रन्थों का अभ्यास करे । फिर पुन पुन उनका विचार करे । परचात् जैसे चावल का अर्थां पुरुष चावलों का निकाल लेता है, और प्याल को फेंक देता है, वैसे ही वह भी जीवन्मुक्ति के सुख के लिये अभ्यास के परचात् सबका त्याग कर देवे।

मरन—सुपुति में सर्व पुरुषों को स्वत ही विस्मरण हो जाता है ? यदि सर्व वस्तुओं के विस्मरण करने में ही मुक्ति होती है, तो सब जीवों को मोक्ष हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं । इसी से सिद्ध होता है कि सर्व का विस्मरण व्यर्थ है ।

उत्तर—सुपुति में यद्यपि विस्मरण हो जाता है, तथापि सबका विस्मरण नहीं होता है, क्योंकि सर्व के अन्तर्गत अज्ञान है, सो अज्ञान सुपुति में बना रहता है, और जीवन्मुक्त को तो अज्ञान के सहित सम्पूर्ण अध्यस्त वस्तुओं का विस्मरण हो जाता है, इसवास्ते जीवन्मुक्ति की इच्छामाले को सर्व वस्तुओं का विस्मरण करना ही उचित है ॥ १ ॥

मूलम् ।

भोगं कर्मसमाधिं वा कुरु विज्ञ तथापि ते ।

चित्तं निरस्तसर्वाशमत्यर्थं रोचयिष्यति ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

भोगम्, कर्म, समाधिम्, वा, कुरु, विज्ञ, तथा, अपि, ते, चित्तम्,  
निरस्तसर्वाशम्, अत्यर्थम्, रोचयिष्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

विज्ञ=हे ज्ञानस्वरूप ।

ते=तेरा

चित्तम्=चित्त

भोगम्=भोग

कर्म=कर्म

वा=और

समाधिम्=समाधि को

कुरु=कर

तथा अपि=परन्तु

निरस्त- { सर्व आशाओं से  
सर्वा= { रहित होता  
शम् { हुआ भी

त्वाम्=तुम्हको

अत्यर्थम्=अप्यन्त

रोचयि- } =लोभावेगा ॥  
ष्यति }

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे पुत्र ! चाहे तू भोगों को भोग, चाहे तू कर्मों को कर, चाहे तू समाधि को लगा । आत्म-ज्ञान के प्रभाव करके सर्व आशाओं से रहित होकर, तेरा चित्त शान्त रहेगा अर्थात् आशाओं से रहित होकर जो जो कर्म तू करेगा, कोई भी तेरे को बन्धन का हेतु न होगा । क्योंकि आशा ही बन्धन का हेतु है, इसलिये सर्व से निराश होकर, सर्व में आसक्ति से रहित होकर जब विचरेगा, तब तू सुखी होवेगा ॥ २ ॥

मूलम् ।

आयासात्सकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन ।

अनेनैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निर्वृतिम् ॥३॥

पदच्छेदः ।

आयासात्, सकलः, दुःखी, न, एनम्, जानाति, करचन,  
अनेन, एव, उपदेशेन, धन्यः, प्राप्नोति, निर्वृतिम् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
आयासात्=परिश्रम से		अनेन एव=इसी	
सकलः=सब मनुष्य		उपदेशेन=उपदेश से	
दुःखी=दुःखी है		धन्यः=सुखी पुरुष	
एनम्=इसको		निर्वृतिम्=परम सुख का	
करचन=कोई		प्राप्नोति=प्राप्त होता है ॥	
न जानाति=नहीं जानता है			

भावार्थः ।

हे शिष्य ! सम्पूर्ण लोक शरीर के निर्वाह करने में ही दुःखी होते हैं । अर्थात् शरीरनिर्वाहार्थ परिश्रम करने में ही दुःख उठते हैं, परन्तु इस बात को नहीं जानते हैं कि परिश्रम ही दुःख का हेतु है, इसलिये महापुरुष शरीर के निर्वाह के लिये अति परिश्रम नहीं करते हैं । क्योंकि शरीर की रक्षा प्रारब्धकर्म, थाप ही कर लेता है, यज्ञ की कोई जगूरत नहीं होती है । ऐसा जानकर वे सदैव सुखी रहते हैं ॥ ३ ॥

मूलम् ।

व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि ।

तस्यालस्यधुरीणस्य सुखं नान्यस्यकस्यचित् ॥४॥

पदच्छेद ।

व्यापारे, खिद्यते, यः, तु, निमेषोन्मेषयो, अपि, तस्य, आलस्य-धुरीणस्य, सुखम्, न, अन्यस्य, कस्यचित् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
यः=जो		आलस्य-	{ आलसी-
निमेषो-	{ नेत्र के बंद करने और	धुरीणस्य =	{ धुरीण को
न्मेषयोः =	{ खोलने के	अपि=ही	
व्यापारे=व्यापार में		सुखम्=सुख है	
खिद्यते=	{ खेद को प्राप्त होता है	अन्यस्य=दूसरे	
तस्य=उस		कस्यचित्=किसी को	
		न=नहीं है ॥	

भावार्थ ।

व्यापार में अनासक्ति ही सुख का हेतु है । जो ज्ञानवान् जीवनमुक्त पुरुष हैं, उनको नेत्र के खोलने और बंद करने में भी खेद होता है । जो ऐसा आलसी पुरुष है और सम्पूर्ण व्यापारों से रहित है, वही सुख को प्राप्त होता है । व्यापारवान् को कभी भी सुख नहीं होता है । ससार में पुरुष को जितनी ही व्यवहार विषे अधिक प्रवृत्ति है, उतना ही उसको दुःख अधिक है । और जितना ही व्यवहार-प्रवृत्ति कम है, उतना ही उसको सुख अधिक है । क्योंकि वृत्ति की वृद्धि से दुःख की प्राप्ति, और वृत्ति की निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तं यदा मनः ।

धर्मार्थकाममोक्षेषु निरपेक्षं तदा भवेत् ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

इदम्, कृतम्, इदम्, न, इति, द्वन्द्वैः, मुक्तम्, यदा, मनः, धर्मार्थकाममोक्षेषु, निरपेक्षम्, तदा, भवेत् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

इदम्=यह

कृतम्=किया गया है

इदम् = { यह नहीं किया  
न कृतम् = { गया है

इति=ऐसे

द्वन्द्वैः =द्वन्द्व से

यदा मनः=जब मन

मुक्तम्=मुक्त हो

तदा=तब

सः=वह

धर्मार्थ- { धर्म, अर्थ, काम  
काम- = { और मोक्ष विषे  
मोक्षेषु {

निरपेक्षम्=इच्छा-रहित

भवेत्=होता है ॥

भावार्थः ।

सम्पूर्ण तृष्णा के नाश होने पर शीतोष्णादि-जन्य सुख-दुःख भी पुरुष को नहीं सता सकते हैं, इसी वार्त्ता को अब कहते हैं—

इस काम को मैंने कर लिया है, और इस काम को मैंने नहीं किया है, इस तरह के द्वन्द्वों से जब पुरुष का मन शून्य हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा नहीं करता है ।  
ऐसा जो सम्पूर्ण द्वन्द्वों से और सब इच्छाओं से रहित पुरुष है, वही जीवन्मुक्ति के सुख को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

विरक्तो विषयद्वेषा रागी विषयलोलुपः ।

ग्रहमोक्षविहीनस्त्वं न विरक्तो न रागवान् ॥ ६ ॥

पदच्छेद ।

विरक्तः, विषयद्वेषा, रागी, विषयलोलुपः, ग्रहमोक्षविहीनः, तु, न,  
विरक्त, न, रागवान् ॥

अन्वय. ।	शब्दार्थ ।	अन्वय. ।	शब्दार्थ ।
विषयद्वेषा = { विषय का द्वेषी		ग्रह- मोक्ष = { ग्रहण और त्याग-रहित	
विरक्त = विरक्त है		विहीनः { पुरुष	
विषयलोलुपः = { विषय का लोभी		न विरक्त = न विरक्त है	
रागी = रागी है		न रागवान् = { और न रागवान् है ॥	

भावार्थ ।

अब इस वार्ता को कहते हैं कि सकामी पुरुष से निष्काम पुरुष विलक्षण है—

मुमुक्षु होकर जो स्त्री-पुत्रादिक विषयों में द्वेष करता है, अर्थात् द्वेषदृष्टि करके उनको अङ्गीकार नहीं करता है, किन्तु त्याग देता है, उसका नाम विरक्त है । और जो विषयों की कामना करके विषयों में लोलुप चित्तवाला है, उसका नाम रागी है । और जो पुरुष विषयों के ग्रहण और त्याग की इच्छा से रहित है, वह विरक्त संरक्त से विलक्षण अर्थात् ग्रहण-त्याग से रहित जीवन्मुक्त है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

हेयोपादेयता तावत्संसारविटपाङ्कुरः ।

स्पृहा जीवति यावद्द निर्विचारदशास्पदम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

हेयोपादेयता, तावत्, संसारविटपाङ्कुरः, स्पृहा, जीवति, यावत्, वै, निर्विचारदशास्पदम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यावत्=जब तक  
स्पृहा=तृष्णा  
यावत्=जब तक  
निर्विचार- { अविवेक  
दशा= { दशा की  
स्पदम् { स्थिति है  
तावत्=तब तक

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

जीवति=जीता है  
+ च=और  
हेयोपादे- { रयाज्य और  
यता { प्राप्त भाव  
संसार- { संसार-रूपी  
विटपाङ्कुरः { वृक्ष का अ-  
ङ्कुर है ॥

भावार्थः ।

विचारशून्यदशा आस्पदीभूत का नाम तृष्णा है अर्थात् जिस काल में कोई विचार न हो, केवल भोगों की इच्छा ही उत्पन्न हो, उसका नाम तृष्णा है । अतः जो तृष्णालु पुरुष है, वह जब तक जीता है, प्रहण-त्याग करता ही रहता है । संसार-रूपी वृक्ष का अङ्कुर उत्पन्न करनेवाली तृष्णा ही है, सो तृष्णा जीवन्मुक्तों में नहीं रहती है । यदि प्रारब्धकर्म के वश से जीवन्मुक्त में प्रहण-त्याग का व्यवहार होता भी रहे, तो भी उसकी कोई हानि नहीं है ॥ ७ ॥

मूलम् ।

प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि ।

निर्द्वन्द्वौ घालवद्भीमानेवमेव व्यवस्थितः ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ।

प्रवृत्तौ, जायते, रागः, निवृत्तौ, द्वेषः, एव, हि, निर्द्वन्द्वः, बाल-  
वत्, धीमान्, एवम्, एव, व्यवस्थितः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

प्रवृत्तौ=प्रवृत्ति में

रागः=राग

च=और

एव हि=इसलिये

धीमान्=बुद्धिमान् पुरुष

निर्द्वन्द्वः=द्वन्द्व-रहित

निवृत्तौ=निवृत्ति में

द्वेषः=द्वेष

जायते=होता है

एवम् एव= { जैसे होवे,  
वैसा ही

व्यवस्थितः=स्थित रहे ॥

भावार्थ ।

विषयों में जब राग-पूर्वक प्रवृत्ति होती है, तब पूर्व से उत्तरोत्तर  
विषयों में राग ही उत्पन्न होता है । और जब विषयों में द्वेष-पूर्वक  
निवृत्ति होती है, तब पूर्व से उत्तरोत्तर विषयों में द्वेष-दृष्टि ही  
उत्पन्न होती है । इसी में एक दृष्टान्त कहते हैं—

एक राजा दूसरे देश को गया । उसको वहाँ पर कई एक वर्ष  
बीत गये । पीछे, उसकी रानी अति कामातुर होकर अपने मकान  
पर से इधर-उधर ताकती थी । एक सराफ का लड़का, युवा अवस्था  
को प्राप्त, बड़ा सुन्दर अपने कोठे पर खड़ा था । उसको देखकर  
रानी का मन उसकी तरफ चला गया । रानी ने अपनी लौंडी को  
उसके बुलाने के लिये भेजा । लौंडी उसको बुला लाई । रानी उससे  
बातचीत करने लगी । थोड़ी देर में लौंडी ने आकर कहा कि राजा  
साहब आ गये । तब उस लड़के ने कहा कि मुझको कहीं छिपाओ ।  
रानी ने उसको पाखाने के नल में खड़ा कर दिया । इतने में राजा



भीतर आ गये और नौकर से कहा, जल्दी पानी लाओ, हम पाखाने जावेंगे। नौकर पानी लाया, राजा पाखाने गये। राजा साहब को दस्त पतले आते थे, इस कारण नल की मोहरी पर बैठकर जो पाखाना उन्होंने फिरा तो नीचे उस लड़के के ऊपर जाकर गिरा। उसका सिर, मुँह और सब कपड़े मैले से मर गये। राजा पाखाना फिरकर चले गये, तब लौंडी ने उसको किसी गंदी नाली के रास्ते से निकाल दिया। उस लड़के ने नदी पर जाकर स्नान किया और सब कपड़े साफ करके अपने घर को गया।

दूसरे दिन फिर रानी ने लौंडी को उसके बुलाने के लिये भेजा। तब लड़के ने कहा कि एक दिन मैं रानी के पास गया और केवल दस-पाँच बातें उससे मैंने कीं, तब उसका फल यह हुआ कि अपने सिर पर दूसरे का मैला पड़ा। जो रोज रोज उससे सम्बन्ध करता है न मालूम उसकी क्या गति होगी। मुझको तो वह पाखाना न भूला है, न भूलेगा। मैं अब कदापि नहीं जाऊँगा। इस प्रकार की जब विषय-भोग में दोष-बुद्धि होती है, तब फिर कदापि उसकी विषय-भोग में राग-पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे ही विद्वान् भी बालक की तरह शुभ-अशुभ के चिन्तन से रहित होकर केवल प्रारब्ध-वश से कदाचित् प्रवृत्त होता है, कदाचित् निवृत्त भी हो जाता है, परन्तु राग-द्वेष करके न तो वह प्रवृत्त होता है, और न वह निवृत्त होता है ॥ ८ ॥

मूलम् ।

हातुमिच्छति संसारं रागी दुःखजिहासया ।

वीतरागो हि निर्दुःखस्तस्मिन्नपि न खिद्यति ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

हातुम्, इच्छति, संसारम्, रागी, दुःखजिहासया, वीतरागः, हि,  
निर्दुःखः, तस्मिन्, अपि, न, खिद्यति ॥

अन्वयः । शब्दार्थः । अन्वयः । शब्दार्थः ।

रागी = { रागवान्  
पुरुष

दुःखजिहासया = { दुःख की  
निवृत्ति  
की इच्छा  
से

संसारम् = संसार को

हातुम् = त्यागना

इच्छति = चाहता है

वीतरागः = { राग-रहित  
पुरुष

हि = { निश्चय  
करके

निर्दुःखः = { दुःख से  
मुक्त होता  
हुआ

तस्मिन् = संसार विषे

अपि = भी

न खिद्यति = { नहीं खेद  
को  
प्राप्त होता  
है ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे शिष्य ! जो पुरुष विषयों में राग-  
वाला है, वही विषय के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ जो दुःख है, उसके  
त्याग की इच्छा करता हुआ संसार के त्यागने की इच्छा करता है और  
जो वीतराग पुरुष है, वह संसार के बने रहने पर भी खेद को नहीं  
प्राप्त होता है । सो पञ्चदशी में भी कहा है—

रागो लिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु ।

कुतो वैशाद्वलस्तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥ १ ॥

जिस वृक्ष के कोटर में याने जड़ के बिल में अग्नि लगी है, उस  
वृक्ष को हरियाली याने उसके हरे पत्ते कदापि उत्पन्न नहीं होते हैं ।

दार्ष्टान्त में जिस पुरुष के चित्त में अज्ञान का चिह्न बना है, उसको शान्ति कदापि नहीं होती है ॥ ९ ॥

मूलम् ।

यस्याभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि ममता तथा ।  
न च योगी न वा ज्ञानी केवलं दुःखभागसौ ॥१०॥

पदच्छेदः ।

यस्य, अभिमानः, मोक्षे, अपि, देहे, अपि, ममता, तथा, न, च, योगी, न, वा, ज्ञानी, केवलम्, दुःखभाक्, असौ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यस्य=जिसको  
मोक्षे=मोक्ष विषये  
च=और  
देहे=देह विषये  
अपि=भी  
तथा=वैसा ही  
ममता=ममता है  
असौ=वह

अभिमानः=अभिमानो है  
न=न  
ज्ञानी=ज्ञानी है  
च=और  
न=न  
योगी वा=योगी है ॥  
केवलम्=केवल  
दुःखभाक्=दुःख का भागी है

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं मुक्त हूँ इस प्रकार का जिसको अभिमान है, वह ज्ञानी नहीं है । जो कहता है कि मैं योगाभ्यासी हूँ, मैं नित्य ही धोती, नेती, बस्ती आदिक क्रिया करता हूँ, वह भी योगी नहीं है, किन्तु वह केवल दुःख का भोगनेवाला है ॥ १० ॥

मूलम् ।

हरो यद्युपदेष्टा ते हरिः कमलजोऽपि वा ।  
तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते ॥११॥

पदच्छेदः ।

हरः, यदि, उपदेष्टा, ते, हरिः, कमलजः, अपि, वा, तथा, अपि,  
न, तव, स्वास्थ्यम्, सर्वविस्मरणात्, ऋते ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदि=अगर

ते=तेरा

उपदेष्टा=उपदेशक

हरः=शिव है

हरिः=विष्णु है

वा=अथवा

कमलजः=ब्रह्मा है

तथापि=तो भी

सर्वविस्मरणात् = { बिना सबके  
विस्मरण के  
ऋते { जाने त्याग के

तव=तुमको

स्वास्थ्यम्=शान्ति

न=नहीं होगी ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! चाहे तुमको महादेव उपदेश  
करें या विष्णु उपदेश करें या ब्रह्मा उपदेश करें, तुमको सुख  
कदापि न होगा । जब विषयों का त्याग करोगे, तभी शान्ति और  
आनन्द को प्राप्त होगे । आत्मतत्त्व के उपदेश के पहले विषयों का  
त्याग बहुत जरूरी है ॥ ११ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीताया षोडशकं प्रकरणं समाप्तम् ।

## सत्रहवाँ प्रकरण ।

—०—

मूलम् ।

तेन ज्ञानफलं प्राप्तं योगाभ्यासफलं तथा ।

तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकीरमते तु यः ॥ १ ॥

पदच्छेद ।

तेन, ज्ञानफलम्, प्राप्तम्, योगाभ्यासफलम्, तथा, तृप्तः, स्वच्छेन्द्रियः, नित्यम्, एकाकी, रमते, तु, यः ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
	यः=जो पुरुष		तेन=उसी करके
	नित्यम्=नित्य		ज्ञानफलम्=ज्ञान का फल
	तृप्तः=तृप्त है		तथा=और
70	स्वच्छेन्द्रियः=शुद्ध इन्द्रियवाला है		योगाभ्यासफलम्= { योग के अभ्यास
	यः=यही		का फल
	एकाकी=अकेला		प्राप्तम्=पाया गया है ॥
	रमते=रमता है		

भावार्थ ।

अब विंशति श्लोकों करके सत्रहवें प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं । इतर पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म-विद्या में कराने के लिये और आत्मज्ञान का फल दिखाने के वास्ते गुरु प्रथम ज्ञान की दशा को दिखाते हैं ।

उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त हुआ है और उसी पुरुष को योगाभ्यास का फल भी प्राप्त हुआ है, जिसने विषयभोगों से रहित होकर अपने आपमें ही वृत्ति पाई है। वही स्वच्छ इन्द्रियोवाला है अर्थात् उसकी इन्द्रियों में विषयभोग की कामना शून्य मात्र नहीं है, जो नित्य अकेला विचरता है और अपने आप स्थित है। दत्तात्रेयजी ने भी कहा है—

वासो बहूनां कलहो भवेद्वार्त्ता द्वयोरपि ।

एकाकी विचरेद्विद्वान् कुमार्या इव कङ्कणः ॥ १ ॥

दत्तात्रेयजी एक ब्राह्मण के घर भिक्षा माँगने गये। घर में एक कुमारी कन्या थी और कोई न था। उस कन्या ने कहा, महाराज ! आप ठहरें, मैं धान कूट और चावल निकालकर आपको देती हूँ। जब वह कन्या धान कूटने लगी, तब उसके हाथ में जो काँच की चूड़ियाँ थीं, वे छन्-छन् शब्द करने लगीं। उनके शब्द होने से कन्या को बड़ी लज्जा आई। उसने एक-एक करके उन चूड़ियों को उतार दिया। जब एक ही चूड़ी बाकी रह गई, तब शब्द होना बंद हो गया। तब दत्तात्रेयजी ने विचार करके कहा कि जहाँ बहुत से पुरुषों का एकत्र रहना होता है, वहाँ लड़ाई-झगडा जरूर होता है। और जहाँ दो पुरुष इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पर गपशप होती है, श्रमण मननादिक नहीं होते हैं। इस वास्ते विद्वान् को चाहिये कि कुमारी कन्या के कङ्कण की तरह अकेला होकर संसार में विचरे। जिस विद्वान् को जीवन्मुक्ति के सुख की लेने की इच्छा होती है, वह अकेला ही रहता है। इसी वास्ते संन्यासी को बहुत पुरुषों के मध्य में रहना, और बहुतों को संग रखना भी मना किया है।

दक्षस्मृतिः—

त्रयो ग्रामः समाख्यात ऊर्ध्वं तु नगरायते ।  
 नगरं हि न कर्त्तव्यं ग्रामो वा मैथुनं तथा ॥ १ ॥  
 एतत्त्रयं तु कुर्वाणः स्वधर्माच्च्यवते यतिः ।  
 राजवार्त्तादि तेषां तु भिक्षावार्त्ता परस्परम् ॥ २ ॥

जहाँ पर तीन भिक्षु मिल करके रहें, उसका नाम ग्राम है । जहाँ पर तीन से अधिक रहें, उसका नाम नगर है । इस वास्ते भिक्षु विद्वान् नगर और ग्राम को न बनावें, और न दूसरे के साथ रहें, किन्तु अकेले ही विचरा करें । जो भिक्षु ग्राम, नगर या मिथुन को करता है अर्थात् दो, तीन और अधिकों के साथ रहता है, वह अपने धर्म में प्रभ्युत हो जाता है ॥ १ । २ ॥

सत्कारमानपूजार्थं दण्डकापायधारणः ।

स संन्यासी न वक्रव्यः संन्यासी ज्ञानतत्परः ॥ १ ॥

सत्कार, मान और पूजा के अर्थ जो भिक्षु दण्ड और कापाय वस्त्रों को धारण करता है, वह संन्यासी नहीं है, जो आत्मज्ञानपरायण होकर अकेला वासना-रहित होकर ही रहता है, वही शान्ति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं ॥ १ ॥

मूलम् ।

न कदाचिज्जगत्यस्मिंस्तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति ।

यत एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्माण्डमण्डलम् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

न, कदाचित्, जगति, अस्मिन्, तत्त्वज्ञः, हन्त, खिद्यति, यतः,  
एकेन, तेन, इदम्, पूर्णम्, ब्रह्माण्डमण्डलम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तत्त्वज्ञः=तत्त्वज्ञानी

अस्मिन्=इस

जगति=जगत् विषे

न कदाचित्=कभी नहीं

खिद्यति=खेद को प्राप्त होता है

हन्त=यह बात ठीक है

यतः=क्योंकि

एकेन=उसी एक से

इदम्=यह

ब्रह्माण्डमण्डलम्=ब्रह्माण्ड-मण्डल

पूर्णम्=पूर्ण है ॥

भावार्थः ।

हे शिष्य । इस संसार-मण्डल में तत्त्ववित् ज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है । क्योंकि वह जानता है कि मुझ एक कारके ही यह सारा जगत् व्याप्त हो रहा है । खेद दूसरे से होता है, सो दूसरा उसकी दृष्टि में है नहीं ॥ २ ॥

मूलम् ।

न जातु विषयाः केऽपि स्वारामं हर्षयन्त्यमी ।

सल्लकीपल्लवप्रीतमिवेभस्मिन्पल्लवाः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

न, जातु, विषयाः, के, अपि, स्वारामम्, हर्षयन्ति, अमी,  
सल्लकीपल्लवप्रीतम्, इव, उभम्, निम्बपल्लवाः ॥



अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अमी=वे

के अपि=कोई भी

विषयाः=विषय

न जातु=कभी नहीं

स्वारामम्=स्वामाराम को

हर्षयन्ति=हर्षित करते हैं

इव=जैसे

सल्लकीपल्लवप्रीतम्= { सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए

इमम्=हाथी को

निम्बपल्लवाः=नीम के पत्ते

न हर्षयन्ति= { नहीं हर्ष को प्राप्त करते हैं ।

भावार्थ ।

हे शिष्य ! जो पुरुष अपने आत्मा में ही रमण करे, उसका नाम आत्माराम है । यह आत्माराम कदापि विषयों की प्राप्ति होने से और उनके भोगने से हर्ष को नहीं प्राप्त होता है । क्योंकि वह विषयों को तुच्छ जानता है । अर्थात् विषय-जन्य सुख को वह मिथ्या जानता है और विषय-भोग भी उस आत्माराम को हर्ष-युक्त नहीं कर सकते हैं । क्योंकि अपनी सत्ता से रहित हैं । जैसे सल्लकी जो मधुर रसवाली बेलि है, उस बेलि के पत्ते जिस हस्ती ने खाये हैं उसको कटु-रसवाले नीम के पत्ते हर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं वैसे जिसने आत्मानन्द का अनुभव किया है, उसको विषयानन्द नहीं आनन्दित कर सकता है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

यस्तु भोगेषु-भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः ।

अभुक्तेषु निराकाञ्ची तादृशो भवदुर्लभः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ।

यः, तु, भोगेषु, भुक्तेषु, न, भवति, अधिवासितः, अभुक्तेषु,  
निराकांक्षी, तादृशः, भवदुर्लभः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यः=जो

भुक्तेषु=भोगे हुए

भोगेषु=भोगों में

अधिवासितः=आसक्त

न भवति=नहीं होता है

च=और

अभुक्तेषु=अभुक्त पदार्थों विषे

निराकांक्षी=आकांक्षा-रहित है

तादृशः=ऐसा मनुष्य

भवदुर्लभः=संसार में दुर्लभ है ॥

भाषार्यः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! जिस पुरुष की भोगे हुए भोगों में  
आसक्ति नहीं है, और जो नहीं भोगे हुए भोग है, उनमें उसकी आकांक्षा  
भी नहीं है, परन्तु जो अपने आत्मा में ही तृप्त है, वैसा पुरुष संसार-  
सागर विषे करोड़ों में एक ही है, अथवा एक भी दुर्लभ है ॥ ४ ॥

श्लोकः ।

बुभुक्षुरिह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते ।

भोगमोक्षनिराकांक्षी विरलो हि महाशयः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः ।

बुभुक्षुः, इह, संसारे, मुमुक्षुः, अपि, दृश्यते, भोगमोक्षनिराकांक्षी,  
विरलः, हि, महाशयः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

बुभुक्षुः=भोग की इच्छावाला

अपि=और

मुमुक्षुः=मोक्ष की इच्छावाला

इह=इस

संसारे=संसार विषे

दृश्यते=देये जाते हैं

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

हि=परन्तु

भोगमोक्ष-  
निराकांक्षी = { भोग और मोक्ष  
की आशा से  
रहित

विरलः=कोई विरला ही

महाशयः=महापुरुष हैं ॥

भावार्थ ।

इस संसार में मुमुक्षु अनेक प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, परन्तु जो भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा से रहित हो और महान् परिपूर्ण ब्रह्म विषे शुद्ध अन्तःकरण से स्थित हो, मो दुर्लभ है ।

गीता में भी भगवान् ने कहा है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ १ ॥

हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य अन्तःकरण की शुद्धि के लिये यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई एक विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

धर्मार्थकाममोक्षेषु जीविते मरणे तथा ।

कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादेयता न हि ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

धर्मार्थकाममोक्षेषु, जीविते, मरणे, तथा, कस्य, अपि, उदार-चित्तस्य, हेयोपादेयता, न, हि ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
धर्मार्थका- ममोक्षोपु =	{ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष विषे	कस्य=किस	
जीविते=जीने विषे		उदारचित्तस्य=उदारचित्त को	
तथा=और		हेयोपादेयता=त्याग और ग्रहण	
मरणे=मरण विषे		न हि=नहीं है ॥	

भावार्थ ।

हे शिष्य ! ऐसा पुरुष संसार विषे दुर्लभ है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और जीने-मरने में उदासीन हो अर्थात् उसको सुखाकार दुःखाकार वृत्ति न व्यापे, अपने अद्वैत आत्मा में शान्त होकर स्थित रहे । सुख-दुःख सापेक्षिक है । जिसको सुख होता है, उसी को दुःख भी होता है । जिसको दुःख होता है, उसी को सुख भी होता है । हे प्रिय ! तुम इन दोनों से रहित होकर विचरो ॥ ६ ॥

मूलम् ।

वाञ्छा न विश्वविलये न द्वेषस्तस्य च स्थितौ ।  
यथा जीविकया तस्माद्धन्य आस्ते यथासुखम् ॥७॥

पदच्छेदः ।

वाञ्छा, न, विश्वविलये, न, द्वेषः, तस्य, च, स्थितौ, यथा, जीविकया, तस्मात्, धन्यः, आस्ते, यथासुखम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

विश्वविलये = { विश्व के लय होने में

वाञ्छा = इच्छा

न = नहीं है

च = और

तस्य = उसकी

स्थितौ = स्थिति में

द्वेषः = द्वेष

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

न = नहीं है

तस्मात् = इस कारण

धन्यः = धन्य पुरुष वह है

यः = जो

यथाजीविकया = { यथाप्राप्त आजी-  
विका द्वारा

यथासुखम् = सुखपूर्वक

आस्ते = रहता है ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे पुत्र ! विश्व के लय होने की इच्छा जिस विद्वान् को नहीं है, और विश्व के स्थिर रहने में जिसको द्वेष नहीं है, अर्थात् प्रपञ्च रहे अथवा नष्ट हो जाय, और जो अपने को विश्व का साक्षी अधिष्ठान समझकर स्थित है, वही विद्वान् कृतकृत्य है, धन्य है, पूजने-योग्य है ॥ ७ ॥

मूलम् ।

कृतार्थोऽनेन ज्ञानेनेत्येवं गलितधीः कृती ।

पश्यञ्छृणवन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्नास्ते यथासुखम् ॥८॥

पदच्छेदः ।

कृतार्थः, अनेन, ज्ञानेन, इति, एवम्, गलितधीः, कृती, पश्यन्, शृणवन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, आस्ते, यथासुखम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अनेन=इस

ज्ञानेन=ज्ञान से

कृतार्थः=मैं कृतार्थ हूँ

इति एवम्=इस प्रकार

गलितधीः= { गलित हुई है बुद्धि  
जिसकी, ऐसा

कृती=ज्ञानी पुरुष

पश्यन्=देखता हुआ

शृण्वन्=सुनता हुआ

स्पृशन्=स्पर्श करता हुआ

जिघ्रन्=सूँघता हुआ

अश्नन्=खाता हुआ

यथासुरम्=सुख-पूर्वक

आस्ते=रहता है ॥

भावार्थ ।

मैं अद्वैत आत्म-ज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूँ, ऐसी बुद्धि भी जिस विद्वान् की उत्पन्न नहीं होती है, और आहारादिकों को करता हुआ भी जो शरीर-सुख को उल्लंघन करके स्थित होता है, और बाह्य इन्द्रियों के व्यापारों के होने पर भी अज्ञानी मूर्खों की तरह खेद नहीं करता है, और जो खड़ा हुआ, बैठा हुआ, चलता हुआ भी समाहितचित्तवाला है, वही धन्य है, वही ब्रह्म-रूप है ॥ ८ ॥

मूलम् ।

शून्या दृष्टिर्वृथा चेष्टा विकलानीन्द्रियाणि च ।

न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीणसंसारसागरे ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

शून्या, दृष्टिः, वृथा, चेष्टा, विकलानि, इन्द्रियाणि, च, न, स्पृहा, न, विरक्तिः, वा, क्षीणसंसारसागरे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

क्षीणसंसार-सागरं { नाश हुआ है सं  
सार-रूपी समुद्र  
जिसका, ऐसे पुरुष  
विषे

दृष्टिःशून्या=दृष्टि शून्य हो गई है  
चेष्टावृथा=व्यापार जाता रहा है  
इन्द्रियाणि=इन्द्रियाँ

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

विकल्पानि=विकल हो गई हैं

न=न

स्पृहा=इच्छा है

वा=और

न=न

विरक्ति'=विरहता है॥

भावार्थ ।

हे शिष्य ! जिस पुरुष का संसार-सागर क्षीण हो गया है, उसको विषय-भोगों की इच्छा भी नहीं रहती है, और न उनसे विरक्ति होने की इच्छा उसको रहती है । उस विद्वान् का मन और शरीरेन्द्रियादिक वालक या उन्मत्त की तरह अपने व्यापारों से शून्य रहते हैं, और उसके शरीर की चेष्टा भी वृथा ही होती है । उसकी इन्द्रियाँ भी सब निर्बल होती हैं । आगे स्थित हुए विषयों का निर्णय नहीं कर सकता है । गीता में भी कहा है—

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

सम्पूर्ण भूतों की जो आत्मज्ञान-रूपी रात्रि है, और जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें विद्वान् जागता है । जिस अज्ञान-रूपी दिन में सब भूत जागते हैं, उसमें विद्वान् सोया हुआ रहता है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

न जागर्ति न निद्राति नोन्मीलति न मीलति ।

अहो परदशा कापि वर्तते मुक्कचेतसः ॥ १० ॥

पदच्छेद ।

न, जागति, न, निद्राति, न, उन्मीलति, न, मीलति, अहो, परदशा, क, अपि, वर्तते, मुक्तचेतस ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
न जागति=न जागता है		अहो=आश्चर्य है कि	
न निद्राति=न सोता है		कापि=कैसी	
न उन्मीलति=न पलक को खोलता है		परदशा=उत्कृष्ट दशा	
च=और		मुक्तचेतस=ज्ञानी की	
न मीलति=	{ न पलक को बंद करता है	वर्तते=वर्तती है ॥	

भावार्थ ।

हे शिष्य ! विद्वान् ऐसे दिन विपे जागता नहीं है । क्योंकि जो जागता है, वह नेत्र के पलकों को खोले रहता है । अर्थात् बाह्य विषयों को देखता है, और स्मरण भी करता है । ज्ञानी बाह्य विषयों को न देखता है, और न स्मरण करता है । इस वास्ते वह जागता नहीं है, और ज्ञानवान् सोता भी नहीं है । क्योंकि जो सोता है, वह नेत्रों के पलकों को बंद कर लेता है । और इसी कारण तब वह बाहर के किसी पदार्थ को नहीं देखता है, सो विद्वान् ऐसा नहीं करता है, किन्तु बाहर के सब पदार्थों को ब्रह्म रूप वरके देखता है ।

प्रश्न—ऐसे ज्ञानवान् की कौन दशा होती है ?

उत्तर—अहो, वहा आश्चर्य है कि शान्तचित्तमाना कोई ज्ञानी एक अलौकिक उत्कृष्ट तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है, उस दशा का वर्णन चर्ममुख से बाहर है ॥ १० ॥



मूलम् ।

सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः ।

समस्तवासनामुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते ॥ ११ ॥

पदच्छेदः ।

सर्वत्र, दृश्यते, स्वस्थः, सर्वत्र, विमलाशयः, समस्तवासनामुक्तः,  
मुक्तः, सर्वत्र, राजते ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
मुक्तः=जीवन्मुक्तः ज्ञानी		दृश्यते=दिखलाई देता है	
सर्वत्र=सब जगह		च=और	
स्वस्थः=शान्त हुआ		सर्वत्र=सब जगह	
सर्वत्र=सब जगह		समस्तवासना- = { सब वासनाओं	
विमलाशयः= { निर्मल अन्तःक- रणवाला		मुक्तः = { से रहित	
		राजते=विराजता है ॥	

भावार्थः ।

अब ज्ञानवान् की अलौकिक दशा को दिखलाते हैं—

हे शिष्य ! विद्वान् जीवन्मुक्त सर्वत्र सुख-दुःख में स्वस्थचित रहता है । अज्ञानी सुख में हर्ष को और दुःख में शोक को प्राप्त होता है । ज्ञानवान् सुख-दुःख और हर्ष-शोक को बराबर जानकर, अपने आत्मानन्द में मग्न रहता है ।

अज्ञानी मित्र से राग और शत्रु से द्वेष करता है । ज्ञानवान् शत्रु और मित्र में समदृष्टिवाला रहता है । विद्वान् सम्पूर्ण विषय-वासनाओं से रहित होकर जीवन्मुक्त होता हुआ सम्पूर्ण अवस्थाओं में एकरस ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है ॥ ११ ॥

मूलम् ।

पश्यञ्छृण्वन् स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन् गृह्णन् वदन् व्रजन् ।

ईहितानीहितैर्मुक्तो मुक्त एव महाशयः ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, गृह्णन्, वदन्, व्रजन्, ईहितानीहितैः, मुक्तः, मुक्तः, एव, महाशयः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

पश्यन्=देखता हुआ

शृण्वन्=सुनता हुआ

स्पृशन्=स्पर्श करता हुआ

जिघ्रन्=सूँघता हुआ

अश्नन्=खाता हुआ

गृह्णन्=ग्रहण करता हुआ

वदन्=बोलता हुआ

व्रजन्=जाता हुआ

ईहितानीहितैः=राग-द्वेष से

मुक्तः=छूटा हुआ

एव=नीरक्षय करके ऐसा

महाशयः=महारामा पुरुष

मुक्तः=जानी है ॥

भावार्थः ।

सर्वत्र देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ और चलता हुआ भी इच्छा-द्वेष से रहित ही होता है । क्योंकि उसका चित्त महान् ब्रह्म विषे स्थित है, और इसी से वह जीवन्मुक्त है ॥ १२ ॥

मूलम् ।

न निन्दति न च स्तौति न हृष्यति न कुप्यति ।

न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरसः ॥१३॥

पदच्छेदः ।

न, निन्दति, न, च, स्तौति, न, हृष्यति, न, कुप्यति, न, ददाति,  
न, गृह्णाति, मुक्तः, सर्वत्र, नीरसः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

न निन्दति=न निन्दा करता है

च=और

न स्तौति=न स्तुति करता है

न हृष्यति= { न हर्ष को प्राप्त  
होता है

न कुप्यति=न क्रोध करता है

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

न ददाति=न देता है

न गृह्णाति=न लेता है

मुक्तः=शान्ति

सर्वत्र=सर्वत्र

नीरसः=रस-रहित है ॥

भावार्थ ।

अब जीवन्मुक्त के लक्षण को दिखाते हैं—

जो जीवन्मुक्त<sup>1</sup> है, वह न किसी की निन्दा करता है और न स्तुति करता है, और न हर्ष करता है, और न कभी कोंप को प्राप्त होता है, याने जो संसारी पुरुष जीवन्मुक्त को आदर-सम्मान करते हैं, वह उनकी स्तुति नहीं करता है, और जो उसको निरादर करते हैं; उनकी वह निन्दा नहीं करता है, और न वह अति उत्तम खान-पान आदिकों के प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, और न घृत-हीन वासी भोजन मिलने से वह शोक करता है, और न किसी से शरीर के निर्वाह के सिवाय अधिक वस्तु के ग्रहण करने की इच्छा करता है, और न किसी से लेकर दूसरे को देता है, और न किसी से किसी को कुछ दिलवाता है, किन्तु सदा वह अपने आपमें मग्न रहता है ।

प्रश्न—संसार में तो लोग नग्न रहनेवाले को जीवन्मुक्त कहते हैं, और कोई-कोई भिक्षा माँगकर खानेवाले को जीवन्मुक्त कहते हैं ।

उत्तर—संसारी लोग सकामी होते हैं । जो सकामी होते हैं, उनको नहीं मालूम होता है कि कौन ज्ञानी है, और कौन अज्ञानी है । और उनको सत्य-असत्य का विवेक भी नहीं होता है । वे दम्भ में फँसते हैं, जो हठ से वस्त्रों को त्यागकर मान के वास्ते नंगे रहते हैं, और शिष्यों के कान फूँकते हैं । एक से द्रव्य लेकर दूसरे को देते हैं, या नाम के वास्ते मठादिकों को बनाते हैं । वे जीवन्मुक्त कदापि नहीं हो सकते हैं । वे भी चेले की तरह सकामी हैं । उनके चेलों में स्त्री-पुत्रादिकों की कामना भरी है, उनके कल्याण के लिये वे चेले नंगों को गुरु बनाकर उनकी सेवा करते हैं । जिस महात्मा का चित्त विषय-भोग में है, वह अवश्य नरक को प्राप्त होता है । चाहे वह कितना ही नंगा रहे और पाखण्ड करे ।

दृष्टान्त—एक महात्मा एक राजा के मन्दिर में बहुत काल तक रहे । एक दिन वे मर गए । उसी दिन राजा भी मर गया ।

उस नगर के बाहर जंगल में एक तपस्वी योगी रहते थे । एक आदमी उनके पास बैठा था । तपस्वी कुछ सोच करके हँसने लगे, तब उस आदमी ने पूछा कि महाराज बिना प्रयोजन आज आप क्यों हँसते हो ? उन्होंने कहा, हम बिना प्रयोजन नहीं हँसते हैं, किन्तु राजा के पास जो महात्मा रहते थे, वे मर गये हैं और राजा भी मर गया है । और राजा स्वर्ग में गया और महात्मा नरक में गये । क्योंकि राजा का मन महात्मा में रहता था । इसी वास्ते वह स्वर्ग में गया । उसको वैराग्य बना रहता था और महात्मा का मन

राजभोगों में रहता था और वैराग्य से शून्य रहता था, इसी वास्ते वे नरक को गए ।

दार्ष्टान्त—चाहे कितना ही नगा रहे, वह कदापि जीवन्मुक्त नहीं हो सकता है । जो वासना से रहित है, वही जीवन्मुक्त है ॥ १३ ॥

मूलम् ।

सानुरागां स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम् ।  
अविह्वलमनाः स्वस्थो मुक्त एव महाशयः ॥१४॥

पदच्छेदः ।

सानुरागाम्, स्त्रियम्, दृष्ट्वा, मृत्युम्, वा, समुपस्थितम्, अविह्वल-  
मनाः, स्वस्थः, मुक्तः, एव, महाशयः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

सानुरागाम्=प्रीति-युक्त  
स्त्रियम्=स्त्री को  
वा=और  
समुपस्थितम्=समीप में स्थित  
मृत्युम्=मृत्यु को  
दृष्ट्वा=देखकर

अविह्वलमनाः= { व्याकुलता-रहित  
होता हुआ  
+च=और  
स्वस्थः=शान्त होता हुआ  
महाशयः=महापुरुष  
एव=निरचय करके  
मुक्तः=ज्ञानी है ॥

भानार्थ ।

अनुराग अर्थात् प्रीति के सहित स्त्री को देख करके -जिसका मन कामातुर नहीं होता है, और मृत्यु को समीप स्थित देखकर जिसका मन भय को नहीं प्राप्त होता है, किन्तु अपने आत्मानन्द में आनन्द रहता है, वही जीवन्मुक्त है ॥ १४ ॥

मूलम् ।

सुखे दुःखे नरे नार्यां संपत्सु च विपत्सु च ।  
विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः ॥ १५ ॥

पदच्छेदः ।

सुखे, दुःखे, नरे, नार्याम्, सम्पत्सु, च, विपत्सु, च, विशेषः, न,  
एव, धीरस्य, सर्वत्र, समदर्शिनः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
सुखे=सुख विपे		विपत्सु=विपत्तियों में	
दुःखे=दुःख विपे		सर्वत्र=सर्वत्र	
नरे=नर विपे		समदर्शिनः=समदर्शी	
नार्याम्=नारी विपे		धीरस्य=ज्ञानी का	
सम्पत्सु=सम्पत्तियों में		विशेषः न=भेद नहीं है ॥	

भावार्थ ।

जिसका चित्त सुख-दुःख में सम रहता है, अर्थात् शरीर को अति सुख होने से जो हर्ष को नहीं प्राप्त होता है, और शरीर को खेद होने से जो शोक को नहीं प्राप्त होता है, और सम्पदा के प्राप्त होने पर जिसको हर्ष नहीं होता है, और विपदा के आने पर जिसको शोक नहीं होता है, वही जीवन्मुक्त है ॥ १५ ॥

मूलम् ।

न हिंसा नैव कारुण्यं नौद्धत्यं न च दीनता ।  
नाश्चर्यं नैव च क्षोभः क्षीणसंस्मरणे नरे ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ।

न, हिंसा, न, एव, कारुण्यम्, न, औद्धत्यम्, न, च, दीनता,  
न, आश्चर्यम्, न, एव, च, क्षोभः, क्षोणसंसरणे, नरे ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
क्षीणसंसरणो=	{ क्षीण हुआ है संसार जिसका ऐसे	न औद्धत्यम्=न अनग्रता है	च=और
नरे=मनुष्य धिपे		न दीनता=न दीनता है	
न हिंसा=न हिंसा है		न आश्चर्यम्=न आश्चर्य है	
न कारुण्यम्=न दयालुता है		न क्षोभः=न क्षोभ है ॥	

भावार्थः ।

जो वासना-रहित पुरुषों के साथ न द्रोह करता है और न दीन के साथ करुणा करता है, और न शारीरिक सुख के लिये किसी के आगे हाथ बढाता है, और न कभी आश्चर्य को प्राप्त होता है, और न कभी क्षोभ को प्राप्त होता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त है ॥ १६ ॥

मूलम् ।

न मुक्तो विषयद्वेषा न वा विषयलोलुपः ।

असंसक्तमनाः नित्यं प्राप्ताप्राप्तमुपाश्नुते ॥१७॥

पदच्छेदः ।

न, मुक्तः, विषयद्वेषा, न, वा, विषयलोलुपः, असंसक्तमनाः,  
नित्यम्, प्राप्ताप्राप्तम्, उपाश्नुते ॥

सत्रहवाँ प्रकरण ।

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्द
मुक्तः=जीवन्मुक्त		असंसक्तमनाः=	आसक्ति-रा मनवाला हो हुआ
न विषयद्वेषा=	{ न विषय में द्वेष करनेवाला है	प्राप्ताप्राप्तम्=	{ प्राप्त और अप्राप्त वस्तु को
वा=और		उपाश्रुते=भोगता है ॥	
न विषयलोलुपः=	{ न विषयों में लोभी है		
नित्यम्=सदा			

भावार्थ ।

जो विषयों के साथ द्वेष नहीं करता है, और जो विषय-लोलुप नहीं है, किन्तु असंसक्त मनवाला है, अर्थात् जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है । प्रारब्धवश से जो प्राप्त होता है, उसको भोगता है । जो नहीं प्राप्त होता, उसकी इच्छा नहीं करता है, वही जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ १७ ॥

मूलम् ।

समाधानासमाधानहिताहितविकल्पनाः ।

शून्यचित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थितः ॥१८॥

पदच्छेदः ।

समाधानासमाधानहिताहितविकल्पनाः, शून्यचित्तः, न, जानाति, कैवल्यम्, इव, संस्थितः ॥



पदच्छेदः ।

न, हिंसा, न, एव, कारुण्यम्, न, औद्धत्यम्, न,  
न, आश्चर्यम्, न, एव, च, क्षोभः, क्षोणसंसारणे, नरे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

क्षीणसंसारणे = { क्षीण हुआ है संसार  
जिसका ऐसे

नरे = मनुष्य विषे

न हिंसा = न हिंसा है

न कारुण्यम् = न दयालुता है

अन्वयः ।

न औद्धत्यम् = न अनम्रता  
च = और

न दीनता = न दीनता है

न आश्चर्यम् = न आश्चर्य है

न क्षोभः = न चोभ है ॥

भावार्थः ।

जो वासना-रहित पुरुषों के साथ न द्रोह करता है और न  
के साथ करुणा करता है, और न शारीरिक सुख के लिये किसी  
आगे हाथ बढ़ाता है, और न कभी आश्चर्य को प्राप्त होता है, और  
न कभी क्षोभ को प्राप्त होता है, वही पुरुष जीवन्मुक्त है ॥ १६ ॥

मूलम् ।

न मुक्तो विषयद्वेषा न वा विषयलोलुपः ।

असंसक्रमनाः नित्यं प्राप्ताप्राप्तमुपाश्नुते ॥१७॥

पदच्छेदः ।

न, मुक्तः, विषयद्वेषा, न, वा, विषयलोलुपः,  
नित्यम्, प्राप्ताप्राप्तम्, उपाश्नुते ॥

सत्रहवाँ प्रकरण ।

कुर्वन् = { कर्म करता | न लिप्यते = { लिपायमे  
हुआ भी | नहीं होता

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! जो विद्वान् 'अहं' मम अभिमान से शून्य है, अर्थात् 'यह मैं हूँ' और 'यह मेरा है', इस प्रकार के अभिमान से भी जो रहित है, और अधिग्रानचेतन से अतिरिक्त किञ्चित् भी सत्य नहीं है, ऐसे निश्चयवाला जो पुरुष है, वह सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है । क्योंकि उसके कर्तृत्व अभिमान नहीं है ॥ १२ ॥

मूलम् ।

मनःप्रकाशसंमोहस्वप्नजाड्यविवर्जितः ।

दशां कामपि संप्राप्तो भवेद्गलितमानसः ॥२०॥

पदच्छेदः ।

मनःप्रकाशसंमोहस्वप्नजाड्यविवर्जितः, दशाम्, काम्, अपि, संप्राप्तः, भवेत्, गलितमानसः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
गलित- मानसः	} गलित हुआ है मन जिसका, ऐसा ज्ञानी	अपि=भी	शब्दार्थ
मनःप्रका- शसंमोह- स्वप्नजाड्य- विवर्जितः		काम्=किस अनिर्वचनीय दशाम्=दशा को संप्राप्तः=प्राप्त भवेत्=होता है	

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

शून्यचित्तः= { बाहर से शून्य  
चित्तवाला ज्ञानी

समाधानासमा-  
धानहिताहितः= { समाधान और  
असमाधान, हित  
और अहित की  
विकल्पनाः { कल्पना को

न=नहीं

भावार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

जानाति=जानता है

+ परन्तु=परन्तु

कैवल्यम्=मोक्ष-रूप

इव=सा

संस्थितः=स्थित है ॥

जो समाधानता और असमाधानता को अर्थात् हित और अहित की कल्पना को नहीं जानता है, ऐसा शून्य चित्तवाला जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ है, वही जीवन्मुक्त है ॥ १८ ॥

मूलम् ।

निर्ममो निरहङ्कारो न किञ्चिदिति निश्चितः ।  
अन्तर्गलितसर्वाशः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ १९ ॥

पदच्छेदः ।

निर्ममः, निरहङ्कारः, न, किञ्चित्, इति, निश्चितः, अन्तर्गलित-  
सर्वाशः, कुर्वन्, अपि, न, लिप्यते ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्तर्गलितसर्वाशः= { अन्यन्तर में  
गलित हो  
गई है सब  
आशाएँ जि-  
सकी, ऐसा  
पुरप

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

निर्ममः=ममता-रहित है

निरहङ्कारः=अहङ्कार रहित है

न किञ्चित्=कुछ भी नहीं है

इति=ऐसा

निश्चितः= { निरचय करता  
हुआ भी

## सत्रहवाँ प्रकरण ।

कुर्बन् = { कम करता | न लिप्यते = { लिपायमे १।  
हुआ भी } नहीं होते

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! जो विद्वान् 'अहं' मम अभिमान से शून्य है, अर्थात् 'यह मैं हूँ' और 'यह मेरा है', इस प्रकार के अभिमान से भी जो रहित है, और अधिष्ठानचेतन से अतिरिक्त किञ्चित् भी सत्य नहीं है, ऐसे निश्चयवाला जो पुरुष है, वह सर्व व्यवहारों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है । क्योंकि उसको कर्तृत्व अभिमान नहीं है ॥ १६ ॥

मूलम् ।

मनःप्रकाशसंमोहस्वप्नजाड्यविवर्जितः ।

दशां कामपि संप्राप्तो भवेद्गलितमानसः ॥२०॥

पदच्छेदः

मनःप्रकाशसंमोहस्वप्नजाड्यविवर्जितः, दशाम्, काम्, अपि, संप्राप्तः, भवेत्, गलितमानसः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
गलित- मानसः }	गलित हुआ है मन जिसका, ऐसा शानी	अपि=भी	
मन प्रका- शसंमोह- स्वप्नजाड्य- विवर्जितः }	मन के प्रकाश से चित्त को भ्रान्ति से =स्वप्न और जड़ता अर्थात् सुषुप्ति से वर्जित होता हुआ	काम्=किस अनिर्वचनीय	
		दशाम्=दशा को	
		संप्राप्तः=प्राप्त	
		भवेत्=होता है	

## अठारहवाँ प्रकरण ।



मूलम् ।

यस्य बोधोदये तावत्स्वप्नवद्भवति भ्रमः ।

तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

यस्य, बोधोदये, तावत्, स्वप्नवत्, भवति, भ्रमः, तस्मै, सुखैक-  
रूपाय, नमः, शान्ताय, तेजसे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यस्य बोधोदये = { जिसके बोध  
के उदय होने  
पर

तावत् = पहले

भ्रमः = भ्रान्ति

स्वप्नवत् = स्वप्न के समान

भवति = होती है

तस्मै = उस

सुखैकरूपाय = आनन्द-रूप

शान्ताय = शान्त-रूप

च = और

तेजसे = तेजोमय रूप को

नमः = नमस्कार है ॥

भावार्थः ।

अब अठारहवें प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं—

इस प्रकरण में शान्ति की प्रधानता को दिखलाते हुए प्रथम शान्त-रूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं । जो आत्मा शान्त-रूप

भावार्थ ।

हे शिष्य ! गलित हो गई है अन्तःकरण की वृत्ति जिसकी, अर्थात् जिस विद्वान् के मन के सङ्कल्प-विकल्पादिक नहीं फुरते हैं, और दूर हो गया है स्त्री-पुत्रादिकों से मोह जिसका, अन्तरात्मा की तरफ है चित्त का प्रवाह जिसका, और जो जड़ता से रहित है, अपने आत्मानन्द में सदैव ही स्थित है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ २० ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां सप्तदशकं प्रकरणं समाप्तम् ।

## अठारहवाँ प्रकरण ।



मूलम् ।

यस्य बोधोदये तावत्स्वप्नवद्भवति भ्रमः ।

तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

यस्य, बोधोदये, तावत्, स्वप्नवत्, भवति, भ्रमः, तस्मै, सुखैक-  
रूपाय, नमः, शान्ताय, तेजसे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यस्य बोधोदये = { जिसके बोध  
के उदय होने  
पर

तावत् = पहले

भ्रमः = भ्रान्ति

स्वप्नवत् = स्वप्न के समान

भवति = होती है

तस्मै = उस

सुखैकरूपाय = आनन्द-रूप

शान्ताय = शान्त-रूप

च = और

तेजसे = तेजोमय रूप को

नमः = नमस्कार है ॥

भावार्थः ।

अब अठारहवें प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं—

इस प्रकरण में शान्ति की प्रधानता को दिखलाते हुए प्रथम  
शान्त-रूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं । जो आत्मा शान्त-रूप

भार्य्य ।

हे शिष्य ! गलित हो गई है अन्त करण की वृत्ति जिसकी, अर्थात् जिस विद्वान् के मन के सङ्कल्प-विकल्पादिक नहीं फुरते हैं, और दूर हो गया है स्त्री पुत्रादिकों से मोह जिसका, अन्तरात्मा की तरफ है चित्त का प्रवाह जिसका, और जो जड़ता से रहित है, अपने आत्मानन्द में सदैव ही स्थित है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है ॥ २० ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां सप्तदशक प्रकरण समाप्तम् ।

---



## अठारहवाँ प्रकरण ।



मूलम् ।

यस्य बोधोदये तावत्स्वप्नवद्भवति भ्रमः ।  
तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

यस्य, बोधोदये, तावत्, स्वप्नवत्, भवति, भ्रमः, तस्मै, सुखैक-  
रूपाय, नमः, शान्ताय, तेजसे ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
यस्य बोधोदये=	जिसके बोध के उदय होने पर	तस्मै=उस	
तावत्=पहले		सुखैकरूपाय=आनन्द-रूप	
भ्रमः=भ्रान्ति		शान्ताय=शान्त-रूप	
स्वप्नवत्=स्वप्न के समान		च=और	
भवति=होती है		तेजसे=तेजोमय रूप को	
		नमः=नमस्कार है ॥	

भावार्थ ।

अब अठारहवें प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं—

इस प्रकरण में शान्ति की प्रधानता को दिखलाते हुए प्रथम शान्त-रूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं । जो आत्मा शान्त-रूप

है, जिसमें सङ्कल्प-विकल्प नहीं उत्पन्न होते हैं, और जो सुख और प्रकाश-स्वरूप है, जिसके स्वरूप के ज्ञान होते ही जगद्भ्रम स्वप्न की तरह मिथ्या प्रतीत होने लगता है, उस आत्मा को नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

मूलम् ।

अर्जयित्वाऽखिलानर्थान् भोगान्नाप्नोति पुष्कलान् ।  
नहिसर्वपरित्यागमन्तरेण सुखी भवेत् ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

अर्जयित्वा, अखिलान्, अर्थान्, भोगान्, आप्नोति, पुष्कलान्, न, हि, सर्वपरित्यागम्, अन्तरेण, सुखी, भवेत् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अखिलान्=संपूर्ण

अर्थान्=धनों को

अर्जयित्वा=तोड़ करके

पुष्कलान्=सब

भोगान्=भोगों को

+पुरुषः=पुरुष

हि=अवश्य

आप्नोति=प्राप्त होता है

परन्तु=परन्तु

सर्वपरित्यागम्=सबके परित्याग के

अन्तरेण=विना

सुखी=सुखी

न भवेत्=नहीं होता है

भावार्थः ।

प्रश्न—धनी लोग भी तो संसार में सुखी दिखाई पड़ते हैं, उनमें और ज्ञानी में क्या भेद है ?

उत्तर—अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! धनी लोग स्त्री-पुत्र धनादिक अर्थों को संग्रह करके उनको भोगते हैं, और उनके नाश होने पर अत्यन्त दुःखी होते हैं । देखो—

पृथिवीं धनपूर्णां चेदिमां सागरमेखलाम् ।

प्राप्नोति पुनरप्येय स्वर्गमिच्छति नित्यशः ॥ १ ॥

यदि समुद्र पर्यन्त धन करके पूर्ण यह पृथिवी पुरुष को मिल भी जावे, तो भी वह स्वर्ग की नित्य ही इच्छा करता है ॥ १ ॥

संसार में धनवान् ही प्रायः करके रोगी दीखते हैं । किसी धनी को जुधा का, किसी को प्रमेह आदि का रोग बना ही रहता है । धनियों की परस्पर स्पर्धा बहुत रहती है । उनको राजा और चोरों से भय नित्य ही बना रहता है । चोरों के भय से रात्रि को नींद नहीं आती है । धन के संग्रह करने में और धन की रक्षा करने में उनको बड़ा क्लेश होता है । संसार में जितना दुःख धनियों को है, उतना दुःख गरीबों को नहीं है । धन करके जो विषय-भोगादिकों से सुख है, वह सुख नाशी है, तुच्छ है, इसवास्ते संपूर्ण धनादिक विषय-भोगों के त्याग विना सुख-रूपी आत्मा की प्राप्ति कदापि नहीं होती है । जैसे बंध्या के पुत्र को असत् जान लेना ही उसका त्याग है । विना असत् जानने के उसका त्याग बनता नहीं है । क्योंकि जो वस्तु तीनों कालों में है ही नहीं, उसका त्याग कैसे किया जावे, इस लिये उसका मिथ्या जानना ही त्याग है । इसी तरह संकल्प-विकल्प-रूपी जितना जगत् है, उसको असत् जान लेना ही उसका त्याग है, इसी वार्ता को अब दिखलाते हैं ॥ २ ॥

मूलम् ।

कर्तव्यदुःखमार्तण्डज्वालादग्धान्तरात्मनः ।

कुतः प्रशमपीयूषधारासारमृते सुखम् ॥ ३ ॥

पदच्छेदः ।

कर्तव्यदुःखमार्तण्डज्वालादग्धान्तरात्मन , कुत , प्रशमपीयूषधारा-  
सारम् , मृते, सुखम् ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

कर्तव्यदुःख-  
मार्तण्डज्वाला-  
दग्धान्त-  
रात्मन = { कर्म जन्य दुःख-  
रूपी सूर्य क ज्वा-  
ला से भस्म हुआ  
है मन जिसका,  
ऐसे पुरुष को

प्रशमपीयूष-  
धारासारम् = { शान्ति रूपी  
अमृत की धारा  
की दृष्टि  
मृते=विना  
सुखम्=सुख  
कुत =कहाँ है ॥

भावार्थ ।

कर्तव्य-रूपी जितने कर्म हैं, उनसे जन्य जो दुःख हैं, वही एक  
सूर्य की तत्परूपी अग्नि है । उस अग्नि करके जिसका मन दग्ध हो  
रहा है, उसको शान्ति-रूपी अमृत-जल के विना कदापि सुख की  
प्राप्ति नहीं हो सकती है ॥ ३ ॥

मूलम् ।

भवोऽयं भावनामात्रो न किञ्चित्परमार्थतः ।

नास्त्यभावः स्वभावानां भावाभावविभाविनाम् ४

पदच्छेदः ।

भवः, अयम्, भावनामात्रः, न, किञ्चित्, परमार्थतः, न, अस्ति, अभावः, स्वभावानाम्, भावाभावविभाविनाम् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
अयम्=यद्		हि=श्लोकि	
भवः=संसार		भावभाववि- =	{ भाव-रूप और अ-
भावनामात्र' =	{ भावनामात्र है	भाविनाम् =	{ भाव-रूप पदार्थों
	{ अर्थात् संकल्प-मात्र है		{ में स्थित हुए
परमार्थत' = परमार्थ से		स्वभावानाम् = स्वभावों का	
किञ्चित् = कुछ		अभावः = अभाव	
न = नहीं है		न अस्ति = नहीं होता है ॥	

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! यह जगत् संकल्प-मात्र है । परमार्थ-दृष्टि से तो आत्मा से अतिरिक्त कोई भी वस्तु भाव-रूप अर्थात् सत्य-रूप नहीं है, आत्मा ही सत्य-रूप है, और संपूर्ण प्रपंच अभाव-रूप है अर्थात् असत्य-रूप है ।

प्रश्न—अभाव-रूप प्रपंच भी कालादिकों के वश से भाव स्वभाववाला हो जायेगा ।

उत्तर—भाव-रूप और अभाव-रूप में स्थित स्वभावों का अभाव-रूप कदापि नहीं हो सकता है अर्थात् भाव पदार्थ का अभाव कदापि नहीं होता है, और अभाव पदार्थ का भाव कदापि नहीं होता है । जैसे मनोराज के और स्वप्न के पदार्थों का कदापि भाव नहीं होता है, वैसे प्रपंच के पदार्थों का कदापि भाव नहीं होता है । जैसे मनोराज स्वप्न के पदार्थ सब संकल्प-मात्र हैं, वैसे जाग्रत् के पदार्थ

भी सत्र सकल्प मात्र हैं। सकल्प के दूर होने से ससार-रूपी ताप भी दूर हो जाता है। सकल्पों का नाश ही मोक्ष का हेतु है ॥ ४ ॥

पूलम् ।

न दूरं न च संकोचः लब्धमेवात्मनः पदम् ।  
निर्विकल्पं निरायासं निर्विकारं निरञ्जनम् ॥ ५ ॥

पदच्छेद ।

न, दूरम्, न, च, संकोचात्, लब्धम्, एव, आत्मन, पदम्, निर्विकल्पम्, निरायासम्, निर्विकारम्, निरञ्जनम् ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
आत्मन = आत्मा का		संकोचात्	{ संकोच स प्राप्त
पदम् = स्वरूप		लब्धम् =	{ नहीं है अर्थात्
दूरम् = दूर		न	{ परिच्छिन्न नहीं है
न = नहीं ?		निर्विकल्पम् =	सकल्प रहित है
च = और		निरायासम् =	प्रयत्न रहित है
		निर्विकारम् =	विकार-रहित है
		निरञ्जनम् =	दुःख रहित है ॥

भाषार्थ ।

प्रश्न—सकल्प के दूर करने-मात्र में कैसे आत्मा-रूपी अमृत की प्राप्ति होती है ?

उत्तर—आत्मा किसी को दूर नहीं है और आत्मा परिच्छिन्न भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र व्यापक है, इसी वास्ते आत्मा नित्य ही प्राप्त है। मन के सकल्प के रण में अज्ञानी पुरुष आत्मा को अप्राप्त की नाई मानते हैं ।

जैसे किसी पुरुष के कंठ में स्वर्ण का भूषण पड़ा है, तथापि उसको भ्रम के वश से ऐसा ज्ञान होता है कि मेरा भूषण कहीं खो गया है। यद्यपि वह भूषण उसको प्राप्त भी है, परंतु भ्रम करके अप्राप्त की तरह प्रतीत होता है। वैसे ही यह आत्मा सर्व पुरुषों को नित्य प्राप्त भी है, पर अपने स्वरूप के अज्ञान होने से संकल्पों के वश से अप्राप्त की तरह हो रहा है। आत्मा विकल्पों से अतीत है अर्थात् मन के विकल्पों के अभाव हो जाने से जाना जाता है। एवं वह विकारों से भी रहित है, और उपाधियों से शून्य है और सदैव एकरस है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

व्यामोहमात्रविरतौ स्वरूपादानमात्रतः ।

वीतशोका विराजन्ते निरावरणदृष्टयः ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

व्यामोहमात्रविरतौ, स्वरूपादानमात्रतः, वीतशोकाः, विराजन्ते, निरावरणदृष्टयः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

व्यामोहमात्र-  
विरतौ = { विशेष मोह के  
निवृत्त होने पर

स्वरूपादान-  
मात्रतः = { अपने स्वरूप के  
ग्रहणमात्र से ही

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

वीतशोकाः=शोक से रहित

निरा-  
वरण = { आवरण-रहित  
दृष्टिवाले अर्थात्  
दृष्टयः { ज्ञानी पुरुष

विराजन्ते=शोभायमान होते हैं ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—जब आत्मा नित्य ही प्राप्त है, तब फिर शास्त्र के विचार की और आचार्य के उपदेश की क्या आवश्यकता है ?

**उत्तर**—अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! अज्ञानरूपी मोह का आवरण सबके अन्तःकरण में हो रहा है। उस आवरण करके आत्मा का साक्षात्कार किसी को नहीं होता है। उस आवरण के दूर करने के लिये गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है।

जैसे दश पुरुषों ने एक नदी के पार उतर करके कहा कि सबको गिनती कर लो, कोई नदी में तो बह नहीं गया है। उनमें से एक पुरुष जब गिनती करने लगा, तब उसने अपने को छोड़कर औरों को गिना, तब नव आदमी गिनती में आए। उसने कहा, दशवाँ पुरुष नदी में बह गया है। फिर दूसरे ने गिना, तब उसने भी अपने को छोड़ करके ही गिना, तब भी नव ही पुरुष पाए गए। इसी तरह हर एक ने अपने को छोड़ करके गिना और एक कम पाया। तब उन सबको निश्चय हो गया कि दशवाँ पुरुष नदी में बह गया, तो फिर वे सब मिलकर रोने लगे। उधर से एक बुद्धिमान पुरुष आया, उसने उनको रोते देखकर पूछा, तुम क्यों रोते हो ? उन्होंने कहा, हम दश आदमी नदी से पार उतरे, उनमें से एक आदमी नदी में बह गया है। उनकी वार्ता को सुनकर उस आदमी ने जब उनको गिना, तब वे दश पूरे थे। उसने जाना ये सब मूर्ख हैं। तब उनसे कहा, हमारे सामने तुम फिर गिनो। उसके सामने जब एक उनमें से गिनने लगा, तब उसने अपने को न गिना, और कहा केवल नव हैं। तब उसने कहा, दशवाँ तू है। तब उसको ज्ञान हुआ कि हम सब पूरे हैं, कोई भी बहा नहीं।

दार्ष्टान्त ।

अज्ञान के बश होकर जो अपने आत्मा को तीर्थों में और पर्वतों



में खोजता फिरता है, वह दशवें पुरुष की तरह अपने को नहीं जानता है । जब गुरु उसको उपदेश करता है, तब वह जानता है कि सुख-रूप आत्मा मैं ही हूँ । इसलिये गुरु और शास्त्र की भी आवश्यकता है ।

तात्पर्य यह कि जिसने गुरु और शास्त्र के उपदेश को श्रवण करके अपने स्वरूप का निश्चय कर लिया है, उसके अन्तःकरण में फिर मोह-रूपी आवरण कदापि नहीं रहता है, किन्तु वह संसार में शोभा को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

समस्तं कल्पनामात्रमात्मा मुक्तः सनातनः ।  
इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत् ॥७॥

पदच्छेदः ।

समस्तम्, कल्पनामात्रम्, आत्मा, मुक्तः, सनातनः, इति, विज्ञाय, धीरः, हि, किम्, अभ्यस्यति, बालवत् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
समस्तम्=सब जगत्		इति=ऐसा	
कल्पनामात्रम्=कल्पना-मात्र है		विज्ञाय=जान करके	
आत्मा=आत्मा		धीरः=पंडित	
मुक्तः=मुक्त है		बालवत्=बालकों की नाई	
च=और		किम्=क्या	
सनातनः=सनातन है		अभ्यस्यति=अभ्यास करता है ॥	

भावार्थः ।

संपूर्ण जगत् मन की कल्पनामात्र है ।

शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा न वै बध्येत कर्हिचित् ।

बन्धमोक्षौ मनःसंस्थौ तस्मिञ्छान्ते प्रशाम्यति ॥ १ ॥

आत्मा शुद्ध है, नित्यमुक्त है, कदापि वह बंधायमान नहीं है, बंध और मोक्ष मन में स्थित हैं । उस मन के शान्त होने से बंध और मोक्ष भी शान्त हो जाते हैं ॥ १ ॥

आत्मा नित्यमुक्त है, सनातन है, ऐसा निश्चय करके विद्वान् ज्ञानी बालक की नाईं चेष्टा करता है ॥ ७ ॥

मूलम् ।

आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावाभावौ च कल्पितौ ।  
निष्कामः किं विजानाति किं ब्रूते च करोति किम् ॥८॥

पदच्छेदः ।

आत्मा, ब्रह्म, इति, निश्चित्य, भावाभावौ, च, कल्पितौ, निष्कामः, किम्, विजानाति, किम्, ब्रूते, च, करोति, किम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

आत्मा=जीवारमा

ब्रह्म=ब्रह्म है

च=और

भावाभावौ=भाव और अभाव

कल्पितौ=कल्पित है

इति=ऐसा

निश्चित्य=निश्चय करके

निष्कामः=कामना-रहित पुरुष

किम्=क्या

विजानाति=जानता है

किम्=क्या

ब्रूते=ब्रूता है

च=और

किम्=क्या

करोति=करता है ॥

भावार्थ ।

त्वं पद का अर्थ जो जीवात्मा है, और तत्पद का अर्थ जो ब्रह्म है, दोनों के अभेद को निश्चय करके भाव और अभाव अर्थात् भाव जो घटादि पदार्थ हैं, और उनका जो अभाव है, ये दोनों अधिष्ठान-चेतन में कल्पित हैं । इस प्रकार समस्त जगत् को तुच्छ जानकर जिस विद्वान् की अविद्या नष्ट हो गई है, वह किसके जानने की और कथन करने की इच्छा करता है, किंतु किसी की भी नहीं करता है, और न वह किसी कार्य को करता है । क्योंकि अब उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है ॥ ८ ॥

मूलम् ।

अयं सोऽहमयं नाहमिति क्षीणा विकल्पनाः ।  
सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः ॥६॥

पदच्छेदः ।

अयम्, सः, अहम्, अयम्, न, अहम्, इति, क्षीणाः, विकल्पनाः,  
सर्वम्, आत्मा, इति, निश्चित्य, तूष्णीभूतस्य, योगिनः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

सर्वम्=सय

आत्मा=आत्मा है

इति=ऐसा

निश्चित्य=निश्चय करके

तूष्णीभूतस्य=चुपचाप हुए

योगिनः=योगी की

इति=ऐसी

विकल्पनाः=कल्पनाएँ कि

अयम्=यह

सः=वह

अहम्=मैं हूँ

अयम्=यह

अहम्=मैं

न=नहीं हूँ

क्षीणाः=क्षीण हो जाती हैं ॥

भारार्थ ।

जिस विद्वान् ने ऐसा निश्चय किया है कि सर्वरूप आत्मा ही है, वह बाह्य शरीरादिकों के व्यापार म रहित हो जाता है, और उही जीवमुक्त भी कहा जाता है । कहा भी है—

वृत्तिहीन मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि ।

एकीकृत्य त्रिभुच्येत योगोऽय मुख्य उच्यते ॥ १ ॥

क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा और परमात्मा में जो ध्येयाकारवृत्ति हुई थी, उस वृत्ति के नष्ट होने पर दोनों की एकता को निश्चय करके ही पुरुष मुक्त हो जाता है, अर्थात् जिस काल में मन नाना प्रकार की कल्पना से रहित हो जाता है, उमी काल में वह मुक्त कहा जाता है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

न विक्षेपो न चैकाग्र्यं नातिबोधो न मूढता ।

न सुखं न च वा दुःखमुपशान्तस्य योगिनः ॥ १० ॥

पद-छेद ।

न, विक्षेप, न, च, एकाग्र्यम्, न, प्रतिबोध, न मूढता, न, सुखम्, न, च, वा, दुःखम्, उपशा तस्य योगिन ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

उपशान्तस्य=शा त ह्ये

यागिन =योगी को

न विक्षेप =न विक्षेप हे

च=और

न एकाग्र्यम्=न एकाग्रता ह

न अतिबोध =न बोध ह

न मूढता=न मूर्खता है

न सुखम्=न सुख है

वा=और

न दुःखम्=न दुःख है ॥

भावार्थ ।

अब संकल्प से रहित मन के स्वरूप को दिखाते हैं ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! जिसका मन संकल्प-विकल्प, से रहित हो गया है, उसको न विक्षेप होता है, और न वह एकाग्रता के लिये उद्यम करता है । क्योंकि जिसको विक्षेप होता है, वही निरोध के लिये यत्न करता है । उसको पदार्थों का अत्यन्त ज्ञान या मूढ़ता नहीं होती है, और न उसको विषयजन्य सुख या दुःख होता है । क्योंकि वह केवल आत्मानन्द में मग्न है ॥ १० ॥

मूलम् ।

स्वराज्ये भैक्ष्यवृत्तौ च लाभालाभे जने वने ।

निर्विकल्पस्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः ॥११॥

पदच्छेदः ।

स्वराज्ये, भैक्ष्यवृत्तौ, च, लाभालाभे, जने, वने, निर्विकल्पस्वभाव-स्य, न, विशेषः, अस्ति, योगिनः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

स्वराज्ये=राज्य में

भैक्ष्यवृत्तौ=भिक्षा-वृत्ति में

लाभालाभे= { लाभ और अ-  
लाभ में

जने=मनुष्यों के समूह में

वा=या

वने=वन में

निर्विकल्प- { विकल्प-रहित  
स्वभावस्य= { स्वभाववाले

योगिनः=योगी को

विशेषः=कोई विशेषता

न अस्ति=नहीं है ॥

भावार्थ ।

जीवन्मुक्त को स्वर्ग के राज्य मिलने पर भी न उसको हर्ष होता

है, और भिन्ना-वृत्ति में न उसको विक्षेप होता है, और पदार्थ का लाभ और अलाभ, दोनों उसको बराबर हैं, वन में रहे वा घर में रहे, वह एकरस रहता है ॥ ११ ॥

मूलम् ।

क धर्मः क च वा कामः क चार्थः क विवेकता ।  
इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तस्य योगिनः ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

क, धर्मः, क, च, वा, कामः, क, च, अर्थः, क, विवेकता,  
इदम्, कृतम्, इदम्, न, इति, द्वन्द्वैः, मुक्तस्य, योगिनः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

इदम्=यह

कृतम्=किया गया है

इदम्=यह

न कृतम्=नहीं किया गया है

इति=इस प्रकार

द्वन्द्वैः=द्वन्द्व से

मुक्तस्य=छूटे हुए

योगिनः=योगी को

धर्मः=धर्म

क=कहाँ है

वा=और

कामः=काम

क=कहाँ है

च=और

अर्थः=अर्थ

क=कहाँ है

च=और

विवेकता=विचार

क=कहाँ है ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि स्थिर चित्तवाले योगी को धर्म, काम और अर्थ के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहता है, और इस काम को

मैंने कर लिया है, या इसको मैं करूँगा, इस प्रकार के द्वन्द्वों से जो रहित है, वही जीवन्मुक्त योगी है ॥ १२ ॥

मूलम् ।

कृत्यं किमपि न एव न कापि हृदि रञ्जना ।

यथा जीवनमेवेह जीवन्मुक्तस्य योगिनः ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

कृत्यम्, किम्, अपि, न, एव, न, का, अपि, हृदि, रञ्जना, यथा, जीवनम्, एव, इह, जीवन्मुक्तस्य, योगिनः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

जीवन्मुक्तस्य=जीवन्मुक्त

योगिनः=योगी को

कृत्यम्=कर्तव्य कर्म

किम् अपि न एव=कुछ भी नहीं है

च=और

न=न

हृदि=मन में

का अपि=कोई भी

रञ्जना अपि=अनुराग ही है

इह=इस संसार में

यथा=जैसे

जीवनम्=जीवन है

एव= { विसा ही है  
अर्थात् उसका  
भोग कर्मानु-  
सार है ॥

भावार्थः ।

प्रश्न—जब जीवन्मुक्त कोई क्रिया नहीं करेगा, तब उसके शरीर का निर्वाह कैसे होगा ?

उत्तर—जीवन्मुक्त पुरुष को कोई क्रिया अपने संकल्प से नहीं होती है, और न कुछ उसको करने-योग्य कर्म बाकी रहा है । क्योंकि उसको किसी पदार्थ में राग नहीं है, और राग के बिना कोई

कृत्य कर्म है नहीं, और राग-द्वेष का हेतु जो अविद्या है, वह उसकी नष्ट हो गई है। उसके शरीर की यात्रा प्रारब्धवश से होती है ॥ १३ ॥

मूलम् ।

क मोहः क च वा विश्वं क तद्ध्यानं क मुक्ता ।  
सर्वसंकल्पसीमायां विश्रान्तस्य महात्मनः ॥१४॥

पदच्छेदः ।

क, मोहः, क, च, वा, विश्वम्, क, तत्, ध्यानम्, क, मुक्ता,  
सर्वसंकल्पसीमायाम्, विश्रान्तस्य, महात्मनः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

सर्वसंकल्प-सीमायाम् = { संपूर्ण संकल्पों की  
सीमा में अर्थात्  
आरमभज्ञान में

विश्रान्तस्य=विश्रान्त हुए

योगिनः=योगी को

क=कहाँ

मोहः=मोह है

च=और

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

क=कहाँ

विश्वम्=संसार है

क=कहाँ

तत्=वह

ध्यानम्=ध्यान है

वा=और

क=कहाँ

मुक्ता=मुक्ति है ॥

भावार्थः ।

जीवन्मुक्त के सब संकल्प नष्ट हो जाते हैं, इसी से उसको मोह भी किसी पदार्थ में नहीं रहता है, इसी से उसकी दृष्टि में जगत् भी नहीं प्रतीत होना है, और न वह ध्यान की तथा मुक्ति की इच्छा करता है। क्योंकि उसके मन की पुरना कोई भी बाकी नहीं रही है ॥ १४ ॥



मूलम् ।

येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोतु वै ।  
निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति ॥१५॥

पदच्छेदः ।

येन, विश्वम्, इदम्, दृष्टम्, सः, न, अस्ति, इति, करोतु, वै,  
निर्वासनः, किम्, कुरुते, पश्यन्, अपि, न, पश्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

येन=जिस पुरुष के

इदम्=यह

विश्वम्=विश्व घट, पट आदि

दृष्टम्=देखा गया है

सः=वह

इति=पेसा

करोतु=जाने कि

तत्=वह अर्थात् विश्व

न=नहीं

अस्ति=है

वै=निश्चय करके

निर्वासनः=वासना-रहित पुरुष

किं कुरुते= { क्या करता है अर्थात्  
कुछ भी नहीं करता है

सः=वह

पश्यन्=देखता हुआ

अपि=भी

न पश्यति=नहीं देखता है ॥

भावार्थः ।

जिसने इस विश्व को अर्थात् जगत् को देखा है, वह यह नहीं  
कह सकता है कि जगत् है नहीं क्योंकि उसको जगत् होने और  
न होने की वासनाएँ बनी हैं, और जो निर्वासनिक पुरुष है, वह  
जगत् को देखता हुआ भी नहीं देखता है । क्योंकि वह सुषुप्ति-युक्त  
पुरुष की तरह मन के संकल्प और विकल्प से रहित है ॥ १५ ॥

मूलम् ।

येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मे त चिन्तयेत् ।

किं चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति ॥ १६ ॥

पदच्छेदः ।

येन, दृष्टम्, परम्, ब्रह्म, सः, अहम्, ब्रह्म, इति, चिन्तयेत्,  
किम्, चिन्तयति, निश्चिन्त, द्वितीयम्, यः, न पश्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

येन=जिस पुरुष द्वारा

यः=जो पुरुष

परम्=श्रेष्ठ

निश्चिन्तः=निश्चिन्त हुआ

ब्रह्म=ब्रह्म

द्वितीयम्=दूसरे को

दृष्टम्=देखा गया है

न पश्यति=नहीं देखता है

स. अहम्=सो मैं ब्रह्म हूँ

इति=इसा

स.=वह

चिन्तयेत्=विचार करे

किं चिन्तयति=क्या चिन्ता करेगा ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि जिस पुरुष ने सबसे अलग ब्रह्म को देखा है, उसी को ऐसा अनुभव है "अहं ब्रह्म" मैं ब्रह्म हूँ। उसी को सारा जगत् ब्रह्म-रूप दिखाई देता है, और वह सर्व चिन्ता से रहित होकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता है। और जो ब्रह्म का चिन्तन है कि मैं ब्रह्म हूँ, उसको भी वह अभ्यास नहीं करता है ॥ १६ ॥

मूलम् ।

दृष्टो येनात्मविज्ञेपो निरोधं कुरुते त्वंसौ ।

उदारस्तु न विज्ञेयः साध्याभावात्करोति किम् ॥ १७ ॥

पदच्छेदः ।

दृष्टः, येन, आत्मविक्षेपः, निरोधम्, कुरुते, तु, असाँ, उदारः,  
तु, न, विक्षिप्तः, साध्याभावात्, करोति, किम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

येन=जिस पुरुष द्वारा  
आत्मविक्षेपः=आत्मा में विक्षेप  
दृष्ट=देखा गया है  
असाँ=वह पुरुष  
निरोधम्=चित्त के निरोध को  
करोति=करता है  
तु=परन्तु  
उदारः=ज्ञानी पुरुष

तु=तो

न विक्षिप्तः=विक्षेप रहित है ।

+ अतः एव=इसलिये

साध्या- { साध्य के अभाव  
भावात् { होने के कारण

सः=वह

किम्=क्या

करोति= { करेगा अर्थात् कुछ  
नी न करेगा ॥

भावार्थः ।

जिस पुरुष ने अपने में विक्षेपों को देखा है, वही विक्षेपों के दूर करने के लिये चित्त के निरोध की चिन्ता को करता है । जिसको कोई विक्षेप नहीं रहा है, वह विक्षेप के दूर करने के लिये चित्त का निरोध भी नहीं करता है ॥ १७ ॥

मूलम् ।

धीरो लोकविपर्यस्तो वर्तमानोऽपि लोकवत् ।

न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति ॥१८॥

पदच्छेदः ।

धीरः, लोकविपर्यस्तः, वर्तमानः, अति, लोकवत्, न, समाधिम्,  
न, विक्षेपम्, न, लेपम्, स्वस्य, पश्यति ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
धीर = ज्ञानी पुरुष		समाधिम् = समाधि को	
लोकविपर्यस्त = { लोक में विक्षेप- रहित हुआ		न = न	
च = और		विक्षेपम् = विक्षेप को	
लोकवत् = लोक की तरह		च = और	
वर्तमान अपि = वर्तता हुआ भी		न = न	
न = न		लेपम् = अधन को	
त्वस्य = अपने		पश्यति = देखता है ॥	

भानार्थ ।

जो विद्वान् है, वह लोकों में विक्षेप से रहित होकर प्रारब्धशब्द  
लोकों में रह करके बाधिता अनुवृत्ति करके व्यवहार को करता हुआ  
भी अपने आत्मा में निर्लेप स्थित है । क्योंकि न वह समाधि करता  
है, और न विक्षेप को प्राप्त होता है ।

मूलम् ।

भावाभावविहीनो यस्तृप्तो निर्वासनो बुधः ।  
नैव किञ्चित् कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता ॥१६॥

पदच्छेद ।

भावाभावविहीन, य, तृप्त, निर्वासन, बुध, न, एव, किञ्चित्,  
कृतम्, तेन, लोकदृष्ट्या, विकुर्वता ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
य = जो		भावाभाव- विहीन = { भाव और अभाव से रहित है	
तृप्त = तृप्त हुआ		च = और	
बुध = ज्ञानी			

निर्वासनः=वासना रहित है  
लोकदृष्ट्या=लोक-दृष्टि में  
तेन=उस

कुर्वता=किये हुए करके  
किञ्चिन् एव=कुछ भी  
न कृतम्=नहीं किया गया है ॥

भावार्थ ।

जो विद्वान् अपने आत्मानन्द करके ही तृप्त है, वह स्तुति और निन्दा आदिकों से रहित है, क्योंकि वह लोक-दृष्टि से कर्ता हुआ भी अकर्ता है । आत्मज्ञान करके उसके कर्तृत्वादि अध्यास सब नष्ट हो गए हैं ॥ १६ ॥

मूलम् ।

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा नैव धीरस्य दुर्ग्रहः ।  
यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम् ॥२०॥

पदच्छेदः ।

प्रवृत्तौ, वा, निवृत्तौ, वा, न, एव, धीरस्य, दुर्ग्रहः, यदा, यत्,  
कर्तुम्, आयाति, तत्, कृत्वा, तिष्ठतः, सुखम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदा=जब कभी  
यत्=जो कुछ कर्म  
कर्तुम्=करने को  
आयाति=आ पड़ता है  
तत्=उसको  
सुखम्=सुखपूर्वक  
कृत्वा=करके

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तिष्ठतः=समाधिस्थ  
धीरस्य=शानी पुरुष को  
प्रवृत्तौ=प्रवृत्ति में  
वा=अथवा  
निवृत्तौ=निवृत्ति में  
दुर्ग्रहः=दुराग्रह  
न एव=कभी नहीं है ॥

भावार्थ ।

विद्वान् को प्रवृत्ति में और निवृत्ति में कोई आप्रह अर्थात् हठ नहीं है । क्योंकि वह कर्तृत्वादि अभिमान से रहित है । यदि प्रारब्ध के बश से विद्वान् को प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करने का पड़ जावे, तब वह सुख-पूर्वक उनको करता है, और असंग भी बना रहता है । क्योंकि उसको कर्तृत्वादिकों का अभिमान नहीं है ॥ २० ॥

मूलम् ।

निर्वासनो निरालम्बः स्वच्छन्दो मुक्तबन्धनः ।  
क्षिप्तः संसारवातेन चेष्टते शुष्कपर्णवत् ॥ २१ ॥

पदच्छेदः ।

निर्वासनः, निरालम्बः, स्वच्छन्दः, मुक्तबन्धन, क्षिप्तः, संसारवातेन, चेष्टते, शुष्कपर्णवत् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

निर्वासनः=वामना-रहित  
निरालम्बः=आलम्ब-रहित  
स्वच्छन्दः=स्वेच्छाचारी  
मुक्तबन्धनः=बन्धन-रहित  
ज्ञानिनः=ज्ञानी

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

संसारवातेन= { प्रारब्ध रूपी पवन  
करके

क्षिप्तः=प्रेरणा किया हुआ  
शुष्कपर्णवत्=सूखे पत्ते की तरह  
चेष्टते=चेष्टा करता है ॥

भावार्थ ।

प्रश्न—यदि ज्ञानी निर्वासनिक है, तब वह किस करके प्रेरणा किया हुआ कर्मों को करता है ।

उत्तर—ज्ञानी जिस हेतु करके निर्वासनिक है, उसी हेतु करके वह भिगलम्ब भी है; अर्थात् कर्तव्यता का जो अनुसंधान अर्थात् चिन्तन है, उससे वह रहित है, और स्वच्छन्द भी है अर्थात् वह राग-द्वेषादिकों के अधीन नहीं है । और बव का हेतु जो अज्ञान है, उससे रहित है । जैसे सूखा पत्ता वायु करके घेरा हुआ इधर-उधर डोलता है, वैसे ही ज्ञानी प्रारब्ध-रूपी वायु करके चलाया हुआ इधर-उधर फिरता है ॥ २१ ॥

मूलम् ।

असंसारस्य तु कापि न हर्षो न विपादता ।

स शीतलमना नित्यं विदेह इव राजते ॥ २२ ॥

पद-च्छेद ।

असंसारस्य, तु, क, अपि, न, हर्षः, न, विपादता, स, शीतल-मना, नित्यम्, विदेह, इव, राजते ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वय ।	शब्दार्थः ।
असंसारस्य=ज्ञानी को		विपादता=शोक है	
न=न		स=वह	
तु=तो		शीतलमना=शान्त मनवाला	
क अपि=कभी		नित्यम्=मदा	
हर्षः=हर्ष है		विदेह इव=मुक्त की तरह	
च=और		राजते=शोभापमान रहता है ॥	
न=न			

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! ज्ञानी संसार से रहित है ।

संसार का हेतु अर्थात् कारण अज्ञान जिसमें न रहे, उसी का नाम असंसारी है और हर्ष-विषादादि भी उसमें नहीं उत्पन्न होते हैं, इसी से वह शीतल हृदय है और विदेहमुक्त की तरह बह रहता है ॥ २२ ॥

मूलम् ।

कुत्रापि न जिहासाऽस्ति आशा वाऽपि न कुत्रचित् ।  
आत्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः ॥ २३ ॥

पदच्छेदः ।

कुत्र, अपि, न, जिहासा, अस्ति, आशा, वा, अपि, न, कुत्रचित्,  
आत्मारामस्य, धीरस्य, शीतलाच्छतरात्मनः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
आत्मारामस्य=	आत्मा में रमण करने- वाले	जिहासा=त्याग की इच्छा	अस्ति=है
शीतलाच्छतरात्मनः=		वा अपि=और	
धीरस्य=जानी को	शीतल और अति निर्मल चित्तवाले	कुत्रचित्=कहीं	आशा=प्रहण की इच्छा
n=n			अस्ति=है ॥
कुत्रापि=कहीं			

भावार्थः ।

हे शिष्य ! अपने आत्मा में ही जो नित्य रमण करनेवाला है, उसका चित्त भी स्थिर रहता है । उसकी इच्छा किसी पदार्थ के प्रहण और त्याग में नहीं रहती है और न वह अनर्थ को करता है, क्योंकि अनर्थ का हेतु उसमें बाकी नहीं रहा है ॥ २३ ॥



मूलम् ।

प्रकृत्या शून्यचित्तस्य कुर्वतोऽस्य यदृच्छया ।

प्राकृतस्येव धीरस्य न मानो नावमानता ॥ २४ ॥

पदच्छेदः ।

प्रकृत्या, शून्यचित्तस्य, कुर्वतः, अस्य, यदृच्छया, प्राकृतस्य, इव, धीरस्य, न, मानः, न, अवमानता ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

प्रकृत्या=स्वभाव से  
यदृच्छया=प्रारब्धवश करके  
प्राकृतस्य=अज्ञानी की  
इव=तरह  
कुर्वतः=करता हुआ  
अस्य=इस

शून्यचित्तस्य= { विकार-रहित  
चित्तवाले

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

धीरस्य=जानी को  
न=न  
मानः=मान है  
न=और  
न=न

अवमानता=अपमान है ॥

भावार्थः ।

स्वभाव से ही जिसका चित्त शून्य है, अर्थात् विकार से रहित है, कदापि विकारी नहीं होता है । अपने आत्मा में ही जो शान्ति को प्राप्त हुआ है, ऐसा जो ज्ञानवान् पुरुष है, वह अज्ञानी की तरह प्रारब्धवश में चेष्टा को करता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है । और अपने मान-अपमान का भी उसका अनुसंधान नहीं है ॥ २४ ॥

अब ज्ञानी के अनुभव को दिखाते हैं—

मूलम् ।

कृतं देहेन कर्मदं न मया शुद्धरूपिणा ।

इति चिन्तानुरोधी यः कुर्वन्नपि करोति न ॥२५॥

पदच्छेदः ।

कृतम्, देहेन, कर्म, इदम्, न, मया, शुद्धरूपिणा, इति, चिन्ता-  
नुरोधी, यः, कुर्वन्, अपि, करोति, न ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

इदम्=यह

कर्म=कर्म

देहेन=देह करके

कृतम्=किया गया

मया=मुझ

शुद्धरूपिणा=शुद्ध-रूप करके

न=नहीं

इति=इस प्रकार

यः=जो

चिन्तानुरोधी=चिन्ता करनेवाला है

सः=वह

कुर्वन्=कर्म करता हुआ

अपि=भी

न करोति=नहीं करता है ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! ज्ञानी ऐसा मानता है कि यह कर्म देह ने किया है, शुद्ध-रूप आत्मा ने नहीं किया है । इसी कारण वह कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता है ।

प्रश्न—अज्ञानी पुरुष व्यभिचार कर्मों को करके यदि ऐसा कहे कि यह सब कर्म देह ने किया है, तब उसकी भी मुक्ति होनी चाहिए ?

उत्तर—अज्ञानी को कर्मों के फल में अध्यास बना रहता है, क्योंकि शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष उत्पन्न होता है और

अशुभ कर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा उत्पन्न होती है, और व्यभिचार-कर्म करने में छिपाने का प्रयत्न करता है, इस वास्ते उसका निश्चय कच्चा है, वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता है, और ज्ञानवान् का व्यवहार उससे उलटा है। शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष नहीं होता है और अशुभ कर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा नहीं होती है। और व्यभिचार-कर्म करने के लिये वह प्रयत्न नहीं करता है। जिस पुरुष का स्त्री आदिकों में राग होता है और जो उसके संग में आनन्द मानता है, वही अज्ञानी व्यभिचार के लिये प्रयत्न करता है। जिस पुरुष को कभी मिथ्री खाने को नहीं मिली है और न उसके रस को जानता है, वही गुड़ या राव के खाने के लिये यत्न करता है। जिसको नित्य ही मिथ्री खाने को मिलती है, वह कदापि गुड़ के रस के लिये यत्न नहीं करता है। जो नीम का कीट है या विष्टा का कीड़ा है, वह मिथ्री के स्वाद को नहीं जानता है। अज्ञानी पुरुष विष्टा-रूपी विषयानन्द का स्वाद लेनेवाला है। ज्ञानवान् आत्मानन्द-रूपी मिथ्री के स्वाद का लेनेवाला है, इस वास्ते अज्ञानी ज्ञानी के आनन्द को नहीं जान सकता है ॥२५॥

मूलम् ।

अनद्धादीव कुरुते न भवेदपि वालिशः ।

जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमान्, संसरन्नपि शोभते ॥२६॥

पदच्छेदः ।

अनद्धादी, इव, कुरुते, न, भवेत्, अपि, वालिशः, जीवन्मुक्तः, सुखी, श्रीमान्, संसरन्, अपि, शोभते ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
अतद्वादी इव =	{ उलटा याने विरुद्ध उस कहनेवाले की तरह कि	न भवेत् =	{ नहीं होता है अर्थात् मोह को नहीं प्राप्त होता है
अहं इदं कार्यं न करिष्यामि =	{ मैं इस कार्य को नहीं करूँगा	अतएव =	इसी लिये
जीवन्मुक्तः =	ज्ञानी	संसरन् =	{ व्यवहार को करता हुआ
कुरुते =	कार्य को करता है	सः =	वह
अपि =	तो भी	सुखी =	सुखी
वालिशः =	मूर्ख	श्रीमान् =	शोभायमान
		शोभते =	शोभा को प्राप्त होता है ॥

भावार्थः ।

मैं इस कार्य को करूँगा ऐसा न कहता हुआ जीवन्मुक्त प्रारब्ध-  
वश से कार्य को करता है, पर बालक की तरह वह मूर्ख नहीं हो  
जाता है। सांसारिक व्यवहार को करता हुआ भी वह प्रसन्न शान्त  
चित्तवाला शोभायमान प्रतीत होता है ॥ २६ ॥

मूलम् ।

नानाविचारसुश्रान्तो धीरो विश्रान्तिमागतः ।

न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति ॥२७॥

पदच्छेदः ।

नानाविचारसुश्रान्तः, धीरः, विश्रान्तिम्, आगतः, न, कल्पते, न,  
जानाति, न, शृणोति, न पश्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

यतः=जिस कारण

अतएव=इसी कारण

नानाविचार-  
सुश्रान्तः = { द्वैत के विचार से  
निवृत्त हुआ

सः=वह

धीरः=ज्ञानी

न कल्पते=न कल्पना करता है

न जानाति=न जानता है

विश्रान्तिम्=शान्ति को

न शृणोति=न सुनता है

आगतः=प्राप्त हुआ है

न पश्यति=न देखता है ॥

भावार्थ ।

हे शिष्य ! नाना प्रकार के विचारों से रहित ज्ञानी अन्तरात्मा में ही शान्ति को प्राप्त रहता है । वह संकल्पादिक मन के व्यापारों को नहीं करता है और न बुद्धि के व्यापारों को करता है, और न वह इन्द्रियों के व्यापारों को करता है, क्योंकि उसमें कर्तृत्वादिकों का अभिमान नहीं है ॥ २७ ॥

मूलम् ।

असमाधेरविज्ञेपात् न मुमुक्षुर्न चेतः ।

निश्चित्य कल्पितं पश्यन्ब्रह्मैवास्तेमहाशयः ॥२८॥

पदच्छेदः ।

असमाधेः, अविज्ञेपात्, न, मुमुक्षुः, न, च, इतरः, निश्चित्य, कल्पितम्, पश्यन्, ब्रह्म, एव, आस्ते, महाशयः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
महाशयः=ज्ञानी		निश्चित्य=निश्चय करके	
असमाधे=समाधिरहित होने से		इदम् सर्वम्=इस सब जगत् को	
मुमुक्षुः न=मुमुक्षु नहीं है		कल्पितम्=कल्पित	
च=और		पश्यन्=समझता हुआ ;	
अविज्ञोपात्=द्वैतभ्रमके अभाव से		ब्रह्म एव=ब्रह्मवत्	
इतरः न=बद्ध नहीं है		आस्ते=स्थित रमता है ॥	
परन्तु=परन्तु			

भावार्थः ।

ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता है, क्योंकि विज्ञेय की निवृत्ति के लिये मुमुक्षु समाधि को करता है। ज्ञानी में विज्ञेय है नहीं, इसी लिये वह समाधि को नहीं करता है। उसमें बन्ध भी नहीं है, क्योंकि द्वैतभ्रम उसका नष्ट हो गया है। जिसको द्वैतभ्रम होता है उसी को बंध भी होता है।

प्रश्न—फिर वह ज्ञानी कैसा है ?

उत्तर—वह ब्रह्मरूप है, क्योंकि संपूर्ण 'जगत्' उसको पूर्व ही से कल्पित प्रतीत होता है, पश्चात् वह बोधितानुवृत्ति करके जगत् को देखता है, इसी कारण वह निर्विकार चित्तवाला ही होता है ॥ २८ ॥

१. मूलम् ।

यस्यान्तः स्यादहंकारो न करोति करोति सः ।  
निरहंकारधीरेण न किञ्चिद्कृतं कृतम् ॥ २६ ॥

पदच्छेदः ।

यस्य, अन्तः, स्यात्, अहंकार, न, कराति, करोति, सा, निरहं-  
कारधीरेण, न, किञ्चित्, अकृतम्, कृतम् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
यस्य=जिसके		निरहंकारधीरेण=	{ अहकार-रहित ज्ञानी करके
अन्तः=अन्तःकरण में		यद्यपि, लोक- दृष्ट्या =	{ यद्यपि लोक- दृष्टि से ।
अहंकारः=अहंकार का अध्यास		न किञ्चित्=कुछ भी नहीं	
स्वान्=है		कृतम्=किया गया है	
स.=वह		तथापि=तथापि	
+ यद्यपि =	{ यद्यपि	स्वदृष्ट्या=अपनी दृष्टि से	
लोकदृष्ट्या =	{ लोक-दृष्टि करके	तत्=वह	
न करोति=नहीं कर्म करता है		कृतम्=किया गया है ॥	
तु अपि=तो भी			
करोति=	{ मन में सङ्कल्पादि कर्म करता है		

भावार्थः ।

प्रश्न—ससार को देखता हुआ भी वह कैसे ब्रह्म-रूप हो सकता है ?

उत्तर—जिस पुरुष के अन्तःकरण में अहंकार का अध्यास होता है, वह लोक-दृष्टि करके न करता हुआ भी संकल्पादिकों को करता है ।

जैसे जब कोई जटा रखाकर, धूनी लगाकर, मौन होकर, बैठ

जाता है, तब लोग कहते हैं कि बाबाजी कुछ नहीं करते हैं। पर वह भीतर मन में सकल्प करता रहता है कि कोई बड़ा आदमी आवे, तो भाँग-बूटी का काम चले; इस तरह मे ज्ञानी का व्यवहार नहीं होता है। उसको भीतर से ही सकल्प-विकल्प नहीं फुरते हैं। इसी वास्ते वह कर्तृत्वादि अध्यास से रहित है ॥ २६ ॥

मूलम् ।

नोद्विग्नं न च संतुष्टमकर्तृस्पन्दवर्जितम् ।  
निराशं गतसंदेहं चित्तं मुक्तस्य राजते ॥ ३० ॥

पदच्छेदः ।

न, उद्विग्नम्, न, च, संतुष्टम्, अकर्तृस्पन्दवर्जितम्, निराशम्, गतसंदेहम्, चित्तम्, मुक्तस्य राजते ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
मुक्तस्य=ज्ञानी का		चित्तम्=चित्त	
अकर्तृ- स्पन्द=	कर्तृत्व-रहित और संकल्प विकल्प-रहित	न उद्विग्नम्=न द्वेष को	
वर्जितम्		च=और	
निराशम्=आशा-रहित		न संतुष्टम्=न संतोष को	
गतसंदेहम्=संदेह-रहित		राजते=प्राप्त होता है ।	

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि जीवन्मुक्त का चित्त प्रकाश-रूप है, इसी वास्ते वह उद्वेग को नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि उद्वेग का हेतु जो द्वैत है, वह उसके चित्त में नहीं रहा है, और संकल्प-



विकल्प से भी शून्य है, इसी वास्ते उसका चित्त जगत् से निराश है, और संदेह से भी रहित है । क्योंकि संदेह का हेतु जो अज्ञान है, वह उसमें नहीं रहा ॥ ३० ॥

मूलम् ।

निर्ध्यातुं चेष्टितुं वापि यच्चित्तं न प्रवर्तते ।  
निर्निमित्तमिदं किन्तु निर्ध्यायति विचेष्टते ॥३१॥

पदच्छेदः ।

निर्ध्यातुम्, चेष्टितुम्, वा, अपि, यत्, चित्तम्, न, प्रवर्तते,  
निर्निमित्तम्, इदम्, किन्तु, निर्ध्यायति, विचेष्टते ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

ज्ञानिनः=ज्ञानी का

यत्=जो

चित्तम्=चित्त है

तत्=वह

निर्ध्यातुम्={ निष्क्रिय भाव में  
स्थित होने को

वा अपि=अथवा

चेष्टितुम्=चेष्टा करने को

न प्रवर्तते=नहीं प्रवृत्त होता है

किन्तु=परन्तु

इदम्=यह चित्त

निर्निमित्तम्=संकल्प-रहित

निर्ध्यायति={ निश्चल स्थित  
होता है

च=और

विचेष्टते={ नाना प्रकार की  
चेष्टा को करता है ॥

भाषार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि जिस ज्ञानी का चित्त संकल्प-विकल्प-रूपी चेष्टा करने में प्रवृत्त नहीं होता है, किन्तु वह चित्त के निरचल और शुद्ध होने से अपने स्वरूप में स्थित होता है ॥ ३१ ॥

मूलम् ।

तत्त्वं यथार्थमाकर्ण्य मन्दः प्राप्नोति मूढताम् ।

अथवाऽऽयाति सङ्कोचममूढः कोऽपि मूढवत् ॥३२॥

पदच्छेद ।

तत्त्वं, यथार्थम्, आकर्ण्य, मन्द, प्राप्नोति, मूढताम्, अथवा, आयाति, सङ्कोचम्, अमूढ, क, अपि, मूढवत् ॥

अन्वय । शब्दार्थ । अन्वय । शब्दार्थ ।

मन्द = अज्ञानी

यथार्थमूढत्वम् = { तत्त्व पदार्थ  
अर्थात् उपनिष  
दादिकों को

आकर्ण्य = सुनकर

मूढताम् = { मूढता अर्थात्  
सशय विपर्यय  
को

प्राप्नोति = प्राप्त होता है

अथवा = अथवा

सङ्कोचम् = चित्त की समाधि को

आयाति = प्राप्त होता है

च = और

तथा एव = वैसा ही  
क अपि = और कोई

अमूढ = ज्ञानी

मूढवत् = अज्ञानी की तरह

मूढताम् = { सशय-विपर्यय  
अर्थात् व्यवहार  
को

+ बाह्यदृष्ट्या = बाह्य-दृष्टि से

प्राप्नोति = प्राप्त होता है ॥

भावार्थ ।

हे शिष्य । मन्द पुरुष तत् और त्व पद के कल्पित भेद को श्रुति से श्रवण करके भी सशय-विपर्यय के कारण मूढता को ही प्राप्त होता है अथवा तत् और त्व पद के अभेद अर्थ के जानने के लिये समाधि को लगाता है । परन्तु हजारों में कोई एक पुरुष अतर से शान्त चित्तमाला होकर, बाहर से मूढवत् व्यवहार करता है ॥ ३२ ॥

मूलम् ।

एकाग्रता निरोधो वा मूढैरभ्यस्यते भृशम् ।

धीराः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत्स्वपदे स्थिताः ॥ ३३ ॥

पदच्छेदः ।

एकाग्रता, निरोधः, वा, मूढैः, अभ्यस्यते, भृशम्, धीराः, कृत्यम्,  
न, पश्यन्ति, सुप्तवत्, स्वपदे, स्थिताः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

एकाग्रता=चित्त की एकाग्रता

वा=या

निरोधः=चित्त की निरोधता

मूढैः=अज्ञानियों करके

भृशम्=घायन्त

अभ्यस्यते= { अभ्यास किया  
जाता है

धीराः=शानी पुरुष

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

कृत्यम्= { पूर्व कृत्य को  
अर्थात् चित्त की  
एकाग्रता को  
और निरोध-  
ता को

न पश्यन्ति=नहीं देखते हैं

परन्तु=परन्तु

सुप्तवत्= { सोए हुए पुरुष  
की तरह

स्वपदं=अपने स्वरूप में

स्थिताः=स्थित रहते हैं ॥

भावार्थः ।

मुमुक्षुजन चित्त की एकाग्रता के लिये और विपरीत याचना की  
निवृत्ति के लिये यत्न करते हैं । परन्तु जो धीर पुरुष है, वह कुछ  
भी पूर्वोक्त कृत्य को नहीं देखता है । क्योंकि वह अपने स्वरूप में ही  
स्थित है ॥ ३३ ॥

मूलम् ।

अप्रयत्नात्प्रयत्नाद्वा मूढो नाप्नोति निर्वृतिम् ।  
तत्त्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः ॥ ३४ ॥

पद-च्छेद ।

अप्रयत्नात्, प्रयत्नात्, या, मूढ, न, आप्नोति, निर्वृतिम्,  
तत्त्वनिश्चयमात्रेण, प्राज्ञ, भवति, निर्वृत ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

मूढ = अज्ञानी पुरुष

अप्रयत्नात् = चित्त के निरोध से  
वा = अथवा

प्रयत्नात् = कर्मानुष्ठान से

निर्वृतिम् = परम सुख को

न आप्नोति = नहीं प्राप्त होता है

प्राज्ञ = ज्ञानी पुरुष

तत्त्वनिश्चय-  
मात्रेण = { केवल तत्त्व के  
निश्चय करने  
से ही

निर्वृत = कृतांत

भवति = होता है ॥

भावार्थ ।

जिस पुरुष को जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय नहीं है, वही पुरुष मूढ कहा जाता है। वह पुरुष चाहे चित्त की निरोध रूपी समाधि को करे अथवा कर्मों के अनुष्ठान को करे, वह कदापि परम सुख को नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि प्राणद का हेतु जो आत्मा का अनुभूत, वह उसको ही नहीं और जो विद्वान् ज्ञानी है, वह न समाधि को और न कर्मों को करता है। परतु निर्वृति को अर्थात् नित्यसुख को प्राप्त होता है। क्योंकि उसको कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहा है। गीता में भी कहा है—

यस्तात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १ ॥

आत्मा मे ही जिसकी रति है और अपने आत्मानद करके ही जो तृप्त है, आत्मा में ही जो संतुष्ट है, बाहर के पदार्थों में जिसको तोष नहीं है, उसको कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहा है ॥ ३४ ॥

मूलम् ।

शुद्धं बुद्धं प्रियं पूर्णं निष्प्रपञ्चं निरामयम् ।

आत्मानं तं न जानन्ति तत्राभ्यासपरा जनाः ॥३५॥

पदच्छेद ।

शुद्धम्, बुद्धम्, प्रियम्, पूर्णम्, निष्प्रपञ्चम्, निरामयम्,  
आत्मानम्, तम्, न, जानन्ति, तत्र, अभ्यासपरा, जनाः ।

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
तत्र=इस समार में		पूर्णम्=पूर्ण	
अभ्यासपरा =अभ्यासी		निष्प्रपञ्चम्=प्रपञ्च रहित	
जन =मनुष्य		च=और	
तम्=उस		निरामयम्=दुःख रहित	
शुद्धम्=शुद्ध		आत्मानम्=आत्मा को	
बुद्धम्=चेतन्य		न जानन्ति=नहीं जानते हैं ॥	
प्रियम्=प्रिय			

भावार्थ ।

जगत् में कर्मादिकों के अभ्यासपरायण जो अज्ञानी पुरुष हैं, वे उस आत्मा को नहीं जानते हैं, जो शुद्ध है अर्थात् जो मायामल से

रहित है, जो स्वप्रकाश है, जो परिपूर्ण है, जो प्रपंच से रहित है और जो दुःख के सम्बन्ध से भी रहित है ॥ ३५ ॥

मूलम् ।

नाप्नोति कर्मणा मोक्षं विमूढोऽभ्यासरूपिणा ।  
धन्यो विज्ञानमात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्यविक्रियः ॥ ३६ ॥

पदच्छेदः ।

न, आप्नोति, कर्मणा, मोक्षम्, विमूढः, अभ्यासरूपिणा, धन्यः, विज्ञानमात्रेण, मुक्तः, तिष्ठति, अविक्रियः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

विमूढः=अज्ञानी

धन्यः=भाग्यवान्

अभ्यासरूपिणा=अभ्यासरूपी

पुरुषः=पुरुष

कर्मणा=कर्म से

विज्ञानमात्रेण=केवल ज्ञान करके ही

मोक्षम्=मोक्ष को

मुक्तः=मुक्त हुआ

न आप्नोति=नहीं प्राप्त होता है

तिष्ठति= { स्थित रहता है  
अर्थात् मोक्ष को  
प्राप्त होता है ॥

अविक्रियः=क्रिया-रहित

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! जो मूढ़ अज्ञानी जन हैं, वह कर्म करके अर्थात् योगाभ्यासरूप कर्मों करके भी मोक्ष को कदापि नहीं प्राप्त होते हैं ।

तथाच—न कर्मणा न प्रजया न धनेन ।

कर्मों करके, प्रजा करके, धन करके, पुरुष मोक्ष को कदापि प्राप्त

नहीं होता है, परन्तु जिसका अग्निघा-मल दूर हो गया है, वह केवल विज्ञान-मात्र करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ॥ ३६ ॥

मूलम् ।

मूढो नाप्नोति तद्ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति ।  
अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्म स्वरूपभाक् ॥३७॥

पदच्छेदः ।

मूढः, न, आप्नोति, तत्, ब्रह्म, यतः, भवितुम्, इच्छति, अनिच्छन्, अपि, धीरः, हि, परब्रह्मस्वरूपभाक् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
यतः=जिस कारण		न आप्नोति=नहीं प्राप्त होता है	
मूढ =अज्ञान		धीरः=ज्ञानी	
ब्रह्म=महत्		हि=निरूप्य करके	
भवितुम्=होने को		अनिच्छन् अपि=नहीं चाहता हुआ भी	
इच्छति=इच्छा करता है		परब्रह्मस्व- { परब्रह्म-स्वरूप	
ततः=उसी कारण		रूपभाक् = { का भजनेवाला	
म =वह		भवति=होता है ॥	
तन् = { उसको शर्मान्			
{ ब्रह्म को			

भावार्थः ।

आष्टायकजी कहते हैं कि हे जनक ! अज्ञानी मूढ़ चित्त के निरोध करने से ब्रह्म-रूप होने की इच्छा करता है, इसी वास्ते वह ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता है । और जिस धीर ने अपने को ज्ञानी निश्चयकर

लिया है, वह मोक्ष की नहीं इच्छा करता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥

मूलम् ।

निराधारा ग्रहव्यग्रा मूढाः संसारपोषकाः ।

एतस्यानर्थमूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधैः ॥ ३८ ॥

पदच्छेद ।

निराधारा , ग्रहव्यग्रा , मूढा , संसारपोषका , एतस्य , अनर्थमूल-  
स्य , मूलच्छेद , कृत , बुधै ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

निराधारा = आधार-रहित

ग्रहव्यग्राः = दुराग्रही

मूढा = अज्ञान

संसारपोषका = { संसार के पोषण  
करनेवाले हैं

एतस्य = इस

अनर्थमूलस्य = अनर्थ-रूप मूलवाले

संसारस्य = संसार के

मूलच्छेद = मूल का नाश

बुधै = ज्ञानियों करके

कृत = किया गया है ॥

भावार्थ ।

जो मूढ़ अज्ञानी है, उसका ऐसा त्याग है कि मे वेदान्त-शास्त्र और आत्मवित् गुरु के आधार के बिना ही केवल चित्त के निरोध में ही मोक्ष को प्राप्त होजाऊँगा, ऐसा दुराग्रही पुरुष संसार से छुड़ाने-वाला जो ज्ञान है, उमसे पराङ्मुख होता है, इस संसार के मूलाज्ञान को वह छेदन नहीं कर सकता है ॥ ३८ ॥



मूलम् ।

न शान्तिं लभते मूढो यतः शमितुमिच्छति ।  
धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्य सर्वदा शान्तमानसः ॥३६॥

पदच्छेदः ।

न, शान्तिम्, लभते, मूढः, यतः, शमितुम् इच्छति, धीरः,  
तत्त्वम्, विनिश्चित्य, सर्वदा, शान्तमानसः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यतः=जिम कारण  
शमितुम्=शान्ति होने को  
मूढः=अज्ञानी  
इच्छति=इच्छा करता है  
ततः=उसी कारण  
सः=यद्  
शान्तिम्=शान्ति को

न लभते=नहीं प्राप्त होता है  
धीरः=जानी  
तत्त्वम्=तत्त्व को  
विनिश्चित्य=निश्चय करके  
सर्वदा=सर्वदा  
शान्तमानसः=शान्त मनवाला है ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! मूढ अज्ञानी जिम हेतु चित्त  
के निरोध से शान्ति की इच्छा करता है, इसी चारते वह शान्ति को  
नहीं प्राप्त होता है । और धीर जो है, सो आत्मतत्त्व को निश्चय  
करके शान्ति की इच्छा नहीं करता है, इसी लिये शान्ति को प्राप्त  
होता है ॥ ३६ ॥

मूलम् ।

कात्मनो दर्शनं तस्य यदृष्टमवलम्बते ।

धीरास्तं तं न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्ययम् ॥४०॥

पदच्छेदः ।

क, आत्मनः, दर्शनम्, तस्य, यत्, दृष्टम्, अवलम्बते, धीराः,  
तम्, तम्, न, पश्यन्ति, पश्यन्ति, आत्मानम्, अव्ययम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तस्य=उसको

आत्मनः=आत्मा का

दर्शनम्=दर्शन

क=कहाँ है

यत्=जो

दृष्टम्=दृष्ट को

अवलम्बते=अवलम्बन करता है

धीराः=ज्ञानी

तम् तम्=उस

दृष्टम्=दृष्ट को

न पश्यन्ति=नहीं देखते हैं

परन्तु=परन्तु

अव्ययम्=अविनाशी

आत्मानम्=आत्मा को

पश्यन्ति=देखते हैं ॥

भावार्थः ।

जो अज्ञानी पुरुष है, वह प्रत्यक्ष प्रमाणों करके ही जाने हुए पदार्थों को सत्य-रूप करके मानता है इसी कारण उसको आत्म-दर्शन कदापि नहीं प्राप्त होता है । और जो ज्ञानी है, वह देखते हुए पदार्थों को नहीं देखता है । किन्तु उनके अन्तर्गत कारण-शक्ति सर्वत्र चिद्रूप आत्मा को ही देखता है, इसी कारण वह परमात्मा में सदा लीन रहता है, और कार्य-रूपी बाह्य पदार्थ उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है ॥ ४० ॥

मूलम् ।

क्व निरोधो विमूढस्य यो निर्वन्धं करोति वै ।

स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदाऽसावकृत्रिमः ॥४१॥

पदच्छेदः ।

क, निरोधः, विमूढस्य, यः, निर्वन्धम्, करोति, वै, स्वारामस्य, वए, धीरस्य, सर्वदा, असी, अकृत्रिमः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

यः=तो

निर्वन्धम्=चित्त के निरोध को

वै=हठ करके

करोति=करता है

तस्य=उस

विमूढस्य=अज्ञानी को

क=कहाँ

निरोधः=चित्त का निरोध है

स्वारामस्य=आत्माराम

धीरस्य=ज्ञानी को

सर्वदा=सदैव

एव=निश्चय करके

असी=पह

चित्तनिरोधः=चित्त का निरोध

अकृत्रिमः=स्वाभाविक है ॥

भावार्थ ।

जो अज्ञानी पुरुष शुष्कचित्त के निरोध में हठ करता है, उसका चित्त कभी निरोध को नहीं प्राप्त होता है। अज्ञानी ही चित्त के निरोध के लिये समाधि लगाता है। जब वह समाधि से उत्थान करता है, तब फिर उसका चित्त ससार के पदार्थों में फेल जाता है। धीर जो आत्मा में रमण करनेवाला योगी है, जिसका चित्त निश्चल है, उसका चित्त सर्वदा आत्मा में ही निरुद्ध रहता है, इसी कारण सर्वदा उसकी समाधि बनी रहती है ॥ ४१ ॥

मूलम् ।

भावस्य भावकः कश्चिन्न किञ्चिद्भावकोऽपरः ।

उभयाऽभावकः कश्चिदेवमेव निराकुलः ॥ ४२ ॥

पदच्छेदः ।

भावस्य, भावकः, कश्चित्, न, किञ्चित्, भावकः, अपरः,  
उभयाऽभावकः कश्चित्, एवम्, एव, निराकुलः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

कश्चित्=कोई

भावस्य=भाव का

भावकः=माननेवाला है

अपरः=और कोई

किञ्चित्=कुछ भी

न=नहीं है

एवम्=ऐसा

भावकः=माननेवाला है

एवम् एव=वैसा ही

कश्चित्=कोई

उभया-  
भावकः = { दोनों अर्थान् भाव  
और अभाव का  
नहीं माननेवाला

निराकुलः=स्वस्थचित्त है ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे राजन् ! कोई एक नैयायिक ऐसा मानता है कि भाव-रूप प्रपञ्च परमार्थ में सत्य है । और कोई शून्य-वादी कहता है कि सब प्रपञ्च शून्य-रूप है, क्योंकि शून्य ही से उसकी उत्पत्ति होती है । और हजारों में से कोई एक आत्मा का अनुभव करनेवाला होता है । वह भाव और अभाव दोनों की भावना का त्याग करके और स्वस्थचित्त होकर अपने आत्मानन्द में ही सदा मग्न रहता है ॥ ४२ ॥

मूलम् ।

शुद्धमद्वयमात्मानं भावयन्ति कुबुद्धयः ।

न तु जानन्ति संमोहाद्यावज्जीवमनिर्वृताः ॥४३॥

पदच्छेदः ।

शुद्धम्, अद्वयम्, आत्मानम्, भावयन्ति, कुबुद्धयः, न, तु, जानन्ति, संमोहात्, यावज्जीवम्, अनिर्वृताः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

कुबुद्धयः=दुबुद्धि पुरुष

शुद्धम्=शुद्ध

अद्वयम्=अद्वैत

आत्मानम्=आत्मा को

भावयन्ति=भावना करते हैं

तु=परन्तु

संमोहात्=अज्ञानता के कारण  
न जानन्ति=नहीं जानते हैं

अतः=इसलिये

यावज्जीवम्= { जब तक उनका  
जीवन है

अनिर्वृताः=संतोष-रहित हैं ॥

भावार्थः ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! अज्ञानी मूढ़ शुद्ध निर्मल द्वैत से रहित व्यापक आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मोह सांसारिक पदार्थों से निवृत्त नहीं हुआ है । इसी कारण उनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है । जब तक वे जीते हैं, संतोष को कदापि नहीं प्राप्त होते हैं । आत्मा के साक्षात्कार होने के बिना संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती है ॥ ४३ ॥

मूलम् ।

मुमुक्षोर्वृद्धिरालम्बमन्तरेण न विद्यते ।

निरालम्बैव निष्कामा बुद्धिमुक्तस्य सर्वदा ॥४४॥

पदच्छेदः ।

मुमुक्षोः, बुद्धिः, आलम्बम्, अन्तरेण, न, विद्यते, निरालम्बा, एव, निष्कामा, बुद्धिः, मुक्तस्य, सर्वदा ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
मुमुक्षोः=मुमुक्षु पुरुष की		सर्वदा=सब काल में	
बुद्धिः=बुद्धि		निष्कामा=कामना-रहित	
आलम्बनम् = } आलम्ब के विना		च=और	
अन्तरेण }		निरालम्बा=आश्रय-रहित	
न विद्यते=नहीं रहती है		एव=निश्चय करके	
मुक्तस्य=मुक्त पुरुष की		विद्यते=रहती है ॥	
बुद्धिः=बुद्धि			

भावार्थ ।

जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि सांसारिक विषय का आलम्बन करती है। और जो निष्काम जीवनमुक्त है, उसकी बुद्धि आत्मा के आश्रय रहती है। आत्मा के अचल होने से वह बुद्धि भी सदैव स्थिर रहती है ॥ ४४ ॥

मूलम् ।

विषयदोषिनो वीक्ष्य चकितः शरणार्थिनः ।

विशन्ति भटिति क्रोडनिरोधैकाग्रसिद्धये ॥४५॥

पदच्छेदः ।

विषयदोषिनः, वीक्ष्य, चकितः, शरणार्थिनः, विशन्ति, भटिति, क्रोडम्, निरोधैकाग्रसिद्धये ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
विषयदोषिनः=विषय-रूपी व्याघ्र को		शरणार्थिनः=	अपने शरीर की रक्षा करनेवाले मूढ़ पुरुष
वीक्ष्य=देख करके			
चकितः=हरे हुए			

निरोधै-  
काग्र्य= { चित्त की निरोधता  
                  और एकाग्रता की  
सिद्धये { सिद्धि के लिये

भ्रटिति=शीघ्र  
क्रोडम्=पहाड़ की गुहा में  
विशन्ति=प्रवेश करते हैं ॥

भावार्थ ।

मूढ मुमुक्षु विषय-रूपी व्याघ्रों को देख करके भय को प्राप्त होता और चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने के लिये पहाड़ी कन्दरा में प्रवेश कर जाता है, परन्तु उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है, उसकी अन्तर्दृष्टि फँसती जाती है और वह हर दिन दुःखी होता जाता है, शान्ति उसको लेश-मात्र भी नहीं होती है और जो ज्ञानी जीवन्मुक्त है, वह विषय-रूपी व्याघ्र को इन्द्रजाल-जन्य पदार्थों की तरह देखकर उनसे भय नहीं खाता है ॥ ४५ ॥

मूलम् ।

निर्वासनं हरिं दृष्ट्वा तूष्णीं विषयदन्तिनः ।  
पलायन्ते न शक्नास्ते सेवन्ते कृतचाटवः ॥ ४६ ॥

पदच्छेदः ।

निर्वासनम्, हरिम्, दृष्ट्वा, तूष्णीम्, विषयदन्तिनः, पलायन्ते, न, शक्नाः, ते, सेवन्ते, कृतचाटवः ॥

अन्वयः । शब्दार्थ ।

निर्वासनम्=वासना-रहित  
पुरुषम्=पुरुष-रूपी  
हरिम्=सिद्ध को  
दृष्ट्वा=देखकर  
न शक्ताः=असमर्थ

अन्वयः । शब्दार्थ ।

विषयदन्तिनः=विषय-रूपी हाथी  
तूष्णीम्=चुपचाप हुए  
पलायन्ते=भागते हैं  
च=और  
ते=वे

कृतचाटवः=	{ प्रियवादी अर्थात् संसारी पुरुष	तम् निर्वास- नम् पुरुषम् =	{ उस वासना-रहित पुरुष को
ईश्वराकृष्टा =	{ ईश्वर करके प्रेरित हुए	स्वयम्=स्वत आगत्य=आकर सेवन्ते=सेवन करते हैं ॥	

भावार्थ ।

क्योंकि वासना-रहित पुरुष-रूपी मिह को देखकर, विषय-रूपी हस्ती असमर्थ होकर भाग जाता है । और ऐसे ही नरसिंह की प्रतिष्ठा और सेवा इतर पुरुष ईश्वर करके प्रेरित हुए करते हैं ॥ ४६ ॥

मूलम् ।

न मुक्तिकारिकान्धत्ते निःशङ्को युक्तमानसः ।

पश्यञ्छृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्नास्ते यथासुखम् ४७

पदच्छेदः ।

न, मुक्तिकारिकाम्, धत्ते, निःशङ्कः, युक्तमानसः, पश्यन्, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, आस्ते, यथासुखम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

नि शङ्कः=शङ्का रहित

च=चौर

युक्तमानसः=निश्चल मनवाला

ज्ञानी=जानी

मुक्तिका-  
रिकाम् = { यमनियमादि  
योग-क्रिया को

आग्रहात्=आग्रह से

न धत्ते=नहीं धारण करता है

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

किन्तु=परन्तु

पश्यन्=देखता हुआ

शृण्वन्=सुनता हुआ

स्पृशन्=स्पर्श करता हुआ

जिघ्रन्=सूँघता हुआ

अश्नन्=खाता हुआ

स =यह

यथासुखम्=सुख-पूर्वक

आस्ते=रहता है ॥



भावार्थ ।

दूर हो गये हैं संशय जिसके, निश्चल है मन जिसका, ऐसा जो जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष है, वह यम-नियमादिक क्रिया को भी हठ से नहीं करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्वाध्यास नहीं है । वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ अर्थात् लोकदृष्टि करके सर्वक्रिया को करता हुआ, अपने आत्मानन्द में ही स्थिर रहता है ॥ ४७ ॥

मूलम् ।

वस्तुश्रवणमात्रेण शुद्धबुद्धिर्निराकुलः ।

नैवाचारमनाचारमौदास्यं वा प्रपश्यति ॥ ४८ ॥

पदच्छेदः ।

वस्तुश्रवणमात्रेण, शुद्धबुद्धिः, निराकुलः, न, एव, आचारम्, अनाचारम्, औदास्यम्, वा, प्रपश्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

वस्तुश्रवण-  
मात्रेण = { यथार्थं वस्तु के  
श्रवण-मात्र से ही  
शुद्धबुद्धिः=शुद्ध बुद्धिवाला  
च=और

न एव=न  
आचारम्=आचार को  
वा=और

निराकुलः= { स्वस्थ चित्तवाला  
पुरुष

औदास्यम्=उदासीनता को  
प्रपश्यति=देखता है ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि चिदात्मा के श्रवण-मात्र से ही जिसकी शुद्ध अराजडाकार बुद्धि उत्पन्न हुई है, वही अपने आत्मा के स्वरूप

में स्थित है। वह न आचार को, न अनाचार को अर्थात् न शुभ, न अशुभ कर्म को, न उनसे रहित होने की इच्छा को करता है। क्योंकि वह सदा अपने में मग्न रहता है ॥ ४८ ॥

मूलम् ।

यदा यत्कर्तुमायाति तदा तत्कुरुते ऋजुः ।  
शुभं वाप्यशुभं वापि तस्य चेष्टा हि बालवत् ॥४९॥

पदच्छेदः ।

यदा, यत्, कर्तुम्, आयाति, तदा, तत्, कुरुते, ऋजुः, शुभम्, वा, अपि, अशुभम्, वा, अपि, तस्य, चेष्टा, हि, बालवत् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

यदा=जब  
यत्=जो कुछ  
शुभम्=शुभ  
वा अपि=अथवा  
अशुभम्=अशुभ  
कर्तुम्=करने को  
आयाति=प्राप्त होता है  
तदा=तब  
तत्=उसको

धीरः=ज्ञानी  
ऋजुः=आग्रह-रहित  
कुरुते=करता है  
हि=क्योंकि  
तस्य=उसको  
चेष्टा=व्यवहार  
बालवत्=बालवत्  
भवति=प्रतीत होता है ॥

भावार्थः ।

जिस काल में वह ज्ञानी शुभ कर्म को अथवा अशुभ कर्म को करता है, वह प्रारम्भ के वश से, देवगति से अकस्मात् करता है। शोभन, अशोभन बुद्धि करके वा दृष्ट करके नहीं करता है। क्योंकि

उसकी चेष्टा बालक की तरह प्रारब्ध के अधीन होती है, राग-द्वेष के अधीन नहीं होती है ॥ ४९ ॥

मूलम् ।

स्वातन्त्र्यात्सुखमाप्नोति स्वातन्त्र्यात्प्रलभते परम् ।  
स्वातन्त्र्यात्निवृत्तिं गच्छेत् स्वातन्त्र्यात्परमंपदम् ०

पदच्छेदः ।

स्वातन्त्र्यात्, सुखम्, आप्नोति, स्वातन्त्र्यात्, लभते, परम्,  
स्वातन्त्र्यात्, निवृत्तिम्, गच्छेत्, स्वातन्त्र्यात्, परमम्, पदम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

स्वातन्त्र्यात्=स्वतन्त्रता से

सुखम्=सुख को

ज्ञानी=ज्ञानी

आप्नोति=प्राप्त होता है

स्वातन्त्र्यात्=स्वतन्त्रता से

परम्=ज्ञान को

लभते=प्राप्त होता है

स्वातन्त्र्यात्=स्वतन्त्रता से

निवृत्तिम्=नित्यसुख को

गच्छेत्=प्राप्त होता है

स्वातन्त्र्यात्=स्वतन्त्रता से

परमं पदम्= { परमपद को अर्थात्  
अपने स्वरूप को

आप्नोति=प्राप्त होता है ॥

भावार्थ ।

स्वतन्त्रता से अर्थात् राग-द्वेष की अधीनता से रहित पुरुष सुख को प्राप्त होता है और उसी स्वतन्त्रता करके पुरुष आत्म-ज्ञान को भी प्राप्त होता है, और स्वतन्त्रता से ही पुरुष नित्य सुख को भी प्राप्त होता है, और स्वतन्त्रता करके ही पुरुष परम शान्ति को भी प्राप्त होता है ॥ ५० ॥

स्वातन्त्र्यात् = स्वतन्त्रता से

मूलम् ।

अकर्तृत्वमभोक्तृत्वं स्वात्मनो मन्यते यदा ।  
तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ताश्चित्तवृत्तयः ॥५१॥

पदच्छेदः ।

अकर्तृत्वम्, अभोक्तृत्वम्, स्वात्मनः, मन्यते, यदा, तदा, क्षीणाः,  
भवन्ति, एव, समस्ताः, चित्तवृत्तयः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
यदा=जब		तदा=तब	
+ पुरुष.=पुरुष		+ तस्य=उसकी	
स्वात्मनः=अपने आत्मा के		समस्ताः=सम्पूर्ण	
अकर्तृत्वम्=अकर्तापने को		चित्तवृत्तयः=चित्त की वृत्तियाँ	
अभोक्तृत्वम्=अभोक्तापने को		एव=निश्चय करके	
मन्यते=मानता है		क्षीणाः=नाश	
		भवन्ति=होती हैं ॥	

भावार्थः ।

जिस काल में विद्वान् अपने को अकर्ता और अभोक्ता मानता है, उसी काल में चित्त की सम्पूर्ण वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं अर्थात् जब वह ऐसा निश्चय करता है कि इस कर्म को मैं करूँगा, और उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तब उसके चित्त की अनेक वृत्तियाँ उदित होती हैं, और वह दुःखी होता है । परन्तु जब अपने को अकर्ता, अभोक्ता निश्चय करता है, तब उसके चित्त की सम्पूर्ण वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, और वह शान्ति को प्राप्त होता है ।

प्रश्न—केवल अकर्ता, अभोक्ता निश्चय करने से ही यदि चित्त की वृत्तियों का अभाव हो जावे, और वह जीवन्मुक्त हो जावे, तो बद्धज्ञानियों के चित्त की वृत्तियों का अभाव होना चाहिए और उनको भी जीवन्मुक्त कहना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखते हैं। क्योंकि बद्धज्ञानियों के चित्त की वृत्तियाँ विषयों में लगी रहती हैं, और उनको लोग जीवन्मुक्त भी नहीं कहते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि केवल अकर्ता, अभोक्ता मान लेने से ही वृत्तियों का निरोध नहीं होता है।

उत्तर—उन बद्धज्ञानियों का जो कथन है कि हम अकर्ता हैं, हम अभोक्ता हैं, सो सब मिथ्या है। क्योंकि उनका अभ्यास बना है, उनकी विषयाकार वृत्तियाँ उदय होती हैं, और न उनका निश्चय परिपक्व है। यदि निश्चय परिपक्व होता, तो कदापि उनकी वृत्तियाँ विषयाकार उत्पन्न न होतीं।

दृष्टान्त ।

जैसे हिन्दू-धर्म के लिए गोमांस अति निषिद्ध है, अतः किसी हिन्दू का मन गोमांस की तरफ स्वप्न में नहीं जाता है, वैसे ही जिस विद्वान् ज्ञानी का यह परिपक्व निश्चय है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, उसका मन कभी स्वप्न में भी विषयों की तरफ नहीं जाता है, और उसकी विषयाकार वृत्ति कदापि नहीं उदय होती है, और जिसका निश्चय परिपक्व नहीं है अर्थात् जो बद्धज्ञानी है, वह लोगों को सुनाता है कि मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, परन्तु भीतर से उसकी विषयों की तरफ विलार की तरह दृष्टि रहती है। जैसे विलार तब तक आँखों को मूँदे रहती है, जब तक मूँसे को नहीं देखती है। जब मूँसे को देखती है, तुरन्त झपटकर खा जाती है, वैसे ही बद्धज्ञानी

भी तब तक ही अकर्ता, अभोक्ता बना रहता है, जब तक विषय-रूपी मूस उसको नहीं दीखता है। जब विषय-रूपी मूस उसके सामने आता है, तुरंत ही वह कर्ता और भोक्ता होकर उसको खा जाता है।

एक निर्मल संत पञ्जाब देश के किसी ग्राम में एक युवती स्त्री को 'विचार-सागर' पढ़ाते थे। पढ़ाते-पढ़ाते उस पर उनका मन चलायमान हो गया। तब उसकी जाँघों पर हाथ फेरने लगे। उस स्त्री ने कहा कि महाराज अभी तो आपने मुझे पढ़ाया है कि विषय-भोगों को विष के तुल्य जानकर त्याग करना चाहिए और आप ही अब मेरी जाँघों पर हाथ फेरते हैं, यह क्या बात है। तब उन महात्मा ने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा करते हैं। तुमने ममप्र 'विचार-सागर' पढ़ लिया, परंतु तुम्हारा देहाध्यास नहीं छटा। अब देखिए, महात्माजी तो स्वयं अपना देहाध्याम दूर नहीं कर सके और विषय-लोलुप होकर पर-स्त्री की जाँघों पर हाथ फेरने लगे, परंतु दूसरे का देहाध्यास छुड़ाने को तैयार थे। ऐसे बद्धज्ञानियों के चित्त में कदापि शान्ति नहीं होती है, और दृष्टान्त को भी सुनिए—

पूर्व देश में एक पण्डित किसी मन्दिर में 'योगवाशिष्ठ' की कथा कहते थे। उनकी कथा में माई लोग भी बहुत आती थीं और गन्धर्व जाति की एक वेश्या भी उनकी कथा में आती थी और माई लोगों में बैठती थी।

एक दिन कथा में स्त्री के संग का बहुत निषेध आया और पर-स्त्री के संग का बहुत ही दोष निकला। उस दिन कथा कहते-कहते जब पण्डितजी की दृष्टि उस वेश्या के ऊपर पड़ी तब पण्डितजी का मन उस वेश्या में आसक्त हो गया। जब कथा समाप्त हुई, तब सब कोई अपने-अपने घर को चले गए, तो वह वेश्या भी अपने मकान

को चली गई, और जाकर उसने विचार किया कि आज से फिर मैं इस व्यभिचार-कर्म को नहीं करूँगी । ऐसा निश्चय करके उसने अपना फाटक संध्या से ही बंद करा दिया और भीतर बैठकर भजन करने लगी । इधर तो यह हाल हुआ और उधर जब पण्डितजी कथा बाँचकर अपने घर गए, तब रात्रि आने का विचार करने लगे, इतने में रात्रि हो गई । जब एक पहर रात्रि व्यतीत हुई, तब पण्डितजी शिर पर कपड़ा डाले हुए उस वेश्या के मकान के नीचे पहुँचे और जाकर किवाड़ को हिलाया । तब नौकर ने वेश्या से कहा कि पण्डितजी आए हैं । वेश्या ने तुरंत किवाड़ खोल दिया । पण्डितजी ऊपर गए, तो वेश्या ने उनको पलंग पर बैठाया और आप नीचे बैठी, तब पण्डितजी ने कहा कि हे प्यारी ! तू मेरे पास बैठ, हम तो आज तुम्हारे साथ आनन्द करने आए हैं । वेश्या ने कहा कि महाराज ! आपने ही तो आज कथा में विषय-भोग की बड़ी निन्दा सुनाई और फिर आप ही ने यह भी कहा था कि जो पुरुष पर-स्त्री के साथ भोग करता है, उसको यमदूत अग्नि से तपे हुए खम्भों के साथ बाँधते हैं और स्त्री को भी अग्नि से तपे हुए खम्भों के साथ लगाते हैं । तब फिर मैं कैसे आपके साथ क्रीड़ा करूँ । तब पण्डितजी ने कहा कि जब कृष्णजी ने अवतार लिया था, तब उन्होंने उन सब खम्भों को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया था । अब वे खम्भे नहीं रह गए हैं, वे तो पूर्व युगों की वार्त्ताएँ थीं, इस युग की नहीं हैं, तु अपने को अकर्त्ता मानकर, आकर आनन्द ले । ऐसे बद्धज्ञानियों के चित्त कभी भी शान्ति को प्राप्त नहीं होते हैं । धर्मशास्त्र में भी कहा है—

पठकाः पाठकारचैव ये चाऽन्ये शास्त्रचिन्तकाः ।

सर्वे ते व्यसिनो मुख्या यः क्रियावान् स पण्डितः ॥ १ ॥

जितने शास्त्र के पढनेवाले हैं, और जितने शास्त्र के पढानेवाले हैं, और जो केवल शास्त्र का विचार ही करते हैं, वे सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो उनमें वैराग्यादि साधन-सम्पत्ति करके युक्त हैं, वे ही पण्डित हैं। दूसरे शास्त्र-दृष्टि से पण्डित नहीं हैं। पूर्वोक्त युक्तियों से यह सिद्ध हुआ कि जो अध्यासी पुरुष है, वही ब्रह्मज्ञानी है। केवल अकर्ता, अभोक्ता कहने से वह अकर्ता, अभोक्ता कदापि नहीं हो सकता है ॥ ५१ ॥

मूलम् ।

उच्छृङ्खलाप्याकृतिका स्थितिधीरस्य राजते ।

न तु संस्पृहचित्तस्य शान्तिमूढस्य कृत्रिमा ॥५२॥

पदच्छेदः ।

उच्छृङ्खला, अपि, आकृतिका, स्थिति, धीरस्य, राजते, न, तु, संस्पृहचित्तस्य, शान्तिः, मूढस्य, कृत्रिमा ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

धीरस्य=ज्ञानी की

उच्छृङ्खला=शान्ति-रहित

आकृतिका=स्वाभाविक

स्थिति=स्थिति

अपि=भी

राजते=शोभती है

तु=परन्तु

संस्पृहचित्तस्य= { इच्छा-सहित  
चित्तवाले

मूढस्य=अज्ञानी की

कृत्रिमा=बनावटवाली

शान्ति=शान्ति

न राजते=नहीं शोभती है ॥



भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! जो पुरुष निःस्पृह है, उसकी भी स्वाभाविक स्थिति शोभा करके युक्त ही होती है । क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं होती है । और जो मूढ़ इच्छा करके व्याकुल है, उसकी बनावट की शान्ति भी शोभायमान नहीं होती है ॥ ५२ ॥

मूलम् ।

विलसन्ति महाभोगैर्विशन्ति गिरिगह्वरान् ।

निरस्तकल्पना धीरा अवद्धा मुक्तयुद्धयः ॥५३॥

पदच्छेदः ।

विलसन्ति, महाभोगे, विशन्ति, गिरिगह्वरान्, निरस्तकल्पनाः, धीराः, अवद्धाः, मुक्तयुद्धयः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दाथ ।

निरस्तकल्पनाः=कल्पना-रहित

अवद्धाः=बन्धन-रहित

मुक्तयुद्धयः=मुक्त बुद्धिवाले

धीराः=ज्ञानी

+कदाचित् = { कभी प्रारब्ध-  
+प्रारब्धवशात् { वश से

महाभोगैः = { बड़े-बड़े भोगों  
के साथ

विलसन्ति=क्रीड़ा करते हैं

+च=और

+कदाचित्=कभी

गिरिगह्वरान् = { पहाड़ की कन्द-  
राश्यों में

विशन्ति=प्रवेश करते हैं ॥

भावार्थ ।

जिस ज्ञानी धीर के चित्त की सब कल्पनाएँ नष्ट हो गई हैं, वह प्रारब्ध के वश कभी भोगों विषे क्रीड़ा करता है, कभी प्रारब्धवश

पर्वत और वनों में फिरा करता है, पर उसका चित्त सदा शान्त रहता है। क्योंकि वह आसक्ति कर्तृत्वाध्यास से रहित बुद्धिवाला है ॥ ५३ ॥

मूलम् ।

श्रोत्रियं देवतां तीर्थमंगनां भूपतिं प्रियम् ।  
दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना ॥५४॥  
पदच्छेदः ।

श्रोत्रियम्, देवताम्, तीर्थम्, अंगनाम्, भूपतिम्, प्रियम्, दृष्ट्वा, संपूज्य, धीरस्य, न, का, अपि, हृदि, वासना ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

श्रोत्रियम्=परिष्कृत को

देवताम्=देवता को

तीर्थम्=तीर्थ को

संपूज्य=पूजन करके

+च=और

अंगनाम्=स्त्री को

भूपतिम्=राजा को

प्रियम्=पुत्रादि को

दृष्ट्वा=देख करके

धीरस्य=जानी के

हृदि=हृदय में

का अपि=कोई भी

वासना=वासना

न भवति=नहीं होती है ॥

भावार्थः ।

हे शिष्य ! जो श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता हैं, उन विषे इन्द्र, अग्नि आदिक देवताओं, गंगा आदिक तीर्थों के पूजा करने से कामना उत्पन्न नहीं होती है। क्योंकि वे निष्काम हैं और सुन्दर स्त्री-पुत्रादिकों के प्रति और राजा को देख करके भी उनके चित्त में कोई वासना खड़ी नहीं होती है। क्योंकि वे सर्वत्र समबुद्धि और समदर्शी हैं ॥ ५४ ॥

मूलम् ।

भृत्यैः पुत्रैः कलत्रैश्च दौहित्रैश्चापि गोत्रजैः ।

विहस्य धिक्कृतो योगी न याति विकृतिं मनाक् ५५

पदच्छेदः ।

भृत्यैः, पुत्रैः, कलत्रैः, च, दौहित्रैः, च, अपि, गोत्रजैः, विहस्य, धिक्कृतः, योगी, न, याति, विकृतिम्, मनाक् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

भृत्यैः=किशरो करके

पुत्रैः=पुत्रों करके

दौहित्रैः=नातियों करके

च=और

गोत्रजैः=बान्धवों करके

अपि=भी

विहस्य=हँस करके

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

धिक्कृतः=धिक्कार किया हुआ

योगी=ज्ञानी

मनाक्=किंचित् भी

विकृतिम्= { विकार को  
अर्थात् चित्त  
के लोभ को

न याति=नहीं प्राप्त होता है ॥

भावार्थः ।

हे शिष्य ! जो ज्ञानी जीवनमुक्त हैं, उनका चित्त भृत्यों करके याने नौकरों करके, पुत्रों करके, स्त्रियों करके, कन्याओं करके और स्वगोत्रियों करके अर्थात् सम्बन्धियों करके भी तिरस्कार किया हुआ लोभ को नहीं प्राप्त होता है । और उन करके सत्कार किया हुआ न हर्ष को प्राप्त होता है । क्योंकि राग-द्वेष का हेतु जो मोह है, सो मोह उनमें नहीं है ॥ ५५ ॥

मूलम् ।

संतुष्टोऽपि न सन्तुष्टः खिन्नोऽपि न च खिद्यते ।  
तस्याश्चर्यदशां तां तां तादृशा एव जानते ॥ ५६ ॥

पदच्छेद ।

सन्तुष्ट, अपि, न, सन्तुष्टः, खिन्न, अपि, न, च, खिद्यते, तस्य,  
आश्चर्यदशाम्, ताम्, ताम्, तादृशा, एव, जानते ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

+ज्ञानी=ज्ञानी पुरुष

अपि=भी

+लोकदृष्ट्या=लोक दृष्टि से

न खिद्यते= { नहीं दुःख को  
प्राप्त होता है

सन्तुष्ट =सन्तोषवान् हुआ

अपि=भी

तस्य=उसकी

न=नहीं

सन्तुष्ट =सन्तुष्ट है

ताम् ताम्=उस उस

च=और

आश्चर्यदशाम्=आश्चर्य दशा को

तादृशा एव=वैसे ही ज्ञानी

खिन्न =खेद को पाया हुआ

जानते=जानते हैं ॥

भारार्थ ।

हे शिष्य । लोक-दृष्टि करके खेद को प्राप्त हुआ भी वह खेद  
को नहीं प्राप्त होता है और लोक दृष्टि करके हर्ष को प्राप्त हुआ भी  
वह हर्ष का नहीं प्राप्त होना है । ऐसे विद्वान् की आश्चर्यप्रत् लीला  
को विद्वान् ही जानता है, दूसरा नहीं ॥ ५६ ॥

मूलम् ।

कर्तव्यतैव संसारो न तां पश्यन्ति सूरयः ।  
शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयाः ॥ ५७ ॥

पदच्छेदः ।

कर्त्तव्यता, एव, संसारः, न, ताम्, पश्यन्ति, सूरयः, शून्याकाराः,  
निराकारा, निर्विकाराः, निरामयाः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
कर्त्तव्यता=कर्त्तव्यता		निर्विकाराः=संकल्प-रहित	
एव=ही		च=और	
संसारः=संसार है		निरामयाः=दुःख-रहित	
ताम्=उस कर्त्तव्यता को		सूरयः=ज्ञानी	
शून्याकाराः=शून्याकार		न पश्यन्ति=नहीं देखते हैं ॥	
निराकाराः=आकार-रहित			

भावार्थः ।

हे शिष्य! “ममेदं कर्त्तव्यम्” मेरे को यह कर्त्तव्य है, ऐसे निश्चय का नाम ही संसार है । इसी कारण जीवन्मुक्त ज्ञानी उस कर्त्तव्यता को नहीं देखता है । और न उसका संकल्प करता है । क्योंकि वह संकल्प-मात्र से रहित है, वह शून्याकार है, और निराकारादि संकल्पों से भी रहित है, और विकारों से भी रहित है, और जो आध्यात्मिकादि रोग हैं, उनसे भी रहित है ॥ ५७ ॥

मूलम् ।

अकुर्वन्नपि संक्षोभाद् व्यग्रः सर्वत्र मूढधीः ।  
कुर्वन्नपि तु कृत्यानि कुशलो हि निराकुलः ॥ ५८ ॥

पदच्छेदः ।

अकुर्वन्, अपि, संक्षोभात्, व्यग्रः, सर्वत्र, मूढधीः, कुर्वन्, अपि,  
तु, कृत्यानि, कुशलः, हि, निराकुलः ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

मूढधी=अज्ञानी

अकुर्वन्= { कर्मों को नहीं  
करता हुआ

अपि=भी

सर्वत्र=सब जगह

संचोभात्= { संकल्प-विकल्प  
के कारण

व्यग्र=व्याकुल

भवति=होता है

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

च=और

कुशलः=ज्ञानी

च=और

कृत्यानि=कर्मों को

कुर्वन्=करता हुआ

अपि=भी

हि=निश्चय करके

निराकुलः=निश्चल चित्तवाला

भवति=होता है ॥

भावार्थ ।

हे शिष्य! अज्ञानी शून्य मंदिरों में और वनादिक, पर्वतादिक एकांत स्थानों में कर्मों को अर्थात् शरीर इन्द्रियादि के व्यापारों को न करता हुआ भी संकल्पों से व्यग्र चित्तवाला ही होता है, और विद्वान् सर्वत्र शरीर इन्द्रियादिकों के व्यापारों को लोक-दृष्टि करके करता हुआ भी व्यग्र चित्तवाला नहीं होता है । क्योंकि वह निःसंकल्प है ॥ ५८ ॥

मूलम् ।

॥ सुखमास्ते सुखं शेते सुखमायाति याति च ।

सुखं वक्ति सुखं भुङ्क्ते व्यवहारेऽपि शान्तधीः ॥५९॥

पदच्छेदः ।

सुखम्, आस्ते, सुखम्, शेते, सुखम्, आयाति, याति, च, सुखम्, वक्ति, सुखम्, भुङ्क्ते, व्यवहारे, अपि, शान्तधीः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
व्यवहारे=व्यवहार में		च=और	
अपि=भी		याति=जाता है	
शान्तधीः=ज्ञानी		सुखम्=सुख-पूर्वक	
सुखम्=सुख-पूर्वक		वक्ति=बोलता है	
आस्ते=बैठता है		च=और	
सुखम्=सुखपूर्वक		सुखम्=सुख-पूर्वक	
आयाति=आता है		भुङ्क्ते=भोजन करता है ॥	
	भावार्थ ।		

जीवन्मुक्त ज्ञानी व्यवहार आदिकों में भी आत्मसुख करके ही स्थित रहता है । बैठते-उठते, शयन करते, खाते-पीते, संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी विद्वान् शान्तचित्तवाला रहता है ॥ ५६ ॥

मूलम् ।

स्वभावाद्यस्य नैवातिर्लोकवद्व्यवहारिणः ।

महाहृद् इवाक्षोभ्यो गतक्लेशः सुशोभते ॥६०॥

पदच्छेदः ।

स्वभावात्, यस्य, न, एव, आर्तिः, लोकवत्, व्यवहारिणः, महाहृद्, इव, अक्षोभ्यः, गतक्लेशः, सुशोभते ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
यस्य=जिस		न=नहीं	
व्यवहारिणः=व्यवहार करनेवाले		एव=निश्चय करके	
ज्ञानिनः=ज्ञानी को		सः=वह	
स्वभावात्= { आत्म-ज्ञान के		गतक्लेशः=क्लेश-रहित ज्ञानी	
स्वभाव से		महाहृद् इव=समुद्रवत्	
लोकवत्=लोक की तरह		अक्षोभ्यः=क्षोभ-रहित	
		सुशोभते=शोभायमानहोत	

भावार्थ ।

ज्ञानवान् व्यवहार को करता हुआ भी अज्ञानी पुरुषों की तरह खेद को नहीं प्राप्त होता है । वह महाहृद की तरह क्षोभ से रहित शोभा को प्राप्त होता है ॥ ६० ॥

मलम् ।

निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते ।

प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलदायिनी ॥ ६१ ॥

पदच्छेदः ।

निवृत्तिः, अपि, मूढस्य, प्रवृत्तिः, उपजायते, प्रवृत्तिः, अपि, धीरस्य, निवृत्तिफलदायिनी ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

मूढस्य=मूढ की  
निवृत्तिः=निवृत्ति  
अपि=भी  
प्रवृत्तिः=प्रवृत्ति-रूप  
उपजायते=होती है

च=और  
धीरस्य=ज्ञानी की  
प्रवृत्तिः=प्रवृत्ति  
अपि=भी

निवृत्तिफल- { निवृत्ति फल को  
दायिनी { देनेवाली है ॥

भावार्थ ।

मूढ़ पुरुष के इन्द्रियों के व्यापारों की निवृत्ति तो लोक-दृष्टि करके अवरय प्रतीत होती है, परंतु वह निवृत्ति प्रवृत्ति ही है । क्योंकि उसके अहंकारादिक निवृत्त नहीं हुए हैं और ज्ञानवान् की लोक-दृष्टि करके इन्द्रियों की प्रवृत्ति प्रतीत भी होती है, तो भी वह



निवृत्ति-रूप ही है, और मुक्ति-रूपी फल को देनेवाली है । क्योंकि उसमें अभिमान का अभाव है ॥ ६१ ॥

मूलम् ।

परिग्रहेषु वैराग्यं प्रायो मूढस्य दृश्यते ।

देहे विगलिताशस्य क रागः च विरागता ॥ ६२ ॥

पदच्छेदः ।

परिग्रहेषु, वैराग्यम्, प्रायः मूढस्य, दृश्यते, देहे, विगलिताशस्य, क, रागः, क, विरागता ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

मूढस्य=जाना का

वैराग्यम्=वैराग्य

प्रायः=विशेष करके

परिग्रहेषु=गृह आदि में

दृश्यते=देखा जाता है

परन्तु=परन्तु

देहे=देह में

विगलिताशस्य= { गलित हो गई है  
आशा जिसकी  
ऐसे जानी को

क=कहाँ

रागः=राग है

च=और

क=कहाँ

विरागता=वैराग्य है ॥

भावार्थः ।

हे शिष्य ! देहाभिमानी मूढ़ पुरुष को देह के साथ सम्बन्धवाले जो धन, वेश्या आदिक है, उनमें यदि किसी निमित्त से वैराग्य भी उत्पन्न हो जावे, तो भी वह वैराग्य-शून्य है, परन्तु जिसका देहादिकों के साथ अभिमान नष्ट हो गया है, उसको देह-सम्बन्धी पुत्रा-

दिकों में न राग है, और शत्रु-व्याघ्रादिकों में न विराग है, राग और विराग उमको होता है, जिसको अपने देह का अभिमान है ॥६२॥

मूलम् ।

भावनाभावनासक्ता दृष्टिमूढस्य सर्वदा ।

भाव्यभावनया सा तु स्वस्थस्यादृष्टिरूपिणी ॥६३॥

पदच्छेद ।

भायनाभायनासक्ता, दृष्टि, मूढस्य, सर्वदा, भाव्यभावनया, सा, तु, स्वस्थस्य, अदृष्टिरूपिणी ॥

अन्वय. ।	शब्दार्थ ।	अन्वय. ।	शब्दार्थ ।
मूढस्य=जाना की		सा=दृष्टि	
दृष्टि=दृष्टि		भाव्यभावनया={ दृश्य की चिन्ता	
सर्वदा=सर्वदा		से युक्त हो करके	
भावनाभावना={ भावना में या		अपि=भी	
सक्ता={ अभावना में		अदृष्टिरूपिणी={ दृश्य के दर्शन	
लगी हुई है		से रहित रूप-	
तु=परन्तु		वाली	
स्वस्थस्य=जाना की		भवति=होती है ॥	

भावार्थ ।

हे शिष्य ! मूढ़ पुरुष कहता है कि मैं भावना करता हूँ, मैं अभावना करता हूँ। इस प्रकार सर्वदा भावना-अभावना में ही व्यासक्त रहता है। क्योंकि उसको भावना अभावना में अहंकार है। और जो अपने स्वल्प में निष्ठागाला है, उसकी दृष्टि भावना अभावना से रहित होकर सर्वदा अपने आत्मा में ही रहती है ॥ ६३ ॥

मूलम् ।

सर्वारम्भेषु निष्कामो यश्चरेद्बालवन्मुनिः ।

न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणोऽपि कर्मणि ॥ ६४ ॥

पद-छेद ।

सर्वारम्भेषु निष्काम, य, चरेत्, बालवत्, मुनि, न, लेप, तस्य, शुद्धस्य, क्रियमाणे, अपि, कर्मणि ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

य = जो

मुनि = ज्ञानी

बालवत् = बालकों का तरह

निष्काम = कामना रहित होकर

सर्वारम्भेषु = { सत्र क्रियाओं  
में आरम्भ

चरत् = करता है

तस्य = उस

शुद्धस्य = शुद्ध स्वरूप को

क्रियमाणे = { किये हुए कर्म  
में भी

लेप न भवति = लेप नहीं होता है ॥

भावार्थ ।

जो विद्वान् बालक की तरह कामना से रहित होकर पहल जन्मके कर्मा के वश से प्रथात् प्रारब्ध जश से सम्पूर्ण आरम्भों में प्रवृत्त होता भी है, तो भी वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि वह अहंकार रूपी मल से रहित है और इसी कारण उसमें कर्तृत्व भाव नहीं है ॥ ६४ ॥

मूलम् ।

स एव धन्य आत्मज्ञः सर्वभाषेषु यः समः ।

पश्यन्ब्रह्मवन्स्पृशन्निघ्नन्नश्नन्निति स्तर्पमानसः ॥ ६५ ॥

पदच्छेद ।

स, एव, धन्य, आत्मज्ञ, सर्वभावेपु, य, सम, पश्यन्, शृण्वन्,  
स्पृशन्, जिघ्रन्, अश्नन्, निस्तर्पमानस ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

स एव=वही

आत्मज्ञ =आत्म-ज्ञानी

धन्य =धन्य है

य =जो

निस्तर्पमानस =तृष्णा रहित

पश्यन्=देखना हुआ

शृण्वन्=सुनता हुआ

स्पृशन्=स्पर्श करता हुआ

जिघ्रन्=सूँघता हुआ

अश्नन्=खाता हुआ

सर्वभावेपु=सब भावों में

सम =एक-रस है ॥

भावार्थ ।

अष्टावक्रजी कहते हैं कि हे जनक ! वही आत्मज्ञानी पुरुष धन्य है, जिसको सब प्राणियों में आत्मबुद्धि है । इसी कारण उसका चित्त तृष्णा से रहित है । वह सर्व पदार्थों को देखता हुआ, श्रमण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, खाता हुआ भी कुछ नहीं करता है, किन्तु वह सर्वदा शान्त एक-रस है ॥ ६५ ॥

मूलम् ।

क संसारः क चाभासः क साध्यं क च साधनम् ।  
आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा ॥६६॥

पदच्छेद ।

क, संसार, क, च, आभास, क, साध्यम्, क, च, साधनम्,  
आकाशस्य, इव, धीरस्य, निर्विकल्पस्य, सर्वदा ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
सर्वदा=सर्वदा		क=कहाँ	
आकाशस्य इव=आकाशवत्		आभास =उसका भान है	
निर्विकल्पस्य=विकल्प-रहित		क=कहाँ	
धीरस्य=ज्ञानी को		साध्यम्=साध्य अर्थात् स्वर्ग है	
क=कहाँ		च=और	
संसार.=संसार है		साधनम्= { साधन अर्थात्	
च=और		यज्ञादि कर्म ही ॥	

भावार्थः ।

जो विद्वान् सर्वदा सकल्प-विकल्पों में रहित है, उसको प्रपञ्च कहाँ और उसकी दृष्टि में स्वर्गादिक कहाँ ? जब उसकी दृष्टि में स्वर्गादिक ही नहीं, तब उनका साधनीभूत योगादिक उसकी दृष्टि में कहाँ ? आत्मवित् जीवनमुक्त की दृष्टि में जब कि सर्वत्र एक आत्मा ही व्यापक परिपूर्ण है, दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है, तब स्वर्ग-नरक और उनके साधन-भूत पुण्य-पापादिक भी कहाँ नहीं ॥ ६६ ॥

मूलम् ।

स जयत्यर्थसंन्यासी पूर्णस्वरसविग्रहः ।

अकृत्रिमोऽनवच्छिन्नो समाधिर्यस्य वर्तते ॥ ६७ ॥

पदच्छेदः ।

सः, जयति, अर्थसंन्यासी, पूर्णस्वरसविग्रहः, अकृत्रिमः, अनवच्छिन्ने, समाधिः, यस्य, वर्तते ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ । अन्वय ।

शब्दार्थ ।

स = वही

अर्थसन्त्यासी = दृष्टादृष्ट कर्म फल  
 पूर्णस्वरस- = { पूर्णानन्द स्वर  
 विग्रह = { रूपवाला ज्ञानी  
 जयति = जय को प्राप्त होता है

यस्य = जिसकी  
 अष्टात्रिम = स्वाभाविक  
 समाधि = समाधि  
 अनरच्छिन्ने = अपने पूर्ण स्वरूप में  
 वर्तते = वर्तती है ॥

भारार्थ ।

प्रणायकजी कहते हैं कि हे जनक ! जो विद्वान् दृष्ट-अदृष्ट  
 अर्थात् इस लोक के और परलोक के फलों की कामना से रहित है,  
 अर्थात् जो निष्काम है, वही परिपूर्ण स्वरूपवाला है । अर्थात् अपने  
 स्वरूप में ही जिसकी ममाधि सर्वदा बनी रहती है, वही विद्वान् है,  
 वह सबसे श्रेष्ठ होकर समाधि में फिरता है ॥ ६७ ॥

मूलम् ।

बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञाततत्त्वो महाशयः ।  
 भोगमोक्षनिराकाङ्क्षी सदा सर्वत्र नीरसः ॥ ६८ ॥

पद-श्रेण्ड ।

बहुना, अत्र, किम्, उक्तेन, ज्ञाततत्त्व, महाशय, भोगमोक्ष  
 निराकाङ्क्षी, सदा, सर्वत्र, नीरस ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अत्र = इसमें  
 बहुना = बहुत  
 उक्तेन = कहने से  
 किम् = क्या प्रयोजन है

भोगमो-  
 क्षनिग = { भोग और मोक्ष  
 काङ्क्षी = { की आकांक्षा का  
 त्यागी  
 महाशय = वही  
 सदा = सदैव  
 सर्वत्र = सर्वत्र  
 नीरस = राग द्वेष रहित है ॥

ज्ञाततत्त्व = तत्त्व जाननेवाला

भारार्थ ।

हे जनक ! जो विद्वान् ज्ञाततत्त्व है, अर्थात् जिम विद्वान् ने आत्मतत्त्व को जान लिया है, उसी का नाम ज्ञाततत्त्व है । क्योंकि यह भोग प्रेर मोक्ष दोनों में निराकाङ्क्षी है, आकाङ्क्षा से रहित है । अर्थात् दोनों में राग द्वेष से रहित है ॥ ६८ ॥

मूलम् ।

महदादि जगद्द्वैतं नाममात्रविजृम्भितम् ।

विहाय शुद्धबोधस्य किं कृत्यमवशिष्यते ॥ ६९ ॥

पदच्छेद ।

महदादि, जगत्, द्वैतम्, नाममात्रविजृम्भितम्, विहाय, शुद्धबोधस्य, किम्, कृत्यम्, अवशिष्यते ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

महदादि=महत्त्व आदि

विहाय=छोड़कर

द्वैतम् जगत्=द्वैत जगत्

शुद्धबोधस्य= { शुद्ध बुद्ध-स्वरूपवाले को

नाममात्र- { नाम मात्र भिन्न  
विजृम्भितम् { है

किम्=क्या

तत्र=उसमें

कृत्यम्=कृतव्यता

कल्पनाम्=कल्पना को

अवशिष्यते=अवशेष रहती है ॥

भारार्थ ।

हे जनक ! महदादिरूप जितना जगत् है, अर्थात् महत्त्व, अहकार, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चमहाभूत और उनका कार्य-रूप जितना जगत् है, वह केवल नाम-मात्र करके ही फला है, और प्रात्मा से भिन्न की नाई प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में भिन्न नहीं है ।

वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति श्रुतेः ।

जितना कि नाम का विषय-विकार है, वह सब वाणी का कथन-मात्र ही है । मृत्तिका ही सत्य है ॥ १ ॥

इसी तरह जितना कि नाम का घटपटादि-रूप जगत् है, वह मय कल्पना-मात्र ही है, अविष्टान-रूप ब्रह्म ही सत्य है ।

जिस विद्वान् ने सपूर्ण कल्पना का त्याग कर दिया है, जो केवल शुद्ध चैतन्य-स्वरूप में ही स्थित है, उसको कोई कर्तव्य बाती नहीं रहा है ॥ ६६ ॥

मूलम् ।

अमभूतमिदं सर्वं किञ्चिन्नास्तीति निश्चयी ।

अलक्ष्यस्फुरणः शुद्धः स्वभावेनैव शाम्यति ॥७०॥

पदच्छेदः ।

अमभूतम्, इदम्, सर्वम्, किञ्चित्, न, अस्ति, इति, निश्चयी, अलक्ष्यस्फुरण, शुद्ध, स्वभावेन, एव, शाम्यति ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

इदम्=यह

सर्वम्=सब

अमभूतम्=प्रपञ्च

किञ्चित्=कुछ

न अस्ति=नहीं है

इति=ऐसा

शुद्ध =शुद्ध

निश्चयी=निश्चय करनेवाला

स्वभावेन=स्वभाव से

एव=हि

शाम्यति={ शान्ति को प्राप्त  
होता है ॥

अलक्ष्यस्फुरण = { चैतन्या-  
रमानुभवी



भावार्थ ।

प्रश्न—अनर्थ का शान्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये ?

उत्तर—अभिप्राय के साक्षात्कार होने पर यह संपूर्ण जगत् भ्रम करके ही कल्पित प्रतीत होता है । वास्तव में कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता है । जिम पुरुष को ऐसा ज्ञान है, वह कुछ भी प्रयत्न नहीं करता है । क्योंकि वह स्वभाव करके ही शान्तरूप है । शान्ति के लिये फिर उसको कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता है ॥ ७० ॥

मूलम् ।

शुद्धस्फुरणरूपस्य दृश्यभावमपश्यतः ।

क विधिः क च वैराग्यं क त्यागः क शमोऽपि वा ७१ ॥

पदच्छेदः ।

शुद्धस्फुरणरूपस्य, दृश्यभावम्, अपश्यतः, क, विधिः, क, च, वैराग्यम्, क, त्यागः, क, शमः, अपि, वा ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

दृश्यभावम्=दृश्यभाव को

अपश्यतः=गर्भी देखने हुए

शुद्धस्फुर-  
णरूपस्य = { शुद्ध-स्फुरण-रूप-  
वाले को

क=कहाँ

विधिः=कर्म की विधि है

च=और

क=कहाँ

त्यागः=त्याग है

वा अपि=यद्यपि

क=कहाँ

शमः=शम है ॥

भावार्थः ।

जो विद्वान् शुद्ध-स्वरूप, स्वप्रकाश, चिद्रूप, अपने आपका देवता है, वह किसी और दृश्य पदार्थ को नहीं देखता है । उसको कर्म

में राग कहां है ? और विधि कहां है ? और किस विषय में उसको वेराग्य है, और किसमें शम है ॥ ७१ ॥

मूलम् ।

स्फुरतोऽनन्तरूपेण प्रकृतिं च न पश्यतः ।

क्व बन्धः क्व च वा मोक्षः क्व हर्षः क्व विषादता ॥ ७२ ॥

पदच्छेद ।

स्फुरत, अनन्तरूपेण, प्रकृतिम्, च, न, पश्यत, क्व, बन्ध, क्व, च, वा, मोक्ष, क्व, हर्ष, क्व, विषादता ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय. ।

शब्दार्थ ।

च=और

क्व=कहाँ

अनन्तरूपेण=अनन्त-रूप से

मोक्ष=मोक्ष है

प्रकृतिम्=माया को

वा=और

न पश्यत =नहीं देखते हुए

क्व=कहाँ

स्फुरत = { प्रवाशमान अर्थात्  
जानी को

हर्ष =हर्ष है

च=और

क्व=कहाँ

क्व=कहाँ

बन्ध =बन्धन है

विषादता=शोक है ॥

भावार्थ ।

जो चिद्रूप आत्मा में कार्य के सहित माया को नहीं देखता है, उसकी दृष्टि में बन्ध कहां है ? मोक्ष कहां है ? और हर्ष-विषाद कहां है ? ॥ ७२ ॥

मूलम् ।

बुद्धिपर्यन्तसंसारे मायामात्रं विवर्तते ।

निर्ममो निरहङ्कारो निष्कामः शोभते बुधः ॥७३॥

पदच्छेद ।

बुद्धिपर्यन्तसंसारे, मायामात्रम्, विवर्तते, निर्मम, निरहङ्कार, निष्काम, शोभते, बुध ।

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
बुद्धिपर्यन्त- संसारं =	{ बुद्धि पर्यन्त संसार में	बुध =	ज्ञानी पुरुष
मायामात्रम् =	{ माया विशु चेतन्य	निर्मम =	ममता रहित
जगतु =	जगत् भाग्य कः।	निरहङ्कार =	अहंकार रहित
विवर्तते =	कल्पित करता है	निष्काम =	कामना रहित
		शोभते =	शोभायमान होता है ॥

भावार्थ ।

शात्म ज्ञान पर्यन्त ही है संसार जिसमें, अर्थात् आत्मज्ञान-रूप ज्ञानप्राप्ति संसार में माया मयल चेतन ही विवर्त-रूप कल्पित जगदाकार हो भासता है। ऐम निश्चयप्राप्त विद्वान् का शरीरादिकों में अहंकार नहीं रहता है। वह ममता से और कामना से रहित होकर विचरता है ॥ ७३ ॥

मूलम् ।

अक्षयं गतसंतापमात्मानं पश्यतो मुनेः ।

क्व विद्या च क्व वा विश्वं क्व देहोऽह ममेति वा ॥७४॥

पदच्छेद ।

अक्षयम्, गतसंतापम्, आत्मानम्, पश्यन्, मुने, क, विद्या,  
च, क, वा, विश्वम्, क, देहः, अहम्, मम, इति, वा ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
अक्षयम्=अविनाशी		क=कहाँ	
च=और		विश्वम्=विश्व है	
गतसंतापम्=संताप-रहित		वा=अथवा	
आत्मानम्=आत्मा के		क=कहाँ	
पश्यतः=देखनेवाले		देहः=देह है	
मुने=मुनि को		वा=और	
क=कहाँ		क=कहाँ	
विद्या=विद्या, शास्त्र		अहम् मम=अहंमम भाव है ॥	
च=और			

भावार्थ ।

जो विद्वान् नाश से रहित, संतापो से रहित आत्मा को देखता है, उसको विद्या कहाँ / और शास्त्र कहाँ ? क्योंकि उसकी दृष्टि में न जगत् है, और न शरीर है । आत्मा में अतिरिक्त का उसमें स्फुरण नहीं होता है ॥ ७४ ॥

मूलम् ।

निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीर्यदि ।

मनोरथान्प्रलापांश्च कर्तुं मामोत्पतत्क्षणात् ॥७५॥

पदच्छेदः ।

निरोधादीनि, कर्माणि, जहाति, जडधीः, यदि, मनोरथान्, प्रलापान्, च, कर्तुम्, आप्नोति, अतत्क्षणात् ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
यदि=जब		अतत्क्षणात्=तभी से	
जडधीः=प्रज्ञानी		मनोरथान्=मनोरथों	
निरोधादीनि=चित्त-निरोधादिक		च=और	
कर्माणि=कर्मों को		प्रलापान्=प्रलापों के	
जहाति=त्यागता है		कर्तुम्=करने को	
		आप्नोति=प्रवृत्त होता है ॥	

भावार्थः ।

यदि अज्ञानी चित्त के निरोधादि कर्मों का त्याग भी कर देवे, तो भी वह मनोराज्यादिकों और वाणी के प्रलापों को किया करता है ॥ ७५ ॥

मूलम् ।

मन्दः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढताम् ।  
निर्विकल्पो बहिर्यत्नादन्तर्विषयलालसः ॥ ७६ ॥

पदच्छेदः ।

मन्दः, श्रुत्वा, अपि, तत्, वस्तु, न, जहाति, विमूढताम्, निर्विकल्पः, बहिः, यत्नात्, अन्तर्विषयलालसः ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
मन्दः=मूर्ख		परन्तु=परन्तु	
तत्=उस		बाहिः=बाह्य	
वस्तु=आत्मा को		यत्रात्=व्यापार से	
श्रुत्वा=सुन करके		निर्विकल्पः=संकल्प-रहित हुआ	
अपि=भी		अन्तर्विषय- = { भीतर याने मन	
विमूढताम्=मूढ़ता को		लालसः = { में विषय का	
न जहाति=नहीं त्याग करता है		लालसावाजा	
		भवति=होता है ॥	

भावार्थः ।

मूर्ख आत्मा का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का त्याग नहीं करता है । मलिन चित्तवाले को आत्मा के श्रवण करने से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है । मूर्ख बाह्य व्यापार से रहित होता हुआ भी मन में विषयों को धारण किया करता है ॥ ७६ ॥

मूलम् ।

ज्ञानाद्गलितकर्मा यो लोकदृष्ट्यापि कर्मकृत् ।  
नाप्नोत्यवसरं कर्तुं वक्तुमेव न किञ्चन ॥ ७७ ॥

पदच्छेदः ।

ज्ञानात्, गलितकर्मा, यः, लोकदृष्ट्या, अपि, कर्मकृत्, न, नाप्नोति,  
अवसरम्, कर्तुम्, वक्तुम्, एव, न, किञ्चन ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

ज्ञानात्=ज्ञान से

न=न

गलितकर्मा= { नष्ट हुआ हे कर्म  
जिसका, ऐसा

किञ्चन=कुछ

कर्तुम्=करने को

यः=जो ज्ञानी

अवसरम्=अवसर

लोकदृष्ट्या=लोक-दृष्टि करके

आप्नोति=पाता है

कर्मकृत्=कर्म का करनेवाला

च=और

अपि=भी

न=न

अस्ति=है

किञ्चन=कुछ

परन्तु=परन्तु

वक्तुम् एव=कहने को ॥

सः=वह

भावार्थ ।

जिस विद्वान् का अध्यास कर्मों में आत्म-ज्ञान से नष्ट हो गया है, वह लोक-दृष्टि से कर्म करता हुआ मालूम देता है, परन्तु मैं कर्म का करता हूँ, ऐसा वह कभी भी नहीं कहता है । क्योंकि उसको आत्म-ज्ञान के प्रताप से कर्म-फल की इच्छा ही नहीं होती है ॥ ७७ ॥

मलम् ।

क तमः क प्रकाशो वा हानं क च न किञ्चन ।

निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा ॥ ७८ ॥

पदच्छेदः ।

क, तमः, क, प्रकाशः, वा, हानम्, क, च, न, किञ्चन, निर्विकारस्य, धीरस्य, निरातंकस्य, सर्वदा ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

निर्विकारस्य=निर्विकार

च=और

सर्वदा=सर्वदा

निरातकस्य=निर्भय

धीरस्य=ज्ञानी को

क=कहाँ

तमः=अन्धकार है

वा=अथवा

क=कहाँ

प्रकाश.=प्रकाश है

च=और

क=कहाँ

हानम्=त्याग है

न किञ्चन=कुछ नहीं है ॥

भावार्थ ।

हे शिष्य ! जिस विद्वान् के मोहादि-रूप सब विकार दूर हो गये हैं, उसकी दृष्टि में तम कहाँ है ? और तम के अभाव होने से प्रकाश कहाँ है ? ये दोनों सापेक्षिक हैं । एक के न होने से दूसरे की भी स्थिति नहीं है । क्योंकि लौकिक दृष्टि करके ही तम और प्रकाश हैं, सो लौकिक दृष्टि उसकी आत्म-दृष्टि करके नष्ट हो जाती है, इसलिये उसकी दृष्टि में प्रकाश और तम दोनों नहीं रहते हैं । ऐसे विद्वान् को कालादिको का भी भय नहीं रहता है । उसको न कहीं हानि है, न लाभ है, न किसी में राग है, न द्वेष है, न ग्रहण है, न त्याग है ॥७८॥

मूलम् ।

क धैर्यं क विवेकित्वं क निरातंकतापि वा ।

अनिर्वाच्यस्वभावस्य निःस्वभावस्य योगिनः ॥७९॥

पदच्छेदः ।

क, धैर्यम्, क, विवेकित्वम्, क, निरातंकता, अपि, वा, अनि-  
र्वाच्यस्वभावस्य, निःस्वभावस्य, योगिनः ॥



अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अनिर्वाच्यस्व-  
भावस्य = { अनिर्वचनीय स्व-  
भाववाले

च=और

निःस्वभावस्य=स्वभाव-रहित

योगिनः=योगी को

धैर्यम्=धीरता

क=कहाँ है

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

विवेकित्वम्=विवेकिता

क=कहाँ

वा=प्रथवा

निरातंकता=निर्भयता

अपि=भी

क=कहाँ है ॥

भावार्थः ।

अनिर्वाच्य स्वभाववाले योगी को धीरता कहाँ ? और विवेकता कहाँ ? स्वभाव-रहित योगी को भय और निर्भयता कहाँ ? वह सदा आनन्द-रूप एकरस है ॥ ७६ ॥

मूलम् ।

न स्वर्गो नैव नरको जीवन्मुक्तिर्न चैव हि ।

बहुनात्र किमुक्तेन योगदृष्ट्या न किञ्चन ॥ ८० ॥

पदच्छेदः ।

न, स्वर्गः, न, एव, नरकः, जीवन्मुक्तिः, न, च, एव, हि, बहुना, अत्र, किम्, उक्तेन, योगदृष्ट्या, न, किञ्चन ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

+ ज्ञानिनम्=ज्ञानी को

न=न

स्वर्गः=स्वर्ग है

न=न

नरकः एव=नरक ही है

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

च=और

न=न

जीवन्मुक्तिः एव=जीवन्मुक्ति ही

हि=निश्चय करके

अत्र=इसमें

न=न  
सः=वह  
लाभम्=लाभ के लिये  
प्रार्थयते=प्रार्थना करता है  
च=और

न=न  
अलाभेन=हानि होने से  
एव=कभी  
अनुशोचति=शोच करता है॥

भावार्थ ।

जीवन्मुक्त ज्ञानी न लाभ की प्रार्थना करता है, और न अलाभ पर शोक करता है, किन्तु उसका चित्त परमानन्द-रूपी अमृत द्वारा ही तृप्त अर्थात् आनन्दित रहता है ॥ ८१ ॥

मूलम् ।

न शान्तं स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निन्दति ।  
समदुःखसुखस्तृप्तः किञ्चित्कृत्यं न पश्यति ॥८२॥

पदच्छेदः ।

न, शान्तम्, स्तौति, निष्कामः, न, दुष्टम्, अपि, निन्दति,  
समदुःखसुखः, तृप्तः, किञ्चित्, कृत्यम्, न, पश्यति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

निष्कामः= { कामना-रत पुरुष  
अर्थात् ज्ञानी

शान्तम्=शान्त पुरुष को

न=न

स्तौति=स्तुति करता है

अपि=और

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

दुष्टम्=दुष्ट पुरुष को

न=न

निन्दति=निन्दा करता है

समदुःख- { सुख और दुःख है  
स्तृप्तः= { तुल्य जिसको, ऐसा

बहुना=बहुत  
उक्तैः=कहने से  
किम्=क्या प्रयोजन है

+ योगिनम्=योगी को  
योगदृष्ट्या=योग-दृष्टि से  
किञ्चन न=कुछ भी नहीं है ॥

भावार्थ ।

जीवन्मुक्त आत्म-ज्ञानी की दृष्टि में न स्वर्ग है, और न नरक है ।

प्रश्न—नास्तिक भी स्वर्ग-नरक को नहीं मानता है, अर्थात् नास्तिक की दृष्टि में भी न स्वर्ग है, न नरक है, तब नास्तिक में और जीवन्मुक्त में कुछ भी भेद न रहा ?

उत्तर—नास्तिक की दृष्टि में यह लोक तां है, परन्तु परलोक नहीं है, और न उसकी दृष्टि में आत्मा ही है । वह तो केवल शून्य को ही मानता है, और ज्ञानी जीवन्मुक्त की दृष्टि में लोक-परलोक दोनों नहीं है, किंतु सर्वत्र एक आत्मा ही परिपूर्ण व्यापक है । आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी विद्वान् की दृष्टि में नहीं है ॥०॥

मूलम् ।

नैव प्रार्थयते लाभं नालाभेनानुशोचति ।

धीरस्य शीतलं चित्तममृतेनैव पूरितम् ॥ ८१ ॥

पदच्छेद ।

न, एव, प्रार्थयते, लाभम्, न, अलाभेन, अनुशोचति, धीरस्य, शीतलम्, चित्तम्, अमृतेन, एव, पूरितम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

धीरस्य=ज्ञानी का

चित्तम्=चित्त

अमृतेन=अमृत से

पूरितम्=पूरित हुआ

शीतलम्=शीतल है

अतः एव=इसी लिये

न=न  
स =वह  
लाभम्=लाभ के लिये  
प्रार्थयते=प्रार्थना करता है  
च=और

न=न  
अलाभेन=हानि होने से  
एव=कभी  
अनुशोचति=शोच करता है॥

भावार्थ ।

जीवन्मुक्त ज्ञानी न लाभ की प्रार्थना करता है, और न अलाभ पर शोक करता है, किन्तु उसका चित्त परमानन्द-रूपी अमृत द्वारा ही तृप्त अर्थात् आनन्दित रहता है ॥ ८१ ॥

मूलम् ।

न शान्तं स्तौति निष्कामो न दुष्टमपि निन्दति ।  
समदुःखसुखस्तृप्तः किञ्चित्कृत्यं न पश्यति ॥८२ ॥

पदच्छेदः ।

न, शान्तम्, स्तौति, निष्काम, न, दुष्टम्, अपि, निन्दति,  
समदुःखसुख, तृप्त, किञ्चित्, कृत्यम्, न, पश्यति ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

निष्कामं = { कामना-रत पुरुष  
अर्थात् ज्ञानी

शान्तम्=शान्त पुरुष को

न=न

स्तौति=स्तुति करता है

अपि=और

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

दुष्टम्=दुष्ट पुरुष को

न=न

निन्दति=निन्दा करता है

समदुःख-सुख = { सुख और दुःख है  
तुल्य जिसको, ऐसा

योगी=योगी	किञ्चित्=कुछ भी
तृप्तः=आनन्दित होता हुआ	न=नहीं
कृत्यम्=किये हुए कर्म को	पश्यति=देखता है ॥

भावार्थ ।

विद्या और कामुक कर्मों से रहित जो ज्ञानी है, वह शान्ति आदिक शुद्ध गुणों द्वारा युक्त हुए पुरुष की स्तुति नहीं करता है ।

निःस्तुतिर्निर्ममस्कारो निःस्वधाकार एव च ।  
चलाचलानिकेतश्च यतिर्निष्कामु को भवेत् ॥ १ ॥

ज्ञानवान् यति किसी की न स्तुति करता है, न किसी को नमस्कार करता है, न अग्नि में हवनादि करता है । वह न एक जगह वास करता है, और न वह किसी की निंदा करता है, सुख-दुःख में सम रहता है, निष्काम होने से किसी कृत्य को नहीं देखता है ॥ ८२ ॥

मूलम् ।

धीरो न द्वेष्टि संसारमात्मानं न दिदृक्षति । -  
हर्षामर्षविनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति ॥ ८३ ॥

पदच्छेदः ।

धीरः, न, द्वेष्टि, संसारम्, आत्मानम्, न, दिदृक्षति, हर्षामर्षवि-  
निर्मुक्तः, न, मृतः, न, च, जीवति ॥

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 हर्षामर्षविनिर्मुक्तः=हर्ष-रोष-रहित  
 धीरः=ज्ञानी  
 संसारम्=संसार के प्रति  
 न=न  
 द्वेष्टि=द्वेष करता है  
 च=और  
 न=न

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 दिहति= { देखने की इच्छा  
 करता है  
 सः=वह  
 न=न  
 मृतः=मरा हुआ  
 च=और  
 न=न  
 जीवति=जीवता है ॥

भावार्थ ।

जो धीर विद्वान् जीवन्मुक्त है, वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता है । क्योंकि वह संसार को देखता ही नहीं है, अपने आत्मा को ही देखता है । और यदि संसार को देखता है, तो बाधितानुवृत्ति द्वारा देखता है । और इसी लिये वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता है । परिपक्व अवस्था में वह आत्मा को भी नहीं देखता है । क्योंकि वह स्वयम् आत्मा-रूप है और इसी कारण वह हर्षादिकों से और जन्म-मरण से रहित है ॥ ८३ ॥

मूलम् ।

निःस्नेहः पुत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च ।

निश्चिन्तः स्वशरीरेऽपि निराशः शोभते बुधः ॥ ८४ ॥

पदच्छेदः ।

निःस्नेहः, पुत्रदारादौ, निष्कामः, विषयेषु, च, निश्चिन्तः,  
 शरीरे, अपि, निराशः, शोभते, बुधः ॥



धीरस्य=ज्ञानी को  
यथापतित-वर्त्तिनः = { पतितवर्त्ती के  
समान

सर्वत्र=सर्वत्र  
तुष्टिः=आनन्द  
भवति=डोता है ॥

भावार्थ ।

धीर विद्वान् को जैसे-जैसे प्रारब्धवश से पदार्थ की प्राप्ति होती है, वैसे ही वैसे वह संतुष्ट रहता है, और प्रारब्ध के वश से नाना प्रकार के देशों में, वनों में, नगरों में विचरता हुआ सर्वत्र ही तुष्ट रहता है ॥ ८५ ॥

मूलम् ।

पततूदेतु वा देहो नास्य चिन्ता महात्मनः ।  
स्वभावभूमिविश्रान्तिविस्मृताशेषसंसृतेः ॥ ८६ ॥

पदच्छेदः ।

पततु, उदेतु, वा, देहः, न, अस्य, चिन्ता, महात्मनः, स्वभावभूमि-  
विश्रान्तिविस्मृताशेषसंसृतेः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

स्वभावभूमि-  
विश्रान्तिवि-  
स्मृताशेषसं-  
सृतेः = { जो निज स्वभाव  
रूपी भूमि में विश्राम  
करता है. विस्मरण  
है संपूर्ण संसार  
जिमको, ऐसे

चिन्ता=चिन्ता  
न=नहीं है  
वा=चाहे  
देहः=देह  
उदेतु=स्थिर रहे  
वा=चाहे  
पततु=नाश होवे ॥

महात्मनः=महात्मा को

अस्य=इस धात की



भावार्थ ।

जिस विद्वान् को अपना स्वरूप ही भूमि है, अर्थात् विश्राम का स्थान है । जिसको अपने स्वरूप में विश्राम करके किसी प्रकार की भी चिन्ता नहीं होती है, चाहे देह रहे, वा न रहे, उही जीव-मुक्त है, उही ससार से निवृत्त है ॥ ८६ ॥

मूलम् ।

अकिञ्चनः कामचारो निर्द्वन्द्वश्छिन्नसंशयः ।

असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधः ॥ ८७ ॥

पदच्छेद ।

अकिञ्चन, कामचार, निर्द्वन्द्व, छिन्नसंशय, असक्त, सर्वभावेषु, केवल, रमते, बुध ॥

अन्वय । शब्दार्थ ।

अकिञ्चन = गृहस्थधर्म रहित

कामचार = विधि निषेध रहित

असक्त = आसक्ति रहित

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

केवल = विकार रहित

बुध = ज्ञानी

सर्वभावेषु = सब भावों में

रमते = रमण करता है ॥

भावार्थ ।

जीव मुक्त निर्विकार होकर ससार में रमण करता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है । वह विधि-निषेध का किङ्कर नहीं होता है । स्वच्छन्दचारी है । अपनी इच्छा से विचरता है । सुख-दुःखादि द्वन्द्वों से वह रहित है, संशयों से भी रहित है, वह किसी पदार्थ में भी आसक्त नहीं है ॥ ८७ ॥

मूलम् ।

निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टारमकाञ्चनः ।  
सुभिन्नहृदयग्रन्थिर्विनिर्धूँतरजस्तमः ॥ ८८ ॥

पदच्छेदः ।

निर्ममः, शोभते, धीरः, समलोष्टारमकाञ्चनः, सुभिन्नहृदयग्रन्थिः,  
विनिर्धूँतरजस्तमः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

निर्ममः=जो ममता-रहित है

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

सुभिन्नहृदय-ग्रन्थिः= { टूट गई है हृदय  
की ग्रन्थि जिसकी

समलोष्टारम-काञ्चनः= { जिसको देला  
पत्थर और  
स्वर्ण समान है

निर्धूँतरज-स्तमः= { धुल गया है रज  
और तम स्वभाव  
जिसका, ऐसा ज्ञानी

शोभते=शोभायमान होता है

मावार्थः ।

ममता से रहित ही जीवन्मुक्त ज्ञानी शोभा को पाता है । क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्थर, मिट्टी और सोना बराबर हैं । आत्म-ज्ञान के बल से उसके हृदय की ग्रन्थि टूट गई है, रज-तम-रूप मल उसके दूर हो गए हैं ॥ ८८ ॥

मूलम् ।

सर्वत्रानवधानस्य न किञ्चिद्वासना हृदि ।  
मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते ॥ ८९ ॥

पदच्छेदः ।

सर्वत्र, अनवधानस्य, न, किञ्चित्, वासना, हृदि, मुक्तात्मनः, वितृप्तस्य, तुलना, केन, जायते ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
सर्वत्र=सब विषयों में		ईदृशस्य=ऐसे	
अनवधानस्य=आसक्ति-रहित		तृप्तस्य=तृप्त हुए	
हृदि=हृदय में		मुक्तात्मनः=ज्ञानी की	
किञ्चित्=कुछ भी		तुलना=बराबरी	
वासना=वासना		केन=किसके साथ	
न=नहीं है		जायते=की जा सकती है ॥	

भावार्थः ।

जिस विद्वान् को किसी विषय में चित्त की रुचि नहीं है, और जिसके हृदय में किञ्चित् भी वासना नहीं है, बड़ी अध्यास सेरहित ज्ञानी है । उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है, केवल ज्ञानी के साथ ही की जाती है ॥ ८६ ॥

मूलम् ।

जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ।  
ब्रुवन्नपि न च ब्रूते कोऽन्यो निर्वासनादृते ॥ ६० ॥

पदच्छेदः ।

जानन्, अपि, न, जानाति, पश्यन्, अपि, न, पश्यति, ब्रुवन्, अपि, न, च, ब्रूते, कः, अन्यः, निर्वासनात्, अदृते ॥

अन्वयः ।

निर्वासनात्=वासना-रहित पुरुष से

ऋते=इतर

अन्यः=दूसरा

कः=कौन है

यः=जो

जानन्=जानता हुआ

अपि=भी

न=नहीं

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

जानाति=जानता है

पश्यन्=देखता हुआ

अपि=भी

न पश्यति=नहीं देखता है

च=और

श्रुवन्=बोलता हुआ

अपि=भी

न श्रूते=नहीं बोलता है ॥

भावार्थः ।

जीवन्मुक्त विद्वान् पदार्थों को जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, कथन करता हुआ भी नहीं कथन करता है, लोक-दृष्टि करके जानता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, परन्तु परमार्थ-दृष्टि करके न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, निर्वासनिक ज्ञानी के बिना दूसरा ऐसा कौन कर सकता है, किन्तु कोई भी नहीं कर सकता है ॥ ६० ॥

मूलम् ।

भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्कामः स शोभते ।

भावेपु गलिता यस्य शोभनाऽऽशोभना मतिः ॥६१॥

पदच्छेदः ।

भिक्षुः, वा, भूपतिः, वा, अपि, यः, निष्कामः, स, शोभते, भावेपु, गलिता, यस्य, शोभनाऽऽशोभना, मतिः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

भावेपु=सब भावों में

गलिता=गलित हुई है

शोभनाऽऽशो-  
भना = { श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ

मतिः=बुद्धि

यस्य=जिसकी

तस्मात्=इसी लिये

निष्कामः=कामना-रहित है

भावार्थ ।

यः=जो

सः=वह

शोभते=शोभायमान होता है

वा=चाहे

भिक्षुः=भिक्षु हो

अपि=शौर

वा=चाहे

भूपतिः=राजा हो ॥

जिस विद्वान् की उत्तम पदार्थों में इच्छा-बुद्धि नहीं है, और अनुत्तम पदार्थों में दोष-बुद्धि नहीं है, ऐसा जो निष्काम है, वह चाहे भिक्षुक हो, अथवा राजा हो, संसार में वही शोभा को प्राप्त होता है। राजाओं में निष्काम जनक और श्रीरामचन्द्रजी हुए हैं, जिनके यश को आज तक संसार में लोग गान करते हैं। और विरक्तों में जड़भरत, दत्तात्रेय और याज्ञवल्क्य आदि हुए हैं, जिनके शुद्ध चरित्र हस्तामलकवत् सबकी दृष्टि में दिखाई दे रहे हैं ॥ ६१ ॥

मूलम् ।

क स्वाच्छन्द्यं क संकोचः क वा तत्त्वविनिश्चयः ।  
निर्व्याजार्जवभूतस्य चरितार्थस्य योगिनः ॥ ६२ ॥

पदच्छेदः ।

क, स्वाच्छन्द्यम्, क, संकोचः, क, वा, तत्त्वविनिश्चयः, निर्व्या-  
जार्जवभूतस्य, चरितार्थस्य, योगिनः ॥

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 निर्व्याजार्जव- = { निष्कपट और  
 भूतस्य { सरल-रूप  
 च=और  
 चरितार्थस्य=यथोचित  
 योगिनः=योगी को  
 क=कहाँ

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 स्वाच्छन्द्यम्=स्वतन्त्रता है  
 क=कहाँ  
 संकोचः=संकोच है  
 वा=अथवा  
 क=कहाँ  
 तत्त्वविनिश्चयः=तत्त्व का निश्चय है ॥

भावार्थ ।

जो निष्कपट योगी है, कोमल स्वभाववाला है, आत्म-निष्ठावाला है, पूर्णार्थी है, स्वेच्छा-पूर्वक आचारवाला है, उसको संकोच कहाँ है ? और वृत्त्यादि संचरण कहाँ है ? उसको कर्तृत्व कहाँ है ? कहाँ नहीं है, क्योंकि पदार्थों में उसका अभ्यास नहीं है ॥ ६२ ॥

मूलम् ।

आत्मविश्रान्तिवृत्तेन निराशेन गतार्तिना ।  
 अन्तर्यदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते ॥ ६३ ॥

पदच्छेदः ।

आत्मविश्रान्तिवृत्तेन, निराशेन, गतार्तिना, अन्तः, यत्, अनुभूयेत, तत्, कथम्, कस्य, कथ्यते ॥

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 आत्मविश्रान्ति- = { आत्मा में विश्रा-  
 वृत्तेन { म कर वृत्त हुए  
 च=और  
 निराशेन=आधार-रहित हुए  
 गतार्तिना=ज्ञानी के  
 अन्तः=अभ्यन्तर

अन्वयः । शब्दार्थ ।  
 यत्=जो  
 अनुभूयेत=अनुभव होता है  
 तत्=सो  
 कस्य = { किस याने किस  
 अधिकारी के प्रति  
 कथम्=कैसे  
 कथ्यते=कहा जावे ॥

भावार्थ ।

जो विद्वान् अपने आत्मा में तृप्त है, वह शान्त है, ससार से निराश है । जो आनन्द वह अपने अन्तःकरण में अनुभव करता है, वह उस आनन्द को लोगों के प्रति कह नहीं सकता है । क्योंकि उसके तुल्य दूसरा कोई आनन्द उसको नहीं मिलता है ।

दृष्टान्त—एक कुमारी कन्या ने विवाहिता कन्या से पूछा कि पति के साथ सभोग में केसा आनन्द है ? उसने कहा, वह आनन्द मैं कह नहीं सकती हूँ । उस आनन्द की उपमा कोई नहीं है । जब तू विवाही जायेगी, तब आप ही तू जान लेगी । क्योंकि वह स्वसंबंध है वैसे ज्ञानमान् का आनन्द भी स्वसंबंध है, वह वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता है ॥ ६३ ॥

मूलम् ।

सुप्तोऽपि न सुषुप्तौ च स्वप्नेऽपि शयितो न च ।

जागरेऽपि न जागर्ति धीरस्तृप्तः पदे पदे ॥ ६४ ॥

पदच्छेद ।

सुप्त, अपि, न, सुषुप्तौ, च, स्वप्ने, अपि, शयित, न, च, जागरे, अपि, न, जागर्ति, धीर, तृप्त, पदे, पदे ॥

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

अन्वय ।

शब्दार्थ ।

धीर = ज्ञानी  
सुषुप्तौ = सुषुप्ति में  
अपि = भी  
न = नहीं  
सुप्त = सुप्तवान् है

च = और  
स्वप्ने = स्वप्न में  
अपि = भी  
न = नहीं  
शयित = सोया हुआ है

च=और  
जागरे=जाग्रत् में  
अपि=भी  
नं=नहीं  
जागर्ति=जागता है

अतएव=इसी लिये  
सः=वह  
पदेपदे=क्षण-क्षण में  
वृत्तः=वृत्त है ॥

भावार्थ ।

जीवन्मुक्त विद्वान् सुषुप्ति के होने पर भी सुषुप्तिवाला नहीं होता है । और स्वप्न अवस्था के प्राप्त होने पर भी वह स्वप्न अवस्थावाला नहीं होता है । जाग्रत् अवस्थाओं में जागता हुआ भी वह जागता नहीं है । क्योंकि तीनों अवस्थाओंवाली जो बुद्धि है, उसका वह साक्षी होकर उससे पृथक् है ॥ ६४ ॥

मूलम् ।

ज्ञः सचिन्तोऽपि निश्चिन्तः सेन्द्रियोऽपि निरिन्द्रियः ।  
सबुद्धिरपि निबुद्धिः साहंकारोऽनहंकृतिः ॥ ६५ ॥  
पदच्छेदः ।

ज्ञः, सचिन्तः, अपि, निश्चिन्तः, सेन्द्रियः, अपि, निरिन्द्रियः,  
सबुद्धिः, अपि, निबुद्धिः, साहंकारः, अनहंकृतिः ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्ययः

शब्दार्थ ।

ज्ञः=ज्ञानी  
सचिन्तः=चिन्ता-रहित  
अपि=भी  
निश्चिन्तः=चिन्ता-रहित है  
सेन्द्रियः=इन्द्रियों-सहित  
अपि=भी  
निरिन्द्रियः=इन्द्रिय-रहित है

सबुद्धिः=बुद्धि-सहित  
अपि=भी  
निबुद्धिः=बुद्धि-रहित है  
साहंकारः=अहंकार-सहित  
अपि=भी  
अनहंकृतिः=अहंकार-रहित है ॥



भावाय ।

ज्ञानवान् जीवन्मुक्त लोगों की दृष्टि में चिन्ता-युक्त प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह चिन्ता-रहित है । लोक-दृष्टि से वह इन्द्रियों के सहित है, वास्तव में वह निरिन्द्रिय है । लोगों की दृष्टि में वह बुद्धि-युक्त प्रतीत होता है, वास्तव में वह बुद्धि-रहित है । लोगों की दृष्टि में अहंकार के सहित है, वास्तव में वह अहंकार-रहित है । क्योंकि सर्वत्र ही उसकी आत्म-दृष्टि है । जो अपने आपमें आनन्द है, वह और किसी में देखता नहीं है ॥ ६५ ॥

मूलम् ।

न सुखी न च वा दुःखी न विरक्तो न संगवान् ॥  
न मुमुक्षुर्न वा मुक्तो न किञ्चिन्न च किञ्चन ॥६६॥

पदच्छेदः ।

न, सुखी, न, च, वा, दुःखी, न, विरक्तः, न, संगवान्, न,  
मुमुक्षुः, न, वा, मुक्तः, न, किञ्चित्, न, च, किञ्चन ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

ज्ञानी=ज्ञानी

न=न

सुखी=सुखी है

च वा=और

न=न

दुःखी=दुःखी है

न=न

विरक्तः=विरक्त है

न=न

संगवान्=संगवान् है

न=न

मुमुक्षुः=मुमुक्षु है

न वा=अथवा न

मुक्तः=मुक्त है

न किञ्चित्=न कुछ है

न च=और न

किञ्चन=किञ्चन है ॥

भावार्थ ।

जीवन्मुक्त ज्ञानी लोक-दृष्टि से तो वह विषय-भोगों द्वारा बड़ा सुखी प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में वह विषय-जन्य सुख से रहित है और फिर लोक-दृष्टि से शारीरिकादिक रोग करके दुःखी भी प्रतीत होता है, परन्तु आत्मदृष्टि से वह रोगादिकों से रहित ही है । क्योंकि अन्तःकरणादिकों के साथ उसका अध्यास नहीं रहा है ।

प्रश्न—अध्यास किसको कहते हैं ?

उत्तर—सत्यानृतवस्त्वभेदप्रतीतिरध्यासः ।

सत्य वस्तु और मिथ्या वस्तु की जो अभेद प्रतीति है, उसी का नाम अध्यास है, सो सत्य वस्तु आत्मा है, और मिथ्या वस्तु अन्तःकरण है, इन दोनों की अभेद प्रतीति अज्ञानी को होती है, इसी वास्ते अन्तःकरण के धर्म जो सुख-दुःखादिक हैं, उनको वह अपने में मानता है, इसी से वह सुखी-दुःखी होता है । ज्ञानी का अध्यास रहा नहीं, इसी वास्ते वह सुख दुःखादिकों को अन्तःकरण में मानता है, अपने में नहीं मानता है । इसी कारण वह सुख-दुःखादिकों से रहित ही रहता है । ऐसा जीवन्मुक्त विरक्त भी नहीं है, क्योंकि उसका विषयों से द्वेष नहीं है, और वह मुक्त भी नहीं है, क्योंकि प्रथम से ही उसको बन्ध नहीं है । यदि बन्ध होता, तब वह मुक्त भी होता । बन्ध उसको न था, न है, ज्यों का त्यों अपने आपमें स्थित है ॥ ६६ ॥

मूलम् ।

विक्षेपेऽपि न विक्षिप्तः समाधौ न समाधिमान् ।

जाड्येऽपि न जडो धन्यः पाण्डित्येऽपि न पाण्डितः ६७

पदच्छेदः ।

विज्ञेपे, अपि, न, विद्विप्तः, समाधौ, न, समाधिमान्, जाड्ये,  
अपि, न, जड, धन्य, पाण्डित्ये, अपि, न, पण्डित. ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
धन्यः=ज्ञानी		जाड्ये=जड़ता में	
विज्ञेपे=विक्षेप में		अपि=नी	
अपि=भी		न=नहीं	
न=न ही		जडः=जड़ है	
विद्विप्तः=विक्षेपवान् है		पाण्डित्ये=पंडितार्थ में	
समाधौ=समाधि में		अपि=भी	
न=न ही		न=नहीं	
समाधिमान्=समाधिमान् है		पण्डितः=पंडित है ॥	
	भावार्थ ।		

संसार में ज्ञानवान् पुरुष धन्य है । क्योंकि लोक-दृष्टि द्वारा उसको विज्ञेप होने पर भी वह विद्विप्त नहीं होता है । क्योंकि उसको स्वप्रकाश आत्मा का अनुभव हो रहा है, और लोक-दृष्टि करके वह समाधि में भी स्थित है । परन्तु वास्तव में वह समाधि में स्थित भी नहीं है, क्योंकि उसको कर्तृत्वाद्यास नहीं है । फिर वह लोक-दृष्टि द्वारा जड़ प्रतीत होना है, क्योंकि जड़ की तरह वह विचरता है । परन्तु वास्तव में वह आत्म-दृष्टि होने से जड़ नहीं है ।

फिर वह लोक-दृष्टि करके पंडित प्रतीत होता है, परन्तु वह पंडित भी नहीं है, क्योंकि उसको अभिमान नहीं है, इन्हीं हेतुओं से वह जीवन्मुक्त धन्य है ॥ २७ ॥

पूलम् ।

मुक्तो यथास्थितिस्वस्थः कृतकर्तव्यनिवृत्तः ।

समः सर्वत्र वैतृष्णान्न स्मरत्यकृतं कृतम् ॥ ६८ ॥

पदच्छेदः ।

मुक्तः, यथास्थितिस्वस्थः, कृतकर्तव्यनिवृत्तः, समः, सर्वत्र, वैतृष्णात्, न, स्मरति, अकृतम्. कृतम् ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

मुक्तः=ज्ञानी

यथास्थितिस्वस्थः = { कर्मानुसार यथा-  
प्राप्तियस्तु में स्व-  
स्थ चित्तवाला है

कृतकर्तव्यनिवृत्तः = { किये हुए और  
करने-योग्य कर्म  
में संतोषवान्

सर्वत्र=सर्वत्र

समः=सम है

च=और

वैतृष्णात्=तृष्णा के अभाव से  
अकृतम्=नहीं किए हुए

च=और

कृतम्=किए हुए

कर्म=कर्म को

न स्मरति=नहीं स्मरण करता है ॥

भावार्थः ।

जीवन्मुक्त को प्रारब्ध के बश से जैसी स्थिति प्राप्त होती है, उसी में स्वस्थचित्तवाला ही वह रहता है। वह उद्वेग को कदापि नहीं प्राप्त होता है, और पूर्व किए हुए तथा आगे करनेवाले दोनों कर्मों में संतुष्ट चित्त ही रहता है, क्योंकि उसमें हठ अर्थात् आप्रह किसी प्रकार का भी नहीं है, इसी वास्ते वह किए हुए और न किए हुए कर्मों का स्मरण भी नहीं करता है ॥ ६८ ॥

मूलम् ।

न प्रीयते वन्द्यमानो निन्द्यमानो न कुप्यति ।  
नैवोद्विजति मरणे जीवने नाभिनन्दति ॥ ६६ ॥

पदच्छेदः ।

न, प्रीयते, वन्द्यमानः, निन्द्यमानः, न, कुप्यति, न, एव, उद्विजति,  
मरणे, जीवने, न, अभिनन्दति ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

ज्ञानी=ज्ञानी

वन्द्यमानः=स्तुति किया हुआ

न=नहीं

प्रीयते=प्रसन्न होता है

च=और

निन्द्यमानः=निन्दा किया हुआ

न=नहीं

कुप्यति=कोप करता है

च=और

मरणे=मरण में

न एव=कभी नहीं

उद्विजति=उद्वेग करता है

च=और

जीवने=जीवन में

न=नहीं

अभिनन्दति=हर्ष करता है ॥

भावार्थः ।

जीवन्मुक्त ज्ञानी इतर पुरुषों द्वारा स्तुति को प्राप्त हुआ भी हर्ष  
को नहीं प्राप्त होता है, और इतर पुरुषों द्वारा निन्दा किया हुआ  
भी क्रोध को नहीं प्राप्त होता है, और मृत्यु के आने पर भी वह  
भय को भी नहीं प्राप्त होता है । क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा नित्य  
है, जन्म-मरण कोई वस्तु नहीं है । उसको अधिक जीने की न इच्छा  
है, न मरने का शोक है, वह सदा एकरस है ॥ ६६ ॥

मुलम् ।

न धावति जनाकीर्णं नारण्यमुपशान्तधीः ।

यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते ॥ १०० ॥

पदच्छेदः ।

न, धावति, जनाकीर्णम्, न, अरण्यम्, उपशान्तधीः, यथा, तथा, यत्र, तत्र, समः, एव, अवतिष्ठते ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

उपशान्तधीः=शान्त बुद्धिवाला पुरुष

न=न

जनाकीर्णम्= { मनुष्यों से व्याप्त  
देश के सम्मुख

व=धौर

न=न

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अरण्यम्=वन के सम्मुख

धावति=दौड़ता है

परन्तु=परन्तु

यत्र तत्र=जहाँ है वहाँ

समः एव=समभाव से ही

अवतिष्ठते=स्थित रहता है ॥

भावार्थः ।

हे शिष्य ! जो जीवन्मुक्त शान्तचित्त है, वह जनों द्वारा भरेपुरे देश को भी नहीं दौड़ता है, क्योंकि उसके साथ उसका राग नहीं, और वन की ओर भी नहीं दौड़ता है, क्योंकि मनुष्यों के साथ उसका द्वेष नहीं है, जहाँ तहाँ वन में अथवा नगर में वह स्प्रस्थित होकर एकरस ज्यों का त्यों ही रहता है ॥ १०० ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीताभाषाटीकायां शान्तिशतकं नागापादश-  
प्रकरणं समाप्तम् ।

## उन्नीसवाँ प्रकरण



मूलम् ।

तत्त्वविज्ञानसंदंशमादाय हृदयोदरात् ।

नानाविधपरामर्शशल्योद्धारः कृतो मया ॥ १ ॥

पदच्छेदः ।

तत्त्वविज्ञानसंदंशम्, आदाय, हृदयोदरात्, नानाविधपरामर्शशल्यो-  
द्धारः, इत, मया ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थ ।	अन्वयः ।	शब्दार्थ ।
भवतः=आपसे			
तत्त्वविज्ञान- संदंशम्	= { तत्त्वज्ञानरूप मंसी को	नानाविधपरा- मर्शशल्योद्धारः	= { नाना प्रकार के विचार रूपवाण का उद्धार
आदाय=ले करके		मया=मुझ करके	
हृदयोदरात्=हृदय थीर उदर से		कृत =किया गया है ॥	

भावार्थ ।

अब ०कोनविंशति प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं—

शिष्य गुरु के मुख से तत्त्व ज्ञानी की स्वाभाविक शान्ति को श्रवण करके अपने को वृत्तार्थ मानकर, अब गुरु के तोष के लिए अपना शान्ति को आठ रत्नों द्वारा कहता है ।

हे गुरो । मैंने आपके सफाश मे तत्त्वज्ञान के उपदेश की समी-  
कृपी शास्त्र द्वारा अपने हृदय से नाना प्रकार के सबन्धों और  
विकल्पों को निकाल दिया है ॥ १ ॥

मूलम् ।

क धर्मः क च वा कामः क चार्थः क विवेकता ।  
क द्वैतं क च वाऽद्वैतं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥२॥

पदच्छेद ।

क, धर्म, क, च, वा, काम, क, च, प्रर्थ, क, विवेकता,  
क, द्वैतम्, क, च, वा, अद्वैतम्, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
स्वमहिम्नि=अपनी महिमा में		च=और	
स्थितस्य=स्थित हुए		क=कहाँ	
मे=मुझको		अर्थ =अर्थ है ?	
क=कहाँ		वा=अथवा	
धर्म =धर्म है		क=कहाँ	
च=और		द्वैतम्=द्वैत है ?	
क=कहाँ		वा=अथवा	
काम =काम है ?		क=कहाँ	
		अद्वैतम्=अद्वैत है ?	

भारार्थ ।

शिष्य कहता है कि मेरे को धर्म कहाँ है ? और काम कहाँ है ?  
मैंने धर्म, अर्थ और काम को अपने हृदय से निकाल दिया है ।  
क्योंकि ये सब विनाशी हैं, और जो मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, तो



मेरे को विवेक कहौं ? विवेक से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है, और चेतन आत्मा में जो विश्रान्ति को प्राप्त हुआ है, उसको द्वैत और अद्वैत से भी कुछ प्रयोजन नहीं है ।

दृष्टांत—उत्तीर्णो तु गते पारे नौकायाः किं प्रयोजनम् ।

जब कि पुरुष नदी के परलेपार उतर जाता है, तब नौका का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता है । इसी तरह द्वैत का जब आत्मज्ञान करके बाध हो जाता है, तब फिर द्वैत के साथ अद्वैत का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि अद्वैत भी द्वैत की अपेक्षा करके कहा जाता है । जब द्वैत न रहा, तब अद्वैत का कहना भी व्यर्थ ही है । इसवास्ते द्वैत और अद्वैत दोनों मेरे में नहीं हैं ॥ २ ॥

मूलम् ।

क भूतं भविष्यद्वा वर्तमानमपि क्व वा ।

क देशः क्व च वा नित्यं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥३॥

पदच्छेदः ।

क, भूतम्, क, भविष्यत्, वा, वर्तमानम्, अपि, क, वा, क, देशः, क, च, वा, नित्यम्, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

नित्यम्=नित्य

स्वमहिम्नि=अपनी महिमा में

स्थितस्य=रिपत हुए

मे=मुझको

क=कहाँ

भूतम्=भूत है ?

क=कहाँ

भविष्यत्=भविष्यत् है ?

वा=अथवा

क=कहाँ

वर्तमानम् अपि=वर्तमान भी है ?

वा=अथवा

क्व=कहाँ

देशः=देश है ?

भावार्थ ।

शिष्य कहता है कि हे गुरो ! काल का भी मेरे को स्फुरण नहीं होता है । मेरी दृष्टि में भूत, भविष्यत् और वर्तमान कोई नहीं है; और न कोई देश है । क्योंकि मैं नित्य अपनी महिमा में ही स्थित हूँ और सब में मेरी एक आत्मदृष्टि है ॥ ३ ॥

पूलम् ।

क्व चात्मा क्व च वानात्मा क्व शुभं क्वाशुभं तथा ।  
क्व चिन्ता क्व च वाऽचिन्ता स्वमहिम्नि स्थितस्य मेऽ

पदच्छेदः ।

क्व, च, आत्मा, क्व, च, वा, अनात्मा, क्व, शुभम्, क्व, अशुभम्, तथा, क्व, चिन्ता, क्व, च, वा, अचिन्ता, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे ॥

अन्वयः	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
स्वमहिम्नि=अपनी महिमा में		शुभम्=शुभ है ?	
स्थितस्य=स्थित हुए		क्व=कहाँ	
मे=मुझको		अशुभम्=अशुभ है ?	
क्व=कहाँ		तथा=और	
आत्मा=आत्मा है ?		क्व=कहाँ	
च=और		चिन्ता=चिन्ता है ?	
वा=अथवा		वा=अथवा	
क्व=कहाँ		क्व=कहाँ	
अनात्मा=अनात्मा है ?		अचिन्ता=अचिन्ता है ?	
क्व=कहाँ			

भावार्थ ।

शिष्य कहता है कि हे गुरो ! अपनी महिमा में स्थित जो मैं हूँ, मेरी दृष्टि में आत्मा कहाँ ? और अनात्मा कहाँ है ? अर्थात् आत्मा और अनात्मा का व्यवहार अज्ञानी मूर्ख की दृष्टि में होता है । और शुभ कहाँ है ? और अशुभ कहाँ है ? चिन्ता और अचिन्ता कहाँ है ? किन्तु केवल चेतन ही अपनी महिमा में स्थित है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

क्व स्वप्नः क्व सुषुप्तिर्वा क्व च जागरणं तथा ।

क्व तुरीयं भयं वापि स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥५॥

पदच्छेदः ।

क्व, स्वप्नः, क्व, सुषुप्तिः, वा, क्व, च, जागरणम्, तथा, क्व, तुरीयम्, भयम्, वा, अपि, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

स्वमहिम्नि=अपनी महिमा में

स्थितस्य=स्थित हुए

मे=मुझको

क्व=कहाँ

स्वप्नः=स्वप्न

च=और

वा=यथवा

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तथा=और

जागरणम्=जाग्रत है ?

क्व=कहाँ

है ?

भावार्थ ।

हे गुरो ! मेरी दृष्टि में जाग्रत, स्वप्न—तथा सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ भी नहीं हैं; क्योंकि ये तीनों अवस्थाएँ बुद्धि के धर्म हैं, सो बुद्धि ही मिथ्या मान होती है । तुरीय अवस्था कहाँ है ? और भय कहाँ है ? और अभय कहाँ है ? ये सब अन्तःकरण के ही धर्म हैं, सो अन्तःकरण ही मिथ्या है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

क्व दूरं क्व समीपं वा बाह्यं क्वाभ्यन्तरं क्व वा ।  
क्व स्थूलं क्व च वा सूक्ष्मं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥६॥

पदच्छेदः ।

क, दूरम्, क, समीपम्, वा, बाह्यम्, क, आभ्यन्तरम्, क, वा,  
क, स्थूलम्, क, च, वा, सूक्ष्मम्, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

स्वमहिम्नि=अपनी महिमा में

स्थितस्य=स्थित हुए

मे=मुझको

क्व=कहाँ

दूरम्=दूर है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

बाह्यम्=बाह्य है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

समीपम्=समीप है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

आभ्यन्तरम्=आभ्यन्तर है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

स्थूलम्=स्थूल है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

सूक्ष्मम्=सूक्ष्म है ?

भावार्थ ।

शिष्य कहता है कि हे गुरो ! अपनी महिमा में स्थित जो मैं हूँ, मेरी दृष्टि में आत्मा कहाँ ? और अनात्मा कहाँ है ? अर्थात् आत्मा और अनात्मा का व्यवहार अज्ञानी मूर्ख की दृष्टि में होता है । और शुभ कहाँ है ? और अशुभ कहाँ है ? चिन्ता और अचिन्ता कहाँ है ? किन्तु केवल चेतन ही अपनी महिमा में स्थित है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

क्व स्वप्नः क्व सुषुप्तिर्वा क्व च जागरणं तथा ।

क्व तुरीयं भयं वापि स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥५॥

पदच्छेदः ।

क्व, स्वप्नः, क्व, सुषुप्तिः, वा, क्व, च, जागरणम्, तथा, क्व, तुरीयम्, भयम्, वा, अपि, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

स्वमहिम्नि=अपनी महिमा में

स्थितस्य=स्थित हुए

मे=मुझको

क्व=कहाँ

स्वप्नः=स्वप्न है ?

च=और

वा=अथवा

क्व=कहाँ

सुषुप्तिः=सुषुप्ति है ?

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

तथा=और

जागरणम्=जाग्रत है ?

क्व=कहाँ

तुरीयम्=तुरीय है ?

अपि=और

क्व=अथवा

क्व=कहाँ

भयम्=भय है ?

भावार्थ ।

हे गुरो ! मेरी दृष्टि में जामत, स्वप्न तथा सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएँ भी नहीं हैं; क्योंकि ये तीनों अवस्थाएँ बुद्धि के धर्म हैं, सो बुद्धि ही मिथ्या भान होती है । तुरीय अवस्था कहाँ है ? और भय कहाँ है ? और अभय कहाँ है ? ये सब अन्त करण के ही धर्म हैं, सो अन्त करण ही मिथ्या है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

क्व दूरं क्व समीपं वा बाह्यं क्वाभ्यन्तरं क्व वा ।  
क्व स्थूलं क्व च वा सूक्ष्मं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

क, दूरम्, क, समीपम्, वा, बाह्यम्, क, आभ्यन्तरम्, क, वा,  
क, स्थूलम्, क, च, वा, सूक्ष्मम्, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

स्वमहिम्नि=अपनी महिमा में

स्थितस्य=स्थित हुए

मे=मुझको

क्व=कहाँ

दूरम्=दूर है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

बाह्यम्=बाह्य है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

समीपम्=समीप है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

आभ्यन्तरम्=आभ्यन्तर है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

स्थूलम्=स्थूल है ?

क्व=और

क्व=कहाँ

सूक्ष्मम्=सूक्ष्म है ?

भावार्थ ।

मेरे में दूर कहाँ है ? समीप कहाँ है ? बाह्य कहाँ है ? अन्तर कहाँ है ? स्थूल कहाँ है ? सूक्ष्म कहाँ है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है, उसमें कुछ भी नहीं बनता है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

क मृत्युर्जीवितं वा क लोकाः क्वास्य क लौकिकम् ।  
क लयः क्व समाधिर्वा स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥७॥

पदच्छेदः ।

क, मृत्युः, जीवितम्, वा, क, लोकाः, क, अस्य, क, लौकिकम्,  
क, लयः, क, समाधिः, वा, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

स्वमहिम्नि=अपनी महिमा में

स्थितस्य=स्थित हुए

मे=मुझको

क=कहाँ

मृत्युः=मृत्यु है ?

वा=अथवा

क=कहाँ

जीवितम्=जीवित है ?

क=कहाँ

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

लोकाः=भू आदि लोक है ?

अस्य=इस मुझ ज्ञानी को

क=कहाँ

लौकिकम्=लौकिक व्यवहार है ?

क=कहाँ

लयः=लय है ?

वा=अथवा

क=कहाँ

समाधिः=समाधि है ?

भावार्थ ।

मृत्यु कहाँ है ? और जीवन कहाँ है ? आत्मा तीनों कालों में एकरस ज्यों का त्यों अपनी महिमा में स्थित है । उसमें जन्म कहाँ ?

मरण कहाँ ? लोक कहाँ ? लोकों में होनेवाले पदार्थ कहाँ हैं ? लय कहाँ है ? और समाधि कहाँ ? अपनी महिमा में जो स्थित है, उसमें लयादिक भी तीनों कालों में नहीं है ॥ ७ ॥

मूलम् ।

अलं त्रिवर्गकथया योगस्य कथयाऽप्यलम् ।

अलं विज्ञानकथया विश्रान्तस्य समात्मनि ॥८॥

पदच्छेदः ।

अलम्, त्रिवर्गकथया, योगस्य, कथया, अपि, अलम्, अलम्, विज्ञानकथया, विश्रान्तस्य, मम, आत्मनि ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

आत्मनि=आत्मा में

विश्रान्तस्य=विश्रान्त हुए

मम=मुझको

त्रिवर्गकथया= { धर्म, अर्थ और काम की कथा से

अलम्=पूर्णता है

योगस्य=योग की

कथया=कथा से

अलम्=पूर्णता है

च=और

विज्ञानकथया= { विज्ञान की कथा से भी

अलम्=पूर्णता है ॥

भावार्थः ।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी कथाओं से, योग की कथाओं से, विज्ञान की कथाओं से भी कुछ प्रयोजन नहीं है । क्योंकि मैं आत्मा में विश्रान्ति को प्राप्त हुआ हूँ ॥ ८ ॥

इति श्रीअष्टावक्रगीतायामेकोनविंशतिकं प्रकरणं समाप्तम् ।



## वीसवाँ प्रकरण ।



मूलम् ।

क भूतानि क देहो वा क्केन्द्रियाणि क वा मनः ।  
क शून्यं क्व च नैराश्यं मत्स्वरूपे निरञ्जने ॥१॥

पदच्छेदः ।

क, भूतानि, क, देहः, वा, क, इन्द्रियाणि, क, वा, मनः, क,  
शून्यम्, क, च, नैराश्यम्, मत्स्वरूपे, निरञ्जने ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

निरञ्जने=निरञ्जन

मत्स्वरूपे=मेरे स्वरूप में

क=कहाँ

भूतानि=आकाशादि भूत हैं ?

क=कहाँ

देहः=देह है ?

वा=अथवा

क=कहाँ

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

इन्द्रियाणि=इन्द्रियाँ हैं

वा=अथवा

क=कहाँ

मनः=मन है ?

क=कहाँ

शून्यम्=शून्य है ?

क=कहाँ

नैराश्यम्= { आकाश का  
अभाव है ?

भावार्थः ।

अब बीसवें प्रकरण का आरंभ करते हैं—

विद्वानों की स्वभाव-भूत जो जीवन्मुक्ति-दशा है, उसको अब चौदह श्लोकों करके इस प्रकरण में निरूपण करते हैं—

शिष्य कहता है कि संपूर्ण उपाधियों से शून्य जो मेरा स्वरूप है, उस निरञ्जन मेरे स्वरूप में पाँच भूत कहाँ हैं ? और सूक्ष्म भूतों का कार्य इन्द्रिय कहाँ हैं ? और मन कहाँ है ?

प्रश्न—क्या तुम शून्य हो ?

उत्तर—शून्य भी मेरे में नहीं है, क्योंकि सद्रूप आत्मा में शून्य भी तीनों कालों में नहीं रह सकता है । शून्य कल्पित है । विना अधिष्ठान के शून्य की कल्पना भी नहीं हो सकती है । इन संपूर्ण-भूत इन्द्रियादिक कल्पित पदार्थों का मैं साक्षी हूँ ॥ १ ॥

मूलम् ।

क्व शास्त्रं क्वात्मविज्ञानं क्व वा निर्विषयं मनः ।  
क्व तृप्तिं क्व वितृष्णत्वं गतद्वन्द्वस्य मे सदा ॥ २ ॥

पदच्छेदः ।

क्व, शास्त्रम्, क्, आत्मविज्ञानम्, क्, वा, निर्विषयम्, मनः, क्, तृप्तिं, क्, वितृष्णत्वं, गतद्वन्द्वस्य, मे, सदा ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

सदा=सदा

गतद्वन्द्वस्य=द्वन्द्व-रहित

मे=मुझको

क्व=कहाँ

शास्त्रम्=शास्त्र है ?

क्व=कहाँ

आत्मविज्ञानम्=आत्म-ज्ञान है ?

क्व=कहाँ

निर्विषयम्=विषय-रहित

मनः=मन है ?

क्व=कहाँ

तृप्तिः=तृप्ति है ?

वा=और

क्व=कहाँ

वितृष्णत्वं=तृष्णा का अभाव ॥

भावार्थ ।

हे गुरो ! मेरा शास्त्र से और शास्त्र-जन्य ज्ञान से क्या प्रयोजन है ? और आत्म-विश्रान्ति से भी मेरा क्या प्रयोजन है ? सबके गलित होने से मेरे को न विषय-वासना है, न निर्वासना है, न तृप्ति है, न तृष्णा है, न द्वन्द्व है, न अद्वन्द्व है, किन्तु मैं शान्त एकरस हूँ ॥ २ ॥

मूलम् ।

क्व विद्या क्व च वाऽविद्या क्वाहं क्वेदं मम क्व वा ।  
क्व बन्धः क्व च वा मोक्षः स्वरूपस्य क्व रूपिता ॥३॥

पदच्छेदः ।

क्व, विद्या, क्व, च, वा, अविद्या, क्व, अहम्, क्व, इदम्, मम, क्व, वा, क्व, बन्धः, क्व, च, वा, मोक्षः, स्वरूपस्य, क्व, रूपिता ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

स्वरूपस्य=मेरे रूप को

क्व=कहाँ

रूपिता=रूपिता है ?

क्व=कहाँ

विद्या=विद्या है ?

च=और

क्व=कहाँ

अविद्या=अविद्या है ?

क्व=कहाँ

अहम्=अहंकार है

वा=अथवा

क्व=कहाँ

इदम्=यह याह्य वस्तु है ?

वा=अथवा

क्व=कहाँ

मम=मेरा है ?

वा=अथवा

क्व=कहाँ

बन्धः=बन्ध है ?

च=और

क्व=कहाँ

मोक्षः=मोक्ष है ?

भावार्थ ।

मेरे में अविद्या आदिक धर्म कहाँ हैं ? अहंकार कहाँ है ? बाह्य वस्तु कहाँ है ? ज्ञान कहाँ है ? मेरा किसके साथ सम्बन्ध है ? सम्बन्ध दूसरे के साथ होता है, दूसरा न होने से मैं सम्बन्ध-रहित हूँ । बन्ध और मोक्ष धर्म भी मेरे में नहीं हैं । मेरे निर्विशेष स्वरूप में धर्म की वार्ता भी कोई नहीं है, और निर्धर्मक मेरे स्वरूप में विद्या आदिक कोई भी धर्म नहीं है ॥ ३ ॥

श्रुतम् ।

क्व प्रारब्धानि कर्माणि जीवन्मुक्तिरपि क्व वा ।  
क्व तद्विदेहकैवल्यं निर्विशेषस्य सर्वदा ॥४॥

पदच्छेदः ।

क्व, प्रारब्धानि, कर्माणि, जीवन्मुक्तिः, अपि, क्व, वा, क्व, तत्, विदेहकैवल्यम्, निर्विशेषस्य, सर्वदा ।

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
सर्वदा=सर्वदा		वा=अथवा	
निर्विशेषस्य=	{ निर्विशेष अर्थात् धर्माधर्म-रहित	क्व=कहाँ	
मे=मुझको		जीवन्मुक्तिः=जीवन्मुक्ति है	
क्व=कहाँ		च=और	
प्रारब्धानि=प्रारब्ध		क्व=कहाँ	
कर्माणि=कर्म है ?		तद्विदेहकैव- ल्यम् अपि = { यह विदेहमुक्ति रहित है ? ॥	

भावार्थ ।

शिष्य कहता है कि हे गुरो ! मुझ निर्विशेष, निराकार, निरवयव आत्मा का प्रारब्ध-कर्म कहाँ है ? जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति कहाँ है, किन्तु कोई भी वास्तव में नहीं है ॥ ४ ॥

मूलम् ।

क्व कर्ता क्व च वा भोक्ता निष्क्रियं स्फुरणं क्व वा ।  
क्वापरोक्षं फलं वा क्व निःस्वभावस्व मे सदा ॥५॥

पदच्छेदः ।

क्व, कर्ता, क्व, च, वा भोक्ता, निष्क्रियम्, स्फुरणम्, क्व, वा,  
क्व, अपरोक्षम्, फलम्, वा, क्व, निःस्वभावस्य मे सदा ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

सदा=सदा

निःस्वभावस्य=स्वभाव-रहित

मे=मुझको

क्व=कहाँ

कर्ता=कर्तापना है ?

च=और

क्व=कहाँ

भोक्ता=भोक्तापना है ?

वा=अथवा

क्व=कहाँ

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

निष्क्रियम्=क्रिया-रहित है ?

वा=अथवा

क्व=कहाँ

स्फुरणम्=स्फुरण है ?

वा=अथवा

क्व=कहाँ

अपरोक्षम्=प्रत्यक्ष-ज्ञान है ?

वा=अथवा

क्व=कहाँ

फलम्= { विषयाकार वृत्त्य-  
वच्छिन्न चेतन है ।

भावार्थ ।

जो मैं स्वभाव से रहित हूँ उस मेरे में कर्तृत्वकर्म कहाँ है ? और भोक्तृत्वकर्म कहाँ है ? अर्थात् कर्तापना और भोक्तापना दोनों मेरे में नहीं हैं । क्योंकि क्रिया से रहित मुझ आत्माऽऽनन्द में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं बनते हैं । इसी वास्ते वृत्ति-रूप ज्ञान भी मेरे में नहीं है । क्योंकि चित्त के स्फुरण से वृत्ति-रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, सो चित्त का स्फुरण भी मेरे में नहीं है ॥ ५ ॥

मूलम् ।

क लोकः क मुमुक्षुर्वा क योगी ज्ञानवान् क वा ।

क्व वद्धः क्व च वा मुक्तः स्वस्वरूपेऽहमद्वये ॥ ६ ॥

पदच्छेदः ।

क, लोकः, क, मुमुक्षुः, वा, क, योगी, ज्ञानवान्, क, वा, क, वद्धः, क, च, वा, मुक्तः, स्वस्वरूपे, अहम्, अद्वये ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अहम्=आत्म-रूप

अद्वये=अद्वैत

स्वस्वरूपे=अपने स्वरूप में

क=कहाँ

लोकः=लोक है ?

क=कहाँ

मुमुक्षुः=मुमुक्षु है ?

वा=अथवा

क=कहाँ

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

योगी=योगी है ?

क=कहाँ

ज्ञानवान्=ज्ञानवान् है ?

वा=अथवा

क=कहाँ

वद्धः=वद्ध है ?

च=और

वा=अथवा

क=कहाँ

मुक्तः=मुक्त है ? ॥

भावार्थ ।

अद्वैत आत्मा में भूरादि लोक कहाँ हैं ? अर्थात् कहीं नहीं हैं । और लोकों के अभाव होने से मुमुक्षु भी नहीं हैं । मुमुक्षु के अभाव होने से ज्ञानवान् योगी भी नहीं है । ऐसा होने से न कोई बद्ध है । और न कोई मुक्त है ? केवल अद्वैत आत्मा ही है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

क्व सृष्टिः क्व च संहारः क्व साध्यं क्व च साधनम् ।  
क्व साधकः क्व सिद्धिर्वा स्वस्वरूपेऽहमद्वये ॥ ७ ॥

पदच्छेदः ।

क्व, सृष्टिः, क्व, च, संहारः, क्व, साध्यम्, क्व, च, साधनम्, क्व, साधकः, क्व, सिद्धिः, वा, स्वस्वरूपे, अहम्, अद्वये ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अहम्=आत्मा-स्वरूप  
अद्वये=अद्वैत  
स्वस्वरूपे=अपने स्वरूप में  
क्व=कहाँ  
सृष्टिः=सृष्टि है  
च=और  
क्व=कहाँ  
संहारः=संहार है ?  
क्व=कहाँ

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

साध्यम्=साध्य है  
च=और  
क्व=कहाँ  
साधनम्=साधन है  
क्व=कहाँ  
साधकः=साधक है ?  
वा=और  
क्व=कहाँ  
सिद्धिः=सिद्धि है ॥

भावार्थ ।

सृष्टि कहाँ ? प्रलय कहाँ ? साध्य कहाँ ? साधन कहाँ ? साधक कहाँ ? और सिद्धि कहाँ ? अर्थात् इनमें से कोई भी मुक्त अद्वैत-स्वरूप आत्मा में नहीं है ॥ ७ ॥

मूलम् ।

क्व प्रमाता प्रमाणं वा क्व प्रमेयं क्व च प्रमा ।  
क्व किञ्चित्क्व न किञ्चिद्वा सर्वदा विमलस्य मे ॥८॥

पदच्छेदः ।

क्व, प्रमाता, प्रमाणम्, वा, क्व, प्रमेयम्, क्व, च, प्रमा, क्व, किञ्चित्, क्व, न, किञ्चित्, वा, सर्वदा, विमलस्य, मे ॥

अन्वयः । शब्दार्थः । अन्वयः । शब्दार्थः ।

सर्वदा=सर्वदा

विमलस्य=निर्मल-रूप

मे=मुझको

क्व=कहाँ

प्रमाता=प्रमाता है ?

वा=और

क्व=कहाँ

प्रमाणम्=प्रमाण है ?

च=और

क्व=कहाँ

प्रमेयम्=प्रमेय है ?

च=और

क्व=कहाँ

प्रमा=प्रमा है ?

क्व=कहाँ

किञ्चित्=किञ्चित् है ?

वा=और

क्व=कहाँ

न किञ्चित्=न किञ्चित् है ॥

भावार्थ ।

सर्वदा जो उपाधि-रूपी मल से रहित है, अर्थात् जिसमें उपाधि



शरीरादिक वास्तव में नहीं हैं। उसमें प्रमातापना, प्रमाणपना और प्रमेयपना कहाँ हो सकता है। अर्थात् प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये तीनों अज्ञान के कार्य हैं। जब स्वप्रकाश चेतन में अज्ञान की संभावना-मात्र भी नहीं है, तब उसके कार्यों की संभावना कैसे हो सकती है, किन्तु कदापि नहीं हो सकती है। और प्रमा जो वृत्ति-ज्ञान है, वह भी नहीं है। क्योंकि वृत्ति-ज्ञान अन्तःकरण का धर्म है, सो अन्तःकरण ही उसमें नहीं है। वह शुद्ध-स्वरूप आत्मा है ॥ ८ ॥

मूलम् ।

क्व विक्षेपः क्व चैकाग्र्यम् क्व निर्वोधः क्व मूढता ।  
क्व हर्षः क्व विपादो वा सर्वदा निष्क्रियस्य मे ॥६॥

पदच्छेदः ।

क्व, विक्षेपः, क्व, च, एकाग्र्यम्, क्व, निर्वोधः, क्व, मूढता, क्व, हर्षः, क्व, विपादः, वा, सर्वदा, निष्क्रियस्य, मे ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

सर्वदा=सर्वदा

निष्क्रियस्य=क्रिया-रहित

मे=मुझको

क्व=कहाँ

विक्षेपः=विक्षेप है ?

च=और

क्व=कहाँ

एकाग्र्यम्=एकाग्रता है

क्व=कहाँ

निर्वोधः=ज्ञान है ?

क्व=कहाँ

मूढता=मूढता है ?

क्व=कहाँ

हर्षः=हर्ष है ?

वा=और

क्व=कहाँ

विपादः=शोक है ?

भावार्थः ।

शिष्य कहता है कि हे गुरु ! सर्वदा क्रिया से रहित जो मेरा

स्वरूप है, उसमें एकाग्रता कहाँ है ? जहाँ पर प्रथम विक्षेप होता है, वहाँ पर विक्षेप की निवृत्ति के लिये एकाग्रता की जाती है, सो मेरे में विक्षेप तो तीनों कालों में है नहीं, तब एकाग्रता कौन करे और निरोधता अर्थात् मूढ़ता भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा में मूढ़ता तीनों कालों में नहीं है, और हर्ष भी मेरे में नहीं है, और न विषाद है । क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों अन्त करण के धर्म हैं, वह अन्त करण क्रियाशाला है । आत्मा क्रिया रहित है । उसमें हर्ष और विषाद कहाँ है ॥ ६ ॥

मूलम् ।

क्व चैव व्यवहारो वा क्व च सा परमार्थता ।

क्व सुखं क्व च वा दुःखं निर्विमर्शस्य मे सदा ॥ १० ॥

पदच्छेद ।

क्व, च, एव, व्यवहार, वा, क्व, च, सा, परमार्थता, क्व, सुखम्,  
क्व, च, वा, दुःखम्, निर्विमर्शस्य, मे, सदा ॥

अन्वय ।	शब्दार्थ ।	अन्वय ।	शब्दार्थ ।
सदा=सर्वदा		सा=यह	
निर्विमर्शस्य=निर्मल-रूप		परमार्थता=परमांशता है ।	
मे=मुझको		वा=अथवा	
क्व=कहाँ		क्व=कहाँ	
एव=यह		सुखम्=सुख है ।	
व्यवहार=व्यवहार है ?		च=और	
क्व=कहाँ		क्व=कहाँ	
		दुःखम्=दुःख है ।	

भाषार्थ ।

सर्वदा जो निर्विशेष्य अर्थात् वृत्ति-ज्ञान से शून्य जो मैं हूँ, मेरे में व्यवहार कहाँ है ? अर्थात् व्यावहारिक पदार्थों का ज्ञान कहाँ है ? और पारमार्थिक ज्ञान कहाँ है ? ये भी दोनों अन्तःकरण के धर्म हैं, और सुख तथा दुःख भी मेरे में नहीं हैं, क्योंकि ये भी दोनों अन्तःकरण के धर्म हैं ॥ १० ॥

मूलम् ।

क्व माया क्व च संसारः क्व प्रीतिर्विरतिः क्व वा ।  
क्व जीवः क्व च तद्ब्रह्म सर्वदा विमलस्य मे ॥११॥

पदच्छेदः ।

क्व, माया, क्व, च, संसारः, क्व, प्रीतिः, विरतिः, क्व, वा, क्व, जीवः, क्व, च, तत्, ब्रह्म, सर्वदा, विमलस्य, मे ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
सर्वदा=सर्वदा		प्रीतिः=प्रीति है ?	
विमलस्य=निर्मल		वा=और	
मे=मुझको		क्व=कहाँ	
क्व=कहाँ		विरतिः=विरति है ?	
माया=माया है ?		क्व=कहाँ	
च=और		जीवः=जीव है ?	
क्व=कहाँ		च=और	
संसारः=संसार है ?		क्व=कहाँ	
क्व=कहाँ		तद्ब्रह्म=वह ब्रह्म है ?	

भावार्य ।

हे गुरो ! सर्वदा विमल उपाधि से शून्य जो मैं हूँ, उस मेरे में माया कहाँ है ? और माया के अभाव होने से माया का कार्य जगत् मेरे में कहाँ है ? वह भी तीनों कालों में मेरे में नहीं है ? और-प्रीति तथा विरति भी मेरे में नहीं है ? और जीव तथा ब्रह्मभाव भी मेरे में नहीं हैं ? क्योंकि दोनों माया अविद्या-रूपी उपाधियों करके ही कहे जाते हैं । जब कि कोई भी उपाधि वास्तव में नहीं है, तब जीवभाव और ईश्वरभाव भी कहना नहीं बनता है ॥ ११ ॥

मूलम् ।

क्व प्रवृत्तिर्निवृत्तिर्वा क्व मुक्तिः क्व च बन्धनम् ।

कूटस्थनिर्विभागस्य स्वस्थस्य मम सर्वदा ॥ १२ ॥

पदच्छेदः ।

क्व, प्रवृत्तिः, निवृत्तिः, वा, क्व, मुक्तिः, क्व च, बन्धनम्, कूटस्थनिर्विभागस्य, स्वस्थस्य, मम, सर्वदा ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

अन्वयः ।

शब्दार्थः ।

सर्वदा=सर्वदा

स्वस्थस्य=स्थिर

कूटस्थ-निर्विभागस्य = { कूटस्थ और  
विभाग-रहित

मम=मुझको

क्व=कहाँ

प्रवृत्तिः=प्रवृत्ति है ?

वा=अथवा

क्व=कहाँ

निवृत्तिः=निवृत्ति है ?

च=और

क्व=कहाँ

मुक्तिः=मुक्ति है ?

च=और

क्व=कहाँ

बन्धनम्=बन्ध है ?

भावार्थ ।

कूटस्थ-विभाग से रहित और क्रिया से रहित जो मैं हूँ, उस मेरे में प्रवृत्ति कहाँ है ? और निवृत्ति कहाँ है ? मुक्ति कहाँ है ? और बन्ध कहाँ है ? अर्थात् ये सब निर्विकार आत्मा में कभी भी नहीं बन सकते हैं ॥ १२ ॥

मूलम् ।

क्वोपदेशः क्व वा शास्त्रं क्व शिष्यः क्व च वा गुरुः ।  
क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपाधेः शिवस्य मे ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

क्व, उपदेशः, क्व, वा, शास्त्रम्, क्व, शिष्यः, क्व, च, वा, गुरुः,  
क्व, च, अस्ति, पुरुषार्थः, वा, निरुपाधेः, शिवस्य, मे ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
निरुपाधेः=उपाधि-रहित		शिष्यः=शिष्य है ?	
शिवस्य=कल्याण-रूप		च=और	
मे=मुझको		वा=अथवा	
क्व=कहाँ		क्व=कहाँ	
उपदेशः=उपदेश है ?		गुरुः=गुरु है ?	
वा=अथवा		च=और	
क्व=कहाँ		क्व=कहाँ	
शास्त्रम्=शास्त्र है ?		पुरुषार्थः=मोक्ष	
क्व=कहाँ		अस्ति=है ?	

भावार्थ ।

शिव-रूप अर्थात् कल्याण-रूप उपाधि से रहित जो मैं हूँ, उस मेरे लिये उपदेश कहाँ है ? क्योंकि उपदेश जो होता है, अपने से भिन्न को होता है, सो अपने से भिन्न तो कोई भी नहीं है, इस वास्ते शास्त्र-गुरु-रूपी उपदेश कभी नहीं है, और शिष्यभाव तथा गुरुभाव भी नहीं है, क्योंकि ये सभी भेद को ले करके ही होते हैं ॥ १३ ॥

मूलम् ।

क्व चास्तिक्वचवानास्तिक्वास्ति चैकं क्वचद्वयम् ।  
बहुनात्र किमुक्तेन किञ्चिन्नोत्तिष्ठते मम ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

क्व, च, अस्ति, क्व, च, वा, न, अस्ति, क्व, अस्ति, च, एकम्,  
क्व, च, द्वयम्, बहुना, अत्र, किम्, उक्तेन, किञ्चित्, न, उत्तिष्ठते, मम ॥

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

अन्वयः ।

शब्दार्थ ।

क्व=कहाँ

अस्ति=चास्ति है ?

च=और

क्व=कहाँ

नास्ति=नास्ति है

च=और

क्व=कहाँ

एकम्=एक

अस्ति=है ?

च=और

क्व=कहाँ

द्वयम्=दो हैं ?

अत्र=इसमें

बहुना=बहुत

उक्तेन=कहने से

किम्=क्या प्रयोजन है ?

मम=मुझको

किञ्चित्=कोई वस्तु

न=नहीं

उत्तिष्ठते=प्रकाश करता है ॥



भावार्थ ।

कूटस्थ-विभाग से रहित और क्रिया से रहित जो मैं हूँ, उस भेरे में प्रवृत्ति कहाँ है ? और निवृत्ति कहाँ है ? मुक्ति कहाँ है ? और बन्ध कहाँ है ? अर्थात् ये सब निर्विकार आत्मा में कभी भी नहीं बन सकते हैं ॥ १२ ॥

मूलम् ।

क्वोपदेशः क्व वा शास्त्रं क्व शिष्यः क्व च वा गुरुः ।  
क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरुपाधेः शिवस्य मे ॥ १३ ॥

पदच्छेदः ।

क्व, उपदेशः, क्व, वा, शास्त्रम्, क्व, शिष्यः, क्व, च, वा, गुरुः,  
क्व, च, अस्ति, पुरुषार्थः, वा, निरुपाधेः, शिवस्य, मे ॥

अन्वयः ।	शब्दार्थः ।	अन्वयः ।	शब्दार्थः ।
निरुपाधेः=उपाधि-रहित		शिष्यः=शिष्य है ?	
शिवस्य=कल्याण-रूप		च=और	
मे=मुझको		वा=अथवा	
क्व=कहाँ		क्व=कहाँ	
उपदेशः=उपदेश है ?		गुरुः=गुरु है ?	
वा=अथवा		च=और	
क्व=कहाँ		क्व=कहाँ	
शास्त्रम्=शास्त्र है ?		(पुरुषार्थः=मोक्ष	
क्व=कहाँ		अस्ति=है ?	



भावार्थ ।

शिव-रूप अर्थात् कल्याण-रूप उपाधि से रहित जो मैं हूँ, उस मेरे लिये उपदेश कहाँ है ? क्योंकि उपदेश जो होता है, अपने से भिन्न को होता है, सो अपने से भिन्न तो कोई भी नहीं है, इस वास्ते शास्त्र-गुरु-रूपी उपदेश कभी नहीं है, और शिष्यभाव तथा गुरुभाव भी नहीं है, क्योंकि ये सभी भेद को ले करके ही होते हैं ॥ १३ ॥

मूलम् ।

क्व चास्ति क्व च वा नास्ति क्वास्ति चैकं क्व च द्वयम् ।  
वहुनात्र किमुक्तेन किञ्चिन्नोत्तिष्ठते मम ॥ १४ ॥

पदच्छेदः ।

क्व, च, अस्ति, क्व, च, वा, न, अस्ति, क्व, अस्ति, च, एकम्,  
क्व, च, द्वयम्, बहुना, अत्र, किम्, उक्तेन, किञ्चित्, न, उत्तिष्ठते, मम ॥  
अन्वयः । शब्दार्थः । अन्वयः । शब्दार्थः ।

क्व=कहाँ  
अस्ति=अस्ति है ?  
च=और  
क्व=कहाँ  
नास्ति=नास्ति है  
च=और  
क्व=कहाँ  
एकम्=एक  
अस्ति=है ?  
च=और

क्व=कहाँ  
द्वयम्=दो हैं ?  
अत्र=इसमें  
बहुना=बहुत  
उक्तेन=कहने से  
किम्=क्या प्रयोजन है ?  
मम=मुझको  
किञ्चित्=कोई वस्तु  
न=नहीं  
उत्तिष्ठते=प्रकाश करता है ॥

भावार्थ ।

मुझमें अस्ति अर्थात् है, और नास्ति अर्थात् नहीं है, यह भी स्फुरण नहीं होता है । क्योंकि असत्य की अपेक्षा से 'अस्ति' व्यवहार होता है, और सत्य की अपेक्षा से 'नास्ति' व्यवहार होता है, सो मेरे में व्यवहार के अभाव से दोनों नहीं हैं । न एकपना है, न द्वैतपना है । बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है, चैतन्यस्वरूप में कुछ भी नहीं बनता है ॥ १४ ॥

इति श्रीबाबूजालिमसिंहवृताष्टावक्रगीताभाषाटीकाया जीवन्मुक्ति-  
चतुर्दशक नाम त्रिंशतिक प्रकरण समाप्तम् ॥ २० ॥

